

॥ श्रीहरिः ॥

ऐतरेयोपनिषद्

[सानुवाद शांकरभाष्यसहित]

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
 त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
 त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
 त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

॥ श्रीहरिः ॥

प्रस्तावना

ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद् है। यह उपनिषद् ब्रह्मविद्याप्रधान है। भगवान् शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसके उपोद्घात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए कर्म और कर्मसमुच्चित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको ही उसका एकमात्र साधन बतलाया है। फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है। वहाँ वे कहते हैं कि 'गृहस्थाश्रम' अपने गृहविशेषके परिग्रहका नाम है और यह कामनाओंके रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता है। इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृहस्थाश्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे स्वतः ही भिक्षुकत्वकी प्राप्ति हो जायगी। आचार्यका मत है कि 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' आदि श्रुतियाँ केवल अज्ञानियोंके लिये हैं, बोधवान्के लिये इस प्रकारकी कोई विधि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार विद्वान्के लिये पारिव्राज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर वे जिज्ञासुके लिये भी उसकी अवश्यकर्तव्यताका विधान करते हैं। इसके लिये उन्होंने 'शान्तो दान्त उपरतस्तिक्षुः' 'अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्' 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' आदि श्रुति और 'ज्ञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्' 'ब्रह्माश्रमपदे वसेत्' आदि स्मृतियोंको उद्धृत किया है। ब्रह्मजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये भी चतुर्थाश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके विषयमें यह शंका नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निवृत्ति किये बिना

संन्यासका अधिकार नहीं है; क्योंकि गृहस्थाश्रमको स्वीकार करनेसे पूर्व तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है। अतः आचार्यका सिद्धान्त है कि जिसे आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप अनित्य संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रममें हो, उसे संन्यास ग्रहण करना ही चाहिये।

इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हैं—(१) जिज्ञासुको तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते हुए ज्ञानोपयोगिनी साधन-सम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है और (२) बोधवान्में कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिये उसका गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं है। अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन-सम्पत्तिको उपार्जन करना तथा कामनाओंका अभाव—ये ही गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं। जो लोग घरमें रहते हुए ही शम-दमादि साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन बोधवानोंकी निष्कामतामें अपने गृहविशेषमें रहना बाधक नहीं होता वे घरमें रहते हुए भी ज्ञानोपार्जन और ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं। वे स्वरूपसे संन्यासी न होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधर्मसम्पन्न होनेके कारण आचार्यके मतका ही अनुसरण करनेवाले हैं। अस्तु।

इस उपनिषद्में तीन अध्याय हैं। उनमेंसे पहले अध्यायमें तीन खण्ड हैं तथा दूसरे और तीसरे अध्यायोंमें केवल एक-एक खण्ड है। प्रथम अध्यायमें यह बतलाया गया है कि सृष्टिके आरम्भमें केवल एक आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने लोक-रचनाके लिये ईक्षण (विचार) किया और केवल संकल्पसे ही अम्भ, मरीचि और मर—इन तीन लोकोंकी रचना की। इन्हें रचकर उस परमात्माने उनके लिये लोकपालोंकी रचना करनेका विचार किया और जलसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया। परमात्माके संकल्पसे ही उस विराट् पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता देव उत्पन्न हो गये। जब वे इन्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महासमुद्रमें आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्याससे युक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई

ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित होकर हम अन्न-भक्षण कर सकें। परमात्माने उनके लिये एक गौका शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने 'यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है' ऐसा कहकर उसे अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् घोड़ेका शरीर लाया गया किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ अन्तमें परमात्माने उनके लिये मनुष्यका शरीर लाया। उसे देखकर सभी देवताओंने एकस्वरसे उसका अनुमोदन किया और वे सब परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन्न-भिन्न अवयवोंमें वाक्, प्राण, चक्षु आदि रूपसे स्थित हो गये। फिर उनके लिये अन्नकी रचना की गयी। अन्न उन्हें देखकर भागने लगा। देवताओंने उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्रादि भिन्न-भिन्न करणोंसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु वे इसमें सफल न हुए। अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्माने विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि मेरे बिना यह सारा प्रपंच किंचित्कर ही है। अतः वह उस पुरुषकी मूर्द्धसीमाको विदीर्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादात्म्य हो जाता है। पीछे जब गुरुकृपासे बोध होनेपर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार होता है तो उसे 'इदम्'—इस तरह अपरोक्षरूपसे देखनेके कारण उसकी 'इन्द्र' संज्ञा हो जाती है।

इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशपर्यन्त जो सृष्टिक्रम बतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्यस्वामीने ईश्वरसृष्टि कहा है। 'ईक्षणादिप्रवेशान्तः संसार ईशकल्पितः'। इस आख्यायिकामें बहुत-सी विचित्र बातें देखी जाती हैं। यों तो मायामें कोई भी बात कुतूहलजनक नहीं हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है। इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है। यह केवल आत्माके अद्वितीयत्वका बोध करानेके लिये ही कही गयी है; क्योंकि समस्त संसार आत्माका ही संकल्प होनेके कारण आत्मस्वरूप ही है। द्वितीय अध्यायके आरम्भमें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान् भाष्यकारने आत्मतत्त्वका बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है।

इस अध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीवकी तीन अवस्थाओंका—जिन्हें प्रथम अध्यायमें 'आवसथ' नामसे कहा है—वर्णन किया गया है। जीवके तीन जन्म माने गये हैं—(१) वीर्यरूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, (२) बालकरूपसे उत्पन्न होना और (३) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना। 'आत्मा वै पुत्रनामासि' (कौषी० २। ११) इस श्रुतिके अनुसार पिता और पुत्रका अभेद है; इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका तृतीय जन्म बतलाया गया है। वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही अपने बहुत-से जन्मोंका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं लोहमय दुर्गोंके समान सैकड़ों शरीरमें बंदी रह चुका हूँ; किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे मैं श्येन पक्षीके समान उनका भेदन कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे। अतः आत्माको भूत एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपंचसे सर्वथा असंग अनुभव करना ही अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है।

इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानको परमपद-प्राप्तिका एकमात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया है। वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम एवं वश—ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं। यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, समस्त देवगण, पंचमहाभूत तथा उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु हैं। यही हाथी, घोड़े, मनुष्य तथा सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत् है। इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञानमें स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला है और स्वयं भी प्रज्ञानस्वरूप ही है, तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोकसे उत्क्रमण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो जाता है।

यही इस उपनिषद्का सारांश है। इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका

सार्वात्म्य-प्रतिपादन ही है। आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है। प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमशः गौ और अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत न हुए। उसके पश्चात् मनुष्य-शरीर दिखलाया गया। उसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे स्वीकार भी किया। देवताओंकी उत्पत्ति विराट् शरीरके अवयवोंसे हुई थी; अतः विराट्के अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर ही आयतनरूपसे ग्राह्य हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याणका आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता है। अकारणकरुणामय श्रीभगवान्की कृपासे हमें वह परमलाभ प्राप्त करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह अत्यन्त दुर्लभ सुअवसर निष्फल न हो जाय।

—अनुवादक



अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१- शान्तिपाठ	९	१४- अन्नका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग ...	४७
प्रथम अध्याय		१५- अपानद्वारा अन्नग्रहण	५०
प्रथम खण्ड		१६- परमात्माका शरीरप्रवेश-सम्बन्धी विचार	५०
२- सम्बन्धभाष्य	१०	१७- परमात्माका मूर्द्धद्वारसे शरीरप्रवेश	५३
३- आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि	३०	१८- जीवका मोह और उसकी निवृत्ति	५६
४- सृष्टिक्रम	३३	१९- 'इन्द्र' शब्दकी व्युत्पत्ति ..	५७
५- पुरुषरूप लोकपालकी रचना	३६	द्वितीय अध्याय	
६- इन्द्रियगोलक; इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति	३६	प्रथम खण्ड	
द्वितीय खण्ड		२०- प्रस्तावना	५९
७- देवताओंकी अन्न एवं आयतनयाचना	३९	२१- पुरुषका पहला जन्म	७३
८- गो और अश्वशरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा उनकी अस्वीकृति	४१	२२- पुरुषका दूसरा जन्म	७५
९- मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति	४२	२३- पुरुषका तीसरा जन्म	७७
१०- देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश	४३	२४- वामदेवकी उक्ति	७९
११- क्षुधा और पिपासाका विभाग	४४	२५- वामदेवकी गति	८०
तृतीय खण्ड		तृतीय अध्याय	
१२- अन्नरचनाका विचार	४६	प्रथम खण्ड	
१३- अन्नकी रचना	४६	२६- आत्मसम्बन्धी प्रश्न	८३
		२७- प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम	८६
		२८- प्रज्ञानकी सर्वरूपता	८९
		२९- आत्मैक्यवेत्ताकी अमृतत्व-प्राप्ति	९३
		३०- शान्तिपाठ	९४

ॐ
तत्सद्ब्रह्मणे नमः

ऐतरेयोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शांकरभाष्य और भाष्यार्थसहित

मनस्तापतमःशान्त्यै यस्य पादनखच्छटा ।
शरच्चन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीलचिन्मणिम् ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित-
माविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः ।
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि ।
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

मेरी वागिन्द्रिय मनमें स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो [अर्थात् मेरी वागिन्द्रिय और मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें] । हे स्वप्रकाश परमात्मन्! तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ । [हे वाक् और मन!] तुम मेरे प्रति वेदको लाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे । अपने इस अध्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक कर दूँ [अर्थात् मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे] । मैं ऋत (वाचिक सत्य)-का भाषण करूँ और सत्य (मनमें निश्चय किया हुआ सत्य) बोलूँ । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे । वह मेरी रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे—वक्ताकी रक्षा करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।



प्रथमोऽध्यायः

प्रथम खण्ड

सम्बन्धभाष्य

परिसमाप्तं कर्म सहापरब्रह्म-

विषयविज्ञानेन । सैषा

ग्रन्थस्य

कर्मणो ज्ञानसहितस्य

प्रयोजनम्

परा गतिरुक्थविज्ञान-

द्वारेणोपसंहिता । “एतत्सत्यं ब्रह्म

प्राणाख्यम्” “एष एको देवः”

“एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा

विभूतयः” “एतस्य प्राणस्यात्म-

भावं गच्छन्देवता अप्येति”

इत्युक्तम् । सोऽयं देवताप्यय-

लक्षणः परः पुरुषार्थः, एष

मोक्षः । स चायं यथोक्तेन

ज्ञानकर्मसमुच्चयसाधनेन प्राप्तव्यो

यहाँतक अपरब्रह्म (हिरण्यगर्भ)

विषयक विज्ञान (उपासना)-के सहित कर्मका निरूपण समाप्त हुआ^१ ।

उस ज्ञानसहित कर्मकी परा गतिका उक्थविज्ञानके^२ द्वारा उपसंहार किया गया है । [उस उपसंहारका मूलके वाक्योंद्वारा प्रदर्शन कराते हैं—]

“यह प्राणसंज्ञक सत्यब्रह्म है”

“यह एक देव है” “सम्पूर्ण देव इस प्राणकी ही विभूतियाँ हैं ।”

“इस प्राणके तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक देवतामें लीन हो जाता है”—ऐसा कहा गया ।

यह देवतामें लय होना ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है और वह यह (देवतालयरूप मोक्ष)

इस ज्ञानकर्म-समुच्चयरूप यथोक्त साधनसे ही प्राप्त होनेयोग्य है;

१-ऐतरेय ब्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद् है । इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है । इससे पूर्ववर्ती अध्यायोंमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन है । अतः इस वाक्यसे यहाँ उसका परामर्श किया है ।

२-उक्थ प्राणको कहते हैं । अतः ‘वह उक्थ यानी प्राण में हूँ’ ऐसी दृढ़ भावनाके द्वारा उसीमें लय हो जाना ‘उक्थविज्ञान’ है ।

नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः ।
तान्निराचिकीर्षुरुत्तरं केवलात्म-
ज्ञानविधानार्थम् 'आत्मा वा इदम्'
इत्याद्याह ।

कथं पुनरकर्मसम्बन्धिकेवलात्म-
प्रतिपाद्य- विज्ञानविधानार्थ
विचारः उत्तरो ग्रन्थ इति
गम्यते ?

अन्यार्थानवगमात् । तथा च
पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां-
संसारित्वं दर्शयिष्यत्यशनायादि
दोषवत्त्वेन "तमशनापिपासाभ्या-
मन्ववार्जत्" (१।२।१)
इत्यादिना । अशनायादिमत्सर्व
संसार एव; परस्य तु
ब्रह्मणोऽशनायाद्यत्ययश्रुतेः ।

भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष-
समुच्चयवादिन साधनं न
आक्षेपः त्वत्राकर्म्मैवाधिक्रियते,
विशेषाश्रवणात् । अकर्मिण
आश्रम्यन्तरस्येहाश्रवणात् । कर्म च

इससे परे और कुछ नहीं है—ऐसा
कुछ लोग समझते हैं। उन
[समुच्चयवादियोंके मत]—का निरा-
करण करनेकी इच्छासे श्रुति केवल
आत्मविज्ञानका विधान करनेके लिये
'आत्मा वा इदम्' इत्यादि ग्रन्थका
उल्लेख करती है।

पूर्व०—परन्तु यह कैसे ज्ञात
होता है कि आगेका ग्रन्थ कर्मके
सम्बन्धसे रहित केवल आत्मज्ञानका
ही विधान करनेके लिये है ?

सिद्धान्ती—क्योंकि इससे
[ब्रह्मज्ञानके सिवा] किसी और अर्थका
ज्ञान नहीं होता। इसके सिवा श्रुति
"उसे भूख और पिपासासे युक्त कर
दिया" इत्यादि वाक्योंसे उन अग्नि
आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि
दोषोंसे युक्त दिखलाते हुए उनका
संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी। परब्रह्म
भूख-प्यास आदिसे अतीत है—ऐसी
श्रुति होनेके कारण क्षुधा आदिसे युक्त
तो सब-का-सब संसार ही है।

पूर्व०—इस प्रकार केवल
आत्मज्ञान ही मोक्षका साधन
भले ही हो; परन्तु उसमें केवल
कर्मत्यागी पुरुषका ही अधिकार
नहीं है, क्योंकि इस विषयमें
कोई विशेष श्रुति नहीं है; अर्थात्
किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तरका यहाँ

बृहतीसहस्रलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तर-
मेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते। तस्मात्
कर्मैवाधिक्रियते।

न च कर्मासम्बन्ध्यात्मविज्ञानं
पूर्ववदन्त उपसंहारात्। यथा
कर्मसम्बन्धिनः पुरुषस्य सूर्यात्मनः
स्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यात्मत्व-
मुक्तं ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “सूर्य
‘आत्मा’” (ऋ० सं० १।११५।१)
इत्यादिना, तथैव ‘एष ब्रह्मैष
इन्द्रः’ (३।१।३) इत्या-
द्युपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम्
‘यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम्’
(३।१।३) इत्युपसंहरिष्यति।

तथा च संहितोपनिषदि
“एतं ह्येव बह्वृचा महत्युक्थे

उल्लेख नहीं है। और बृहतीसहस्र
नामक कर्मकी अवतारणाकर उसके
अनन्तर ही आत्मज्ञानका प्रारम्भ
कर दिया है। अतः इसमें कर्मठ
पुरुषका ही अधिकार है।

इसके सिवा आत्मज्ञान कर्मसे
सर्वथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि
यहाँ भी अन्तमें उसका पहलेहीके
समान उपसंहार किया गया है।
जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने “सूर्य
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च^१” इस
वाक्यद्वारा सूर्यके आत्मभावको प्राप्त
हुए [सूर्य-मण्डलान्तर्वर्ती] कर्म-
सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजंगमादि
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया
है उसी प्रकार श्रुति ‘एष ब्रह्मैष
इन्द्रः^२’ इत्यादि मन्त्रसे समस्त
प्राणियोंके आत्मस्वरूपत्वका उपक्रम
कर उसका ‘यच्च स्थावरं सर्वं
तत्प्रज्ञानेत्रम्^३’ इत्यादि वाक्यद्वारा
उपसंहार करेगी।^४

इसी प्रकार संहितोपनिषद्में भी
“इसीको बह्वृच (ऋग्वेदी) बृहती-

१-सूर्य जंगम और स्थावरका आत्मा है। २-यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है।

३-जो कुछ स्थावर-जंगम है वह सब प्रज्ञा (चेतन)-द्वारा प्रवृत्त होनेवाला है।

४-इस प्रकार जैसे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे अन्तमें
उपास्यका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमें ‘एष ब्रह्मा’ इत्यादि
वाक्योंसे बतलाया गया है। अतः जिस प्रकार वह देवताज्ञान कर्मसम्बन्धी था उसी प्रकार
यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है—ऐसा अनुमान होता है।

मीमांसन्ते” (ऐ० आ० ३।२।
३।१२) इत्यादिना कर्मसम्बन्धित्व-
मुक्त्वा “सर्वेषु भूतेष्वेतमेव
ब्रह्मेत्याचक्षते” इत्युपसंहरति ।
तथा तस्यैव “योऽयमशरीरः
प्रज्ञात्मा” इत्युक्तस्य “यश्चासावादित्य
एकमेव तदिति विद्यात्”
इत्येकत्वमुक्तम् । इहापि “कोऽय-
मात्मा” (३।१।१) इत्युपक्रम्य
प्रज्ञात्मत्वमेव “प्रज्ञानं ब्रह्म”
(३।१।३) इति दर्शयिष्यति ।
तस्मान्नाकर्मसम्बन्ध्यात्मज्ञानम् ।

पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत् ।
कथम् ? “प्राणो वा अहमस्म्यृषे”
इत्यादिब्राह्मणेन “सूर्य आत्मा” इति
मन्त्रेण च निर्धारितस्यात्मनः “आत्मा
वा इदम्” इत्यादिब्राह्मणेन
“कोऽयमात्मा” (३।१।१)
इति प्रश्नपूर्वकं पुनर्निर्धारणं
पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत्, न;

सहस्र नामक सत्रमें विचारते हैं”
इत्यादि श्रुतिसे उसका कर्मसम्बन्धित्व
प्रतिपादन कर “सम्पूर्ण भूतोंमें इसीको
‘ब्रह्मा’ ऐसा कहते हैं” इस प्रकार
उपसंहार किया है । तथा “जो यह
अशरीरी चेतन आत्मा है” इस
प्रकार बतलाये हुए उस आत्माका ही
“जो यह सूर्यके अन्तर्गत है वह
एक ही है—ऐसा जाने” इस वाक्यद्वारा
एकत्व प्रतिपादन किया है । तथा
यहाँ (इस उपनिषद्में) भी “यह
आत्मा कौन है” इस प्रकार उपक्रम
कर “प्रज्ञान ब्रह्म है” इस वाक्यसे
इसका प्रज्ञास्वरूपत्व ही प्रदर्शित
करेंगे । अतः आत्मज्ञान कर्मत्यागसे
सम्बन्ध नहीं रखता ।

यदि कहो कि पुनरुक्ति होनेके
कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही
है;* किस प्रकार [व्यर्थ है सो
बतलाते हैं—] “हे ऋषे! मैं निश्चय
प्राण ही हूँ” इत्यादि ब्राह्मणसे
तथा “सूर्य आत्मा है” इत्यादि
मन्त्रद्वारा निश्चित किये आत्माका
“यह आत्मा कौन है” इस प्रकार
प्रश्न करके “[पहले] यह सब
आत्मा ही [था]” इस प्रकार निश्चय
करना पुनरुक्ति और निरर्थक
ही है—यदि कोई ऐसा कहे तो
उसका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि

* क्योंकि कर्मका तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है ।

तस्यैव धर्मान्तरविशेष-
निर्धारणार्थत्वान्न पुनरुक्तता-
दोषः ।

कथम् ? तस्यैव
कर्मसम्बन्धान्धिनो

जगत्सृष्टिस्थितिसंहारादिधर्मविशेष-
निर्धारणार्थत्वात् केवलोपास्त्यर्थ-

त्वाद्वा । अथवा आत्मेत्यादि-

परो ग्रन्थसन्दर्भ आत्मनः

कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासनाप्राप्तौ

कर्मप्रस्तावेऽविहितत्वात्केवलो-

ऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः ।

भेदाभेदोपास्यत्वाद्द्वैक एवात्मा

कर्मविषये भेददृष्टिभाक्,

स एवाकर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य

इत्येवमपुनरुक्तता ।

“विद्यां चाविद्यां च यस्त-

द्वेदोभयंसह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा

विद्ययामृतमश्नुते” (ई० उ० ११)

इति, “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे-

च्छतंसमाः” (ई० उ० २)

उसीके किसी अन्य विशेष धर्मका
निश्चय करनेके लिये होनेसे इसमें
पुनरुक्तिका दोष नहीं है ।

वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है
[सो बतलाते हैं—] उस कर्मसम्बन्धी
आत्माके ही जगत्की रचना, पालन
और संहार आदि विशेष धर्मोंका
निर्धारण करनेके लिये किंवा केवल
उसकी उपासनाके [निरूपणके] लिये
[इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष नहीं
है] अथवा यों समझो कि कर्मका
निरूपण करते समय विधान न करनेके
कारण कर्मी आत्माकी उपासना कर्मको
छोड़कर प्राप्त नहीं होती थी; अतः
“आत्मा वा इदमग्रे” आदि ग्रन्थसमूह
यह बतलानेके लिये ही है कि केवल
आत्मा भी उपासनीय है । भेद और
अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण एक
ही आत्मा कर्मके विषयमें भेददृष्टिसे
युक्त है और वही कर्म-दृष्टिको
छोड़ देनेके समय अभेदरूपसे भी
उपासनीय है—इस प्रकार यह
अपुनरुक्ति ही है ।

“जो पुरुष विद्या (उपासना)
और अविद्या (कर्म) इन दोनोंको
साथ-साथ जानता है वह अविद्यासे
मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व
प्राप्त कर लेता है” तथा “इस लोकमें
कर्म करता हुआ ही सौ वर्षतक

इति च वाजिनाम्। न च
वर्षशतात्परमायुर्मर्त्यानाम्। येन
कर्मपरित्यागेनात्मानमुपासीत।
दर्शितं च “तावन्ति पुरुषायुषोऽह्नां
सहस्राणि भवन्ति” इति। वर्षशतं
चायुः कर्मणैव व्याप्तम्।
दर्शितश्च मन्त्रः “कुर्वन्नेवेह
कर्माणि” इत्यादिः। तथा
“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति”
“यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां
यजेत” इत्याद्याश्च। “तं
यज्ञपात्रैर्दहन्ति” इति च। ऋणत्रय-
श्रुतेश्च। तत्र पारिव्राज्यादि शास्त्रं
“व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति”
(बृ० उ० ३।५।१, ४।४।२२)
इति आत्मज्ञानस्तुतिपरोऽर्थवादः।
अनधिकृतार्थो वा।

जीवित रहनेकी इच्छा करे”—ऐसा
[ईशोपनिषद्में] वाजसनेयी शाखा-
वालोंका कथन है। मनुष्योंकी परमायु
भी सौ वर्षसे अधिक नहीं है, जिससे
कि वह कर्मपरित्यागद्वारा आत्माकी
उपासना कर सके। “पुरुषकी आयुके
इतने (छत्तीस) ही^१ सहस्र दिन होते
हैं” ऐसा [इस ऐतरेयारण्यकमें ही]
दिखलाया भी गया है। और वह सौ
वर्षकी आयु कर्मसे ही व्याप्त है;
इसके लिये “कुर्वन्नेवेह कर्माणि”
इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया ही है^२
ऐसा ही “यावज्जीवन अग्निहोत्र
करता है” “जीवनपर्यन्त दर्शपूर्णमाससे
यजन करे” इत्यादि तथा [वृद्धावस्थामें
भी कर्मत्यागका निषेध सूचित
करनेवाली] “उसको [मरनेके
अनन्तर] यज्ञपात्रोंके सहित जलाते
हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे और ऋणत्रयकी
सूचना देनेवाली श्रुतियोंसे सिद्ध होता
है। श्रुतिमें जो “[यतिजन] सर्वसंग-
परित्याग करके भिक्षाटन किया करते
हैं” इत्यादि संन्याससम्बन्धी शास्त्र
है वह आत्मज्ञानकी स्तुति करने-
वाला अर्थवाद है अथवा जिसे कर्मका
अधिकार नहीं है उसके लिये है।

१-ऐतरेय आरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस्र बृहतीछन्द हैं। अतः
उसमें कुल छत्तीस सहस्र अक्षर हुए। इतने ही दिन मनुष्यकी परमायुमें होते हैं।

२-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ वर्षसे भी
अधिक जीवित रहनेवाले पुरुष हैं वे तो सौ वर्षसे ऊपर जानेपर कर्मत्याग कर ही सकते
हैं। उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपर्यन्त कर्मानुष्ठानकी आवश्यकता बतलाती हैं।

न; परमार्थविज्ञाने फलादर्शने

क्रियानुपपत्तेः ।

आक्षेपनिरासः

यदुक्तं कर्मिण आत्म-

ज्ञानं कर्मसम्बन्धि च इत्यादि

तन्न । परं ह्याप्तकामं

सर्वसंसारदोषवर्जितं

ब्रह्माहमस्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन

कर्तव्येन वा प्रयोजन-

मात्मनोऽपश्यतः फलादर्शने

क्रिया नोपपद्यते ।

फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वा-

त्करोतीति चेन्न

आत्मदर्शिनो

नियोगाविषयात्म-

नियोगाविषयत्वम्

दर्शनात् । इष्टयोग-

मनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजनं

पश्यंस्तदुपायार्थी यो भवति

स नियोगस्य विषयो दृष्टो

लोके । न तु तद्विपरीत-

नियोगाविषयब्रह्मात्मत्वदर्शी ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस परमार्थ—आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका कोई फल नहीं देखा जाता; इसलिये क्रिया नहीं हो सकती। तुमने जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मीको ही होता है और वह कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला है, सो ठीक नहीं। 'सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंसे रहित पूर्णकाम ब्रह्म मैं हूँ' इस प्रकार ब्रह्माका आत्मभावसे ज्ञान हो जानेपर कर्म-फलको न देखनेके कारण कृत अथवा कर्तव्यसे अपना कोई प्रयोजन न देखनेवाले पुरुषसे कोई क्रिया नहीं हो सकती।

यदि कहो कि फल दिखायी न देनेपर भी शास्त्राज्ञा होनेके कारण वह कर्म करता ही है तो ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि वह शास्त्राज्ञाके अविषयभूत आत्माका दर्शन कर लेता है। जो पुरुष अपना इष्टप्राप्ति और अनिष्ट परिहाररूप प्रयोजन देखकर उसके उपायका अर्थी होता है, लोकमें वही [विधि निषेधरूप] नियोगका विषय होता देखा गया है; उसके विपरीत नियोगके अविषयभूत ब्रह्ममें आत्मत्वका दर्शन करनेवाला पुरुष नियोगका विषय होता नहीं देखा जाता।

ब्रह्मात्मत्वदर्शयि संश्लेषे-
 न्नियुज्येत नियोगाविषयोऽपि
 सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्व
 कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यं
 प्राप्नोति। तच्चानिष्टम्। न च
 स नियोक्तुं शक्यते केनचित्;
 आम्नायस्यापि तत्प्रभवत्वात्। न
 हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा
 स्वयं नियुज्यते। नापि
 बहुवित्स्वाम्यविवेकिना भृत्येन।

आम्नायस्य नित्यत्वे सति
 स्वातन्त्र्यात्सर्वान्प्रति नियोक्तृत्व-
 सामर्थ्यमिति चेन्न उक्तदोषात्।
 तथापि सर्वेण सर्वदा सर्व-
 मविशिष्टं कर्म कर्तव्यमित्युक्तो
 दोषोऽप्यपरिहार्य एव।

तदपि शास्त्रेणैव विधीयत
 शास्त्रस्य इति चेद् यथा कर्म-
 विरुद्धार्थबोध- कर्तव्यता शास्त्रेण
 कत्वानुपपत्तिः कृता तथा तदप्यात्म-
 ज्ञानं तस्यैव कर्मिणः शास्त्रेण

यदि ब्रह्मात्मत्व-दर्शन करनेवाला
 पुरुष नियोगका अविषय होनेपर
 भी शास्त्रसे नियुक्त हो तो कोई
 नियुक्त न होनेवाला तो रहा ही
 नहीं। इससे यही प्राप्त होता है कि
 सबको सर्वदा सम्पूर्ण कर्म करते
 रहना चाहिये। किन्तु यह अभीष्ट
 नहीं है। वह (आत्मदर्शी) तो
 किसीसे भी नियोजित नहीं हो
 सकता, क्योंकि शास्त्र भी उसीसे
 उत्पन्न हुआ है। अपने विज्ञानसे
 उत्पन्न हुए वचनसे ही कोई स्वयं
 नियुक्त नहीं हो सकता और न
 बहुज्ञ स्वामी ही अपने अल्पज्ञ
 सेवकसे नियुक्त हो सकता है।

यदि कहो कि नित्य होनेके
 कारण वेदका नियोक्तृत्व-सामर्थ्य
 स्वतन्त्रतापूर्वक सबके प्रति है, तो
 उपर्युक्त दोषके कारण ऐसा कहना
 ठीक नहीं। ऐसी अवस्थामें भी
 'सबको सब कर्म अविशेषरूपसे
 करने चाहिये'—यह ऊपर बतलाया
 हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है।

यदि कहो कि उसका विधान
 भी शास्त्रने ही किया है अर्थात् जिस
 प्रकार शास्त्रने कर्मकी कर्तव्यता
 बतलायी है उसी प्रकार उस कर्मके
 लिये ही उस आत्मज्ञानका भी शास्त्रने

विधीयत इति चेत्, न;
 विरुद्धार्थबोधकत्वानुपपत्तेः । न
 ह्येकस्मिन्कृताकृतसम्बन्धित्वं
 तद्विपरीतत्वं च बोधयितुं
 शक्यम्, शीतोष्णता-
 मिवाग्नेः ।

न चेष्टयोगचिकीर्षा आत्मनो-
 ऽनिष्टवियोगचिकीर्षा
 सिद्धवस्तुनः
 शास्त्राबोध्यत्वम् च शास्त्रकृता,
 सर्वप्राणिनां तद्-
 दर्शनात् । शास्त्रकृतं चेत्तदुभयं
 गोपालादीनां न दृश्येत,
 अशास्त्रज्ञत्वात्तेषाम् । यद्धि
 स्वतोऽप्राप्तं तच्छास्त्रेण
 बोधयितव्यम् । तच्चेत्कृत-
 कर्तव्यताविरोध्यात्मज्ञानं शास्त्रेण
 कृतम्, कथं तद्विरुद्धां कर्तव्यतां
 पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाग्नौ तम
 इव च भानौ ।

न बोधयत्येवेति चेन्न, “स
 म आत्मेति विद्यात्” (कौ० उ०
 ३।९) “प्रज्ञानं ब्रह्म” (३।१।
 ३) इति चोपसंहारात् ।

ही विधान किया है तो ऐसा कहना भी उचित नहीं; क्योंकि उसका विरुद्ध-अर्थबोधकत्व सम्भव नहीं है। अग्नि की शीतलता और उष्णताके समान एक ही शास्त्रमें पाप-पुण्यके सम्बन्धित्व और उसके विपरीतत्वका बोध कराना— [ये दोनों विरुद्धधर्म] सम्भव नहीं हैं।

इसके सिवा अपनी इष्टवस्तुके संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके परित्यागकी अभिलाषा भी शास्त्रजनित नहीं है; क्योंकि यह सभी प्राणियोंमें [स्वभावसे ही] देखी जाती है। यदि शास्त्रजनित होतीं तो ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमें दिखायी न देतीं; क्योंकि वे अशास्त्रज्ञ होते हैं। जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं होती वही शास्त्रद्वारा बोद्धव्य होती है। इस प्रकार यदि शास्त्रने कृत और कर्तव्यताके विरोधी आत्मज्ञानका उपदेश किया है तो फिर वह अग्निमें शीतलताके समान तथा सूर्यमें अन्धकारके समान उसकी विरुद्ध कर्तव्यताको किस प्रकार उत्पन्न करेगा?

यदि कहो कि वह ऐसा बोध कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि “वह मेरा आत्मा है—ऐसा जाने” तथा “प्रज्ञान ही ब्रह्म है” इस प्रकार उपसंहार

“तदात्मानमेवावेत्” (बृ० उ० १।४।९) “तत्त्वमसि” (छा० उ० ६। ८—१६) इत्येवमादिवाक्यानां तत्परत्वात्। उत्पन्नस्य च ब्रह्मात्मविज्ञानस्याबाध्यमानत्वान्नानुत्पन्नं भ्रान्तं वेति शक्यं वक्तुम्।

त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य प्रयोजनाभावे तुल्यत्वमिति चेत् संन्यासस्य “नाकृतेनेह कश्चन” स्वतःसिद्धत्वम् (गीता ३। १८) इति स्मृतेः, य आहुर्विदित्वा ब्रह्मा व्युत्थानमेव कुर्यादिति तेषामप्येष समानो दोषः प्रयोजनाभाव इति चेन्न; अक्रियामात्रत्वाद् व्युत्थानस्य। अविद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न वस्तुधर्मः सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात्। प्रयोजनतृष्णाया च प्रेर्यमाणस्य वाङ्मनःकायैः प्रवृत्तिदर्शनात्। “सोऽकामयत जाया मे स्यात्” (बृ० उ० १। ४। १७) इत्यादिना पुत्रवित्तादि

किया गया है, तथा “उस (जीवरूपसे अवस्थित ब्रह्म)-ने अपनेको ही जाना” “वह तू ही है” इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक ही हैं उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्मविज्ञान भी बाधित होनेयोग्य न होनेके कारण अनुत्पन्न या भ्रान्तिजनित नहीं कहा जा सकता।

यदि कहो कि “उसे इस लोकमें अकृत (कर्मत्याग)-से भी कोई प्रयोजन नहीं है” इस स्मृतिके अनुसार बोधवान्को त्याग करनेमें भी प्रयोजनाभावकी समानता ही है; अर्थात् जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मको जानकर व्युत्थान (कर्मत्याग) ही करना चाहिये उनके लिये भी यह प्रयोजनाभावरूप दोष समान ही है, तो उनका यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि व्युत्थान तो अक्रिया ही है*। प्रयोजनका भाव तो अविद्याके कारण रहता है। वह वस्तुका धर्म नहीं है, क्योंकि यह बात सभी प्राणियोंमें देखी जाती है; अर्थात् प्रयोजनकी तृष्णासे प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी, मन और शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें भी “उस (आदिपुरुष)-ने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि कथनके द्वारा “ये

* प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता है; इसलिये अक्रियारूप व्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है।

पाङ्गलक्षणं काम्यमेवेति “उभे
ह्येते एषणे एव” (बृ० उ० ३।५।
१; ४।४।२२) इति वाजसनेयि-
ब्राह्मणेऽवधारणात्।

अविद्याकामदोषनिमित्ताया

वाङ्मनःकायप्रवृत्तेः पाङ्ग-
लक्षणाया विदुषोऽविद्यादि-
दोषाभावादनुपपत्तेः क्रियाभावमात्रं
व्युत्थानम्, न तु यागादि-
वदनुष्ठेयरूपं भावात्मकम्। तच्च
विद्यावत्पुरुषधर्म इति न
प्रयोजनमन्वेष्टव्यम्। न हि
तमसि प्रवृत्तस्योदित
आलोके यद्गर्तपङ्ककण्टकाद्यपतनं
तत्किं प्रयोजनमिति प्रश्नार्हम्।

व्युत्थानं तर्ह्यर्थप्राप्तत्वान्न

कामाभावे चोदनार्हमिति
आत्मज्ञस्यापि गार्हस्थ्ये चेत्यं ब्रह्म-
गार्हस्थ्यानुपपत्तिः विज्ञानं जातं

दोनों (साध्य-साधनरूप) एषणाएँ
ही हैं” इस निश्चयके अनुसार
यही ज्ञात होता है कि पुत्र-वित्तादि
पांक्तलक्षण* कर्म काम्य ही है।

अतः विद्वान्के अविद्या आदि
दोषोंका अभाव हो जानेके कारण
अविद्या एवं कामनारूप दोषसे होनेवाली
मन, वाणी और शरीरकी पांक्तरूपा
प्रवृत्ति उपपन्न नहीं है; इसलिये व्युत्थान
क्रियाका अभावमात्र हैं, वह यागादिके
समान अनुष्ठेयरूप और भावात्मक
नहीं है। वह तो विद्यावान् पुरुषका
धर्म ही है; अतः उसके लिये
किसी प्रयोजनका अन्वेषण करनेकी
आवश्यकता नहीं है। अन्धकारमें
प्रवृत्त होनेवाला पुरुष यदि प्रकाशके
उदित होनेपर गड्ढे, कीचड़ और काँटे
आदिमें नहीं गिरता तो ‘इस (उसके
न गिरने)-का क्या प्रयोजन है? ऐसा
प्रश्न नहीं किया जा सकता।

तब तो स्वभावतः प्राप्त होनेके
कारण व्युत्थान चोदना (विधिवाक्य)-
का विषय नहीं है। इसपर यदि कहो
कि यदि किसीको गृहस्थाश्रममें ही
परब्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे उस

* पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है। उससे सदृशता होनेके कारण जिस कर्ममें
पत्नी, पुत्र, दैववित्त, मानुषवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग होता है वह पांक्त-
कर्म कहलाता है।

तत्रैवास्त्वकुर्वत आसनं न ततोऽन्यत्र
 गमनमिति चेन्न, काम-
 प्रयुक्तत्वाद्गार्हस्थ्यस्य; “एतावान्वै
 कामः” (बृ० उ० १। ४।
 १७) इति “उभे ह्येते एषणे
 एव” (बृ० उ० ३। ५। १;
 ४। ४। २२) इत्ववधारणात्।
 कामनिमित्तपुत्रवित्तादिसम्बन्ध-
 नियमाभावमात्रं न हि ततोऽन्यत्र
 गमनं व्युत्थानमुच्यते। अतो न
 गार्हस्थ्य एवाकुर्वत
 आसनमुत्पन्नविद्यस्य। एतेन
 गुरुशुश्रूषातपसोरप्यप्रतिपत्तिर्विदुषः
 सिद्धा।

अत्र केचिद् गृहस्था
 गृहस्थानामाक्षेपः भिक्षाटनादिभया-
 त्परिभवाच्च त्रस्यमानाः
 सूक्ष्मदृष्टितां दर्शयन्त उत्तरमाहुः,
 भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियम-
 दर्शनाद्देहधारणमात्रार्थिनो
 गृहस्थस्यापि साध्यसाधनैषणोभय-
 विनिर्मुक्तस्य देहमात्रधारणार्थ-
 मशनाच्छादनमात्रमुपजीवतो गृह
 एवास्त्वासनमिति।

आश्रममें ही कुछ न करते हुए बैठा
 रहना चाहिये, वहाँसे कहीं अन्यत्र
 नहीं जाना चाहिये, तो ऐसा कहना
 उचित नहीं; क्योंकि “इतनी ही
 कामना है” “ये दोनों एषणाएँ ही
 हैं” इत्यादि वाक्योंसे निश्चित किया
 जानेके कारण गृहस्थाश्रम तो कामनासे
 ही प्रयुक्त है। कामनाके निमित्तभूत
 पुत्र-वित्तादिके सम्बन्धके नियमका
 अभावमात्र ही ‘व्युत्थान’ है; उनके
 पाससे कहीं अन्यत्र चला जाना
 ‘व्युत्थान’ नहीं कहा जाता। अतः जिसे
 ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके लिये कुछ
 न करते हुए गृहस्थाश्रममें ही स्थित
 रहना सम्भव नहीं है। इससे विद्वान्के
 लिये गुरुशुश्रूषा और तपस्याकी भी
 अनुपपत्ति सिद्ध होती है।

इस विषयमें कोई-कोई गृहस्थ
 पुरुष भिक्षाटनादिके भय और
 तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी
 सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए
 उत्तर देते हैं—‘केवल देहधारणमात्रके
 इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादिका
 नियम देखा जाता है; अतः [पुत्र-
 वित्तादि] साध्य और [कर्म-उपासना
 आदि] साधन दोनोंकी एषणाओंसे मुक्त
 हुए केवल देहधारणके लिये
 भोजनाच्छादनमात्रसे निर्वाह करनेवाले
 गृहस्थको भी घरहीमें रहना चाहिये।

न, स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य

तस्य निरासः कामप्रयुक्तत्वा-

दित्युक्तोत्तरमेतत्। स्व-

गृहविशेषपरिग्रहाभावे च शरीर-

धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनार्थिनः

स्वपरिग्रहविशेषाभावे-

ऽर्थाद्भिक्षुकत्वमेव।

शरीरधारणार्थायां भिक्षाटनादि-

विद्वन्न्यास- प्रवृत्तौ यथा

विचारः नियमो भिक्षोः

शौचादौ च, तथा गृहिणोऽपि

विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्य-

कर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर्यावज्जीवादि-

श्रुतिनियुक्तत्वात् प्रत्यवाय-

परिहारायेति। एतन्नियोगाविषयत्वेन

विदुषः प्रत्युक्तमशक्य-

नियोज्यत्वाच्चेति।

यावज्जीवादिनित्य-

चोदनानर्थक्यमिति चेत्?

न, अविद्वद्विषयत्वे-

नार्थवत्त्वात्। यत्तु भिक्षोः शरीर-

परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि अपने गृहविशेषके परिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही है—इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया ही जा चुका है। और अपने गृहविशेषके परिग्रहका अभाव होनेपर तो केवल शरीर-धारणमात्रके लिये भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले पुरुषको अपने परिग्रह विशेषका अभाव होनेके कारण स्वतः भिक्षुकत्व ही प्राप्त हो जाता है।

जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर-रक्षामें उपयोगी भिक्षाटनादिकी प्रवृत्ति एवं शौचादिका नियम है उसी प्रकार विद्वान् और निष्काम गृहस्थको भी 'यावज्जीवादि' श्रुतिसे नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायकी निवृत्तिके लिये नित्यकर्मोंमें नियमसे प्रवृत्ति हो सकती है [ऐसा यदि कोई कहे तो] इस कथनका तो पहले ही प्रतिवाद किया जा चुका है; क्योंकि नियोगका अविषय होनेके कारण विद्वान् नियुक्त नहीं किया जा सकता।

पूर्व०—तब तो 'यावज्जीवन अग्निहोत्र करे' इत्यादि नित्य विधिकी व्यर्थता ही सिद्ध होती है।

सिद्धान्ती—नहीं, अविद्वान्-विषयक होनेके कारण वह सार्थक है। केवल शरीरधारणमात्रके लिये

धारणमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर्नियतत्वं
 तत्प्रवृत्तेर्न प्रयोजकम् ।
 आचमनप्रवृत्तस्य पिपासापगम-
 वन्नान्यप्रयोजनार्थत्वमवगम्यते । न
 चाग्निहोत्रादीनां तद्वदर्थप्राप्त-
 प्रवृत्तिनियतत्वोपपत्तिः ।

अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमोऽपि
 प्रयोजनाभावेऽनुपपन्न एवेति
 चेत् ?

न, तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्ति-
 सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यत्नगौरवात् ।
 अर्थप्राप्तस्य व्युत्थानस्य पुन-
 र्वचनाद्विदुषः कर्तव्यत्वोपपत्तिः ।
 अविदुषापि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यं
 कर्तव्यमेव ।
 विविदिषा-
 संन्यासविधानम् तथा च “शान्तो
 दान्तः” (बृ० उ० ४। ४।
 २३) इत्यादिवचनं प्रमाणम् ।
 शमदमादीनां चात्मदर्शन-
 साधनानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः ।

भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त हुए यतिकी
 प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह प्रवृत्तिका
 प्रयोजक नहीं है । आचमनमें प्रवृत्त
 हुए पुरुषकी पिपासानिवृत्तिके समान
 उसके भिक्षाटनादिका [क्षुधानिवृत्ति
 आदिके सिवा] कोई अन्य प्रयोजन
 नहीं समझा जाता । परन्तु इसके
 समान अग्निहोत्रादि कर्मोंका
 स्वतःप्राप्त प्रवृत्तिको नियत करना
 नहीं माना जा सकता ।*

पूर्व०—परन्तु प्रयोजनका अभाव
 हो जानेपर तो स्वतःप्राप्त प्रवृत्तिका
 नियम भी व्यर्थ ही है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि यह
 [भिक्षाटनादिका] नियम पूर्वप्रवृत्तिसे
 सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लंघनमें
 अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है ।
 और स्वभावतः प्राप्त व्युत्थानका
 [“व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति”
 आदि वाक्योंसे] पुनः विधान किया
 गया है, इसलिये विद्वान् मुमुक्षुके लिये
 उसकी कर्तव्यता उचित ही है । जिस
 मुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है
 उसे भी संन्यास करना ही चाहिये ।
 इस विषयमें “शान्तो दान्त उपरत-
 स्तितिक्षुः” आदि वचन प्रमाण हैं । तथा
 आत्मदर्शनके साधन शमदमादिका

* क्योंकि वे तो स्वर्गादिकी कामनासे ही किये जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है ।

“अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच
 सम्यगृषिसङ्गुष्टम्” (६। २१)
 इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते ।
 “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके
 अमृतत्वमानशुः” (कैवल्य २) इति
 च कैवल्यश्रुतिः । “ज्ञात्वा
 नैष्कर्म्यमाचरेत्” इति च स्मृतेः ।
 “ब्रह्माश्रमपदे वसेत्” इति च
 ब्रह्मचर्यादिविद्यासाधनानां च
 साकल्येनात्याश्रमिषूपपत्तेर्गार्हस्थ्ये-
 ऽसंभवात् । न चासम्पन्नं साधनं
 कस्यचिदर्थस्य साधनायालम् ।
 यद्विज्ञानोपयोगीनि च
 गार्हस्थ्यशाश्रमकर्माणि तेषां
 परमफलमुपसंहृतं देवताप्ययलक्षणं
 संसारविषयमेव । यदि कर्मिण
 एव परमात्मविज्ञानमभविष्यत्
 संसारविषयस्यैव फलस्योपसंहारो
 नोपापत्स्यत् ।

अन्य आश्रमोंमें होना सम्भव
 भी नहीं है, जैसा कि “मन्त्रद्रष्टा
 ऋषियोंद्वारा भली प्रकार सेवित उस
 परम पवित्र तत्त्वका परमहंसोंको
 उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रोंसे
 श्वेताश्वतरोपनिषद्में बतलाया गया
 है, तथा “कर्मसे, प्रजासे अथवा
 धनसे नहीं बल्कि त्यागसे ही किन्हीं-
 किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है” ऐसी
 कैवल्योपनिषद्की श्रुति भी है । और
 “ज्ञान प्राप्तकर नैष्कर्म्यका आचरण
 करे” इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध
 होता है । “ब्रह्माश्रमपदे* वसेत्”
 इस स्मृतिके अनुसार ज्ञानप्राप्तिके
 साधन ब्रह्मचर्यादिकी सिद्धि भी
 सम्यक्-रीतिसे संन्यासियोंमें ही
 हो सकती है; क्योंकि गृहस्थाश्रममें
 उन साधनोंका होना असम्भव है;
 और अपूर्ण साधन किसी अर्थको
 सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है ।
 गृहस्थाश्रमके कर्म जिस विज्ञानमें
 उपयोगी हैं उसके देवतामें लय
 होनारूप संसारविषयक परम फलका
 उपसंहार किया जा चुका है । यदि
 कर्मीको ही परमात्माका साक्षात्
 ज्ञान हुआ करता तो संसारविषयक
 फलका उपसंहार (अन्त) होना
 कभी सम्भव ही न था ।

* ब्रह्माश्रम [अर्थात् ब्रह्मज्ञानके साधनभूत संन्यासाश्रम]-में निवास करे ।

अङ्गफलं तदिति चेन्न । तद्
 विरोध्यात्मवस्तुविषयत्वा-
 देवताप्ययस्य
 ज्ञानाङ्गत्वनिरासः दात्मविद्यायाः ।
 निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्थात्म-
 वस्तुविषयं ज्ञानममृतत्व-
 साधनम् । गुणफलसम्बन्धे हि
 निराकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्वं
 ज्ञानस्य न प्राप्नोति । तच्चानिष्टम् ,
 “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्”
 (बृ० उ० २। ४। १४)
 इत्यधिकृत्य क्रियाकारकफलादि-
 सर्वव्यवहारनिराकरणाद्विदुषः ।
 तद्विपरीतस्याविदुषो “यत्र हि
 द्वैतमिव” (बृ० उ० २। ४।
 १४) इत्युक्त्वा क्रियाकारक-
 फलरूपस्यैव संसारस्य दर्शित-
 त्वाच्च वाजसनेयिब्राह्मणे ।
 तथेहापि देवताप्ययं संसारविषयं
 यत्फलमशनायादिमद्वस्त्वात्मकं
 तत्फलमुपसंहृत्य केवलं
 सर्वात्मकवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय
 वक्ष्यामीति प्रवर्तते ।

यदि कहो कि वह तो अंगफल-
 मात्र है* तो ऐसा कहना ठीक नहीं;
 क्योंकि आत्मविद्या तो उसके विरोधी
 आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाली है ।
 सब प्रकारके नाम, रूप और कर्मसे
 रहित परमार्थ आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध
 रखनेवाला आत्मज्ञान तो अमरत्वका
 साधन है । उससे गौण फलका सम्बन्ध
 माननेपर तो ज्ञानका सर्वविशेषशून्य
 आत्मवस्तुसे सम्बन्धित होना ही
 सिद्ध नहीं होता । और यह इष्ट
 नहीं है, क्योंकि “जहाँ इसके लिये
 सब कुछ आत्मा ही हो गया है”
 इस प्रकार आरम्भ करके विद्वान्के
 लिये क्रिया, कारक और फल आदि
 सम्पूर्ण व्यवहारका निराकरण किया
 है । तथा उसके विपरीत अविद्वान्के
 लिये वाजसनेयिब्राह्मणमें “जहाँ
 कि द्वैतके समान होता है” ऐसा
 कहकर क्रिया, कारक और फलरूप
 संसारविषयको प्रदर्शित किया है ।
 इसी प्रकार यहाँ (ऐतरेयोपनिषद्में)
 भी जो क्षुधा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप
 संसारविषयक देवतालयसंज्ञक फल
 है उसका उपसंहार कर अब केवल
 सर्वात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका
 ही अमरत्व-प्राप्तिके लिये वर्णन
 करूँगी—ऐसे अभिप्रायसे श्रुति प्रवृत्त
 होती है ।

* अर्थात् देवतालयरूप जो संसारविषयक फल है वह कर्मका अंग—गौण फल
 है, मुख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है ।

ऋणप्रतिबन्धस्याविदुष एव
 ऋणप्रतिबन्ध- मनुष्यपितृदेवलोक-
 विचारः प्राप्तिं प्रति, न
 विदुषः। “सोऽयं मनुष्यलोकः
 पुत्रेणैव” (बृ० उ० १।५।१६)
 इत्यादिलोकत्रयसाधननियमश्रुतेः।
 विदुषश्च ऋणप्रतिबन्धाभावो
 दर्शित आत्मलोकार्थिनः “किं
 प्रजया करिष्यामः” (बृ० उ० ४।
 ४। २२) इत्यादिना। तथा
 “एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस
 आहुर्ऋषयः कावषेयाः” इत्यादि।
 “एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोऽ-
 ग्निहोत्रं न जुहवाञ्चक्रुः” (कौषी०
 २। ५) इति च कौषीतकिनाम्।
 अविदुषस्तर्हि ऋणानपाकरणे

पारिव्राज्यानुपपत्तिरिति चेत् ?

न; प्राग्गार्हस्थ्यप्रतिपत्तेर्ऋणि-
 त्वासंभवात्। अधिकारा-
 नारूढोऽप्यृणी चेत्स्यात् सर्वस्य
 ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येत। प्रति-
 पन्नगार्हस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी
 भूत्वा प्रव्रजेद्यदि वेतरथा

तथा देवलोक, पितृलोक और
 मनुष्यलोककी प्राप्तिमें ऋणोंका
 प्रतिबन्ध तो अज्ञानीके ही लिये है,
 ज्ञानीके लिये नहीं, जैसा कि “उस
 इस मनुष्य-लोकको पुत्रके द्वारा ही
 [जीता जा सकता है]” इत्यादि
 लोकत्रयकी प्राप्तिके साधनका नियम
 करनेवाली श्रुतिसे सिद्ध होता है।
 तथा आत्मलोकके इच्छुक विद्वान्के
 लिये “हम प्रजासे क्या करेंगे?”
 इत्यादि वाक्योंद्वारा ऋणोंके प्रतिबन्धका
 अभाव दिखलाया है, इसी प्रकार
 “वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावषेय
 ऋषि बोले—[मैं अध्ययन कैसे
 करूँ? होम कैसे करूँ?]” इत्यादि
 श्रुति है तथा ऐसी ही “उस इस
 आत्मतत्त्वको जाननेवाले पूर्ववर्ती
 विद्वान् अग्निहोत्र नहीं करते थे।”
 यह कौषीतकी शाखाकी श्रुति है।

पूर्व०—तब अविद्वान्के लिये
 तो ऋणोंका परिशोध बिना किये
 संन्यास करना बन नहीं सकता?

सिद्धान्ती—यह बात नहीं है,
 क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पूर्व
 तो ऋणित्व ही असम्भव है। यदि
 अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी ऋणी
 हो सकता है तो सभीका ऋणी होना
 सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा
 अनिष्ट प्राप्त होगा। जो गृहस्थाश्रमको

ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गृहाद्वा वनाद्वा”
 (जा० उ० ४) इत्यात्मदर्शनोपाय-
 साधनत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम् ।
 यावज्जीवादिश्रुतीना-

यावज्जीवादि- मविद्वदमुमुक्षुविषये
 श्रुतीना- कृतार्थता । छान्दोग्ये
 मविद्वद्विषयत्वम्
 च केषांचिद् द्वादश-

रात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत ऊर्ध्वं
 परित्यागः श्रूयते ।

यत्त्वनधिकृतानां पारिव्राज्य-
 संन्यासस्य मिति, तन्न, तेषां
 कर्मानधिकारि- पृथगेव “उत्सन्नाग्नि-
 विषयत्वनिरासः रनग्निको वा”

इत्यादिश्रवणात् । सर्वस्मृतिषु
 चाविशेषेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्धः
 समुच्चयश्च ।

यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्तं व्युत्थान-

प्राप्त हो गया है उस पुरुषके लिये
 भी “गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ होकर
 संन्यास करे अथवा [इस क्रमको
 छोड़कर] अन्य प्रकारसे यानी
 ब्रह्मचर्यसे, गृहस्थाश्रमसे अथवा
 वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास कर दे”
 इत्यादि श्रुतियोंद्वारा आत्मदर्शनके
 साधनके उपायरूपसे संन्यास प्राप्त
 हो ही जाता है । अविद्वान् और
 अमुमुक्षु पुरुषोंके विषयमें “यावज्जीवन
 अग्निहोत्र करे” इत्यादि श्रुतियोंकी
 भी कृतार्थता है । छान्दोग्यमें तो
 किन्हीं-किन्हींके लिये बारह रात्रि
 अग्निहोत्र करके तदनन्तर उसका
 परित्याग करना सुना जाता है ।

और तुमने जो कहा कि जिन्हें
 कर्मका अधिकार नहीं है उन्हींके
 लिये संन्यासका विधान है, सो ऐसी
 बात नहीं है, क्योंकि उनके विषयमें
 “उत्सन्नाग्निरनग्निको वा”^१ इत्यादि
 अलग ही श्रुति है । तथा समस्त
 स्मृतियोंमें भी आश्रमोंका विकल्प^२
 और समुच्चय^३ सामान्यरूपसे प्रसिद्ध
 ही है ।

तथा यह जो कहा कि विद्वान्को

१. जिसके अग्निहोत्रकी अग्नि प्रमादवश शान्त हो गयी है अथवा जिसने अग्निका परिग्रह नहीं किया है ।

२. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रमसे संन्यास लेनेकी इच्छा हो उसीसे ले लेना ।

३. एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें क्रमानुसार जाना ।

व्युत्थानविधि- मित्यशास्त्रार्थत्वे,
 विचारः गृहे वने वा
 तिष्ठतो न विशेष इति,
 तदसत्; व्युत्थानस्यैवार्थ-
 प्राप्तत्वान्नान्यत्रावस्थानं स्यात्।
 अन्यत्रावस्थानस्य कामकर्म-
 प्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम, तदभाव-
 मात्रं व्युत्थानमिति च।

यथाकामित्वं तु विदुषोऽत्यन्त-

विदुषो यथा- मप्राप्तमत्यन्तमूढ-
 कामित्वनिषेधः विषयत्वेनावगमात्।

तथा शास्त्रचोदितमपि कर्म
 आत्मविदोऽप्राप्तं गुरुभार-
 तयावगम्यते। किमुतात्यन्ताविवेक-
 निमित्तं यथाकामित्वम्। न हि
 उन्मादतिमिरदृष्ट्युपलब्धं वस्तु
 तदपगमेऽपि तथैव स्यात्।
 उन्मादतिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव
 तस्य। तस्मादात्मविदो
 व्युत्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं
 न चान्यत्कर्तव्यमित्येतत्सिद्धम्।

जो कर्मत्यागकी स्वतः प्राप्ति बतलायी
 है, सो शास्त्रका विषय न होनेके
 कारण उसके घर या वनमें रहनेमें
 कोई विशेषता नहीं है; ऐसा कहन
 ठीक नहीं। व्युत्थानके स्वतः प्राप्त
 होनेके कारण ही उसकी अन्यत्र
 [यानी गृहस्थाश्रममें] स्थिति नहीं
 हो सकती। अन्यत्र स्थितिको तो
 हमने कामना और कर्मसे प्रेरित ही
 बतलाया है; और उसके अभावको
 ही व्युत्थान कहा है।

स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूढका
 विषय समझा गया है, इसलिये
 विद्वान्के लिये वह अत्यन्त अप्राप्त
 है। तथा विद्वान्के लिये तो अत्यन्त
 भाररूप होनेके कारण शास्त्रोक्त
 कर्मकी भी अप्राप्ति समझी जाती
 है। फिर अत्यन्त अविवेकके कारण
 होनेवाले स्वेच्छाचारकी तो बात
 ही क्या है? उन्माद अथवा तिमिररोगसे
 दूषित दृष्टिद्वारा उपलब्ध हुई
 वस्तु उसके निवृत्त हो जानेपर
 भी वैसी ही नहीं रहती; क्योंकि
 वह तो उन्माद अथवा तिमिरदृष्टिके
 कारण ही वैसी प्रतीत होती है।
 अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके
 लिये व्युत्थानको छोड़कर न तो
 स्वेच्छाचार ही है और न कोई
 अन्य कर्तव्य ही शेष रहता है।

यत्तु—“विद्यां चाविद्यां च
 विदुषो ज्ञानकर्म- यस्तद्वेदोभयः सह”
 समुच्चयानुपपत्तिः (ई० उ० ११) इति
 न विद्यावतो विद्यया
 सहाविद्यापि वर्तते इत्ययमर्थः ;
 कस्तर्हि एकस्मिन्पुरुषे एते
 एकदैव न सह सम्बध्येयाता-
 मित्यर्थः । यथा शुक्तिकायां
 रजतशुक्तिकाज्ञाने एकस्य
 पुरुषस्य । “दूरमेते विपरीते
 विषूची अविद्या या च विद्येति
 ज्ञाता” (क० उ० १ । २ । ४) इति
 हि काठके । तस्मान्न विद्यायां
 सत्यामविद्यासम्भवोऽस्ति ।

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व”
 (तै० उ० ३ । २) इत्यादिश्रुतेः,
 तप आदि विद्योत्पत्तिसाधनं
 गुरुपासनादि च कर्म
 अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन
 विद्यामुत्पाद्य मृत्युं काममतिरति ।
 ततो निष्कामस्त्यक्तैषणो ब्रह्मविद्यया
 अमृतत्वमश्नुत इत्येतमर्थं
 दर्शयन्नाह—“अविद्यया मृत्युं
 तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते” (ई० उ०
 ११) इति ।

तथा ऐसा जो कहा है कि “जो
 पुरुष विद्या और अविद्या दोनोंको
 साथ-साथ जानता है” वह इसलिये
 नहीं है कि विद्वान्में विद्याके साथ
 अविद्या भी रहती है । तो फिर
 उसका क्या प्रयोजन है ? उसका
 तात्पर्य तो यही है कि एक ही
 पुरुषमें ये दोनों साथ-साथ नहीं रह
 सकते ; जिस प्रकार कि सीपीमें
 एक पुरुषको [एक ही समय]
 चाँदी और सीपी दोनोंका ज्ञान नहीं
 हो सकता । कठोपनिषद्में भी कहा
 है— “जो विद्या और अविद्या नामसे
 जानी जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त
 विपरीत (विरुद्ध स्वभाववाली) हैं ।”
 अतः विद्याके रहते हुए अविद्याका
 रहना किसी प्रकार सम्भव नहीं है ।

“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा
 कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप
 आदि विद्योत्पत्तिके साधन और गुरुकी
 उपासना आदि कर्म अविद्यामय होनेके
 कारण ‘अविद्या’ कहे जाते हैं । उस
 अविद्यारूप कर्मसे विद्याको उत्पन्न
 करके वह मृत्यु यानी कामनाको
 पार कर जाता है । तब वह निष्काम
 और एषणामुक्त पुरुष ब्रह्मविद्यासे
 अमरत्व प्राप्त कर लेता है—इसी
 अर्थको प्रदर्शित करते हुए कहते हैं
 कि “अविद्यासे मृत्युको पारकर
 विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है ।”

यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव
 व्याप्तं “कुर्वन्नेवेह
 उपसंहारः कर्माणि जिजीविषे-
 च्छतःसमाः” (ई० उ० २)
 इति तदविद्वद्विषयत्वेन
 परिहृतमितरथासम्भवात्। यत्तु
 वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वा-
 त्कर्मणाविरुद्धमात्मज्ञानमिति,
 तत्सविशेषनिर्विशेषात्मतया
 प्रत्युक्तम्, उत्तरत्र व्याख्याने च
 दर्शयिष्यामः। अतः केवलनिष्क्रिय-
 ब्रह्मात्मकत्वविद्यादर्शनार्थमुत्तरो
 ग्रन्थ आरभ्यते—

“कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक
 जीवित रहनेकी इच्छा करे” इस
 मन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था कि
 पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त
 है उसका ‘वह अविद्वान्से सम्बन्ध
 रखनेवाला है’—ऐसा बतलाकर
 खण्डन कर दिया गया, क्योंकि
 अन्य प्रकार वैसा होना असम्भव
 है तथा तुमने जो कहा था कि
 आगे कहा जानेवाला आत्मज्ञान भी
 पूर्वोक्त [श्रुतिकथित] ज्ञानके तुल्य
 होनेके कारण कर्मसे अविरुद्ध
 ही है उस कथनको भी सविशेष
 और निर्विशेष आत्मविषयक
 बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और
 आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दर्शन
 भी करायेंगे। अब यहाँसे केवल
 निष्क्रिय ब्रह्म और आत्माकी एकताका
 ज्ञान प्रदर्शित करनेके लिये आगेका
 ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत्किंचन
 मिषत्। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ १ ॥

पहले यह [जगत्] एकमात्र आत्मा ही था; उसके सिवा और
 कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने यह सोचा कि ‘लोकोंकी रचना
 करूँ’ ॥ १ ॥

आत्मा आप्नोतेरत्तेरततेर्वा परः
 सर्वज्ञः सर्वशक्तिरशनायादि-

[व्याप्तिबोधक] ‘आप्’,
 [भक्षणार्थक] ‘अद्’ अथवा [सतत
 गमनबोधक] ‘अत्’ धातुसे ‘आत्मा’

सर्वसंसारधर्मवर्जितो नित्य-
 शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽजोऽजरो-
 ऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्वयो वै; इदं
 यदुक्तं नामरूपकर्मभेदभिन्नं जग-
 दात्मैवैकोऽग्रे जगतः सृष्टेः
 प्रागासीत्।

किं नेदानीं स एवैकः ?

न।

कथं तर्ह्यासीदित्युच्यते ?

यद्यपीदानीं स एवैक-

स्तथाप्यस्ति विशेषः। प्रागुत्पत्ते-

रव्याकृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मैक-

शब्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानीं

व्याकृतनामरूपभेदत्वादनेकशब्द-

प्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्यय-

गोचरं चेति विशेषः।

यथा सलिलात्पृथक्फेननाम-

रूपव्याकरणात्प्राक्सलिलैकशब्द-

शब्द निष्पन्न हुआ है। यह जो नाम,
 रूप और कर्मके भेदसे विविधरूप
 प्रतीत होनेवाला जगत् कहा गया है
 वह पहले यानी संसारकी सृष्टिसे
 पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्
 क्षुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक
 धर्मोंसे रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-
 स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत,
 अभय और अद्वयरूप आत्मा ही था।

पूर्व०—क्या इस समय भी एक-
 मात्र वही नहीं है ?

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है।

पूर्व०—तो फिर 'आसीत् (था)'
 ऐसा क्यों कहा है ?

सिद्धान्ती—यद्यपि इस समय भी
 अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता
 अवश्य है। [वह विशेषता यही है
 कि] उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत् नाम-
 रूपादि भेदके व्यक्त न होनेके कारण
 आत्मभूत और एक 'आत्मा' शब्दकी
 प्रतीतिका ही विषय था और इस
 समय नाम-रूपादि भेदके व्यक्त हो
 जानेसे वह अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका
 विषय तथा एकमात्र 'आत्मा' शब्दकी
 प्रतीतिका विषय भी हो रहा है;।

जिस प्रकार जलसे पृथक् फेनके
 नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे पूर्व
 फेन एकमात्र 'जल' शब्दकी प्रतीतिका

प्रत्ययगोचरमेव फेनम्, यदा
सलिलात्पृथङ्नामरूपभेदेन व्याकृतं
भवति तदा सलिलं फेनं
चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिलमेवेति
चैकशब्दप्रत्ययभाक्च फेनं भवति
तद्वत्।

नान्यत्किंचन न किंचिदपि
मिषन्निमिषद् व्यापारवदितरद्वा ।
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति
स्वतन्त्रं प्रधानं यथा च काणादाना-
मणवो न तद्वदिहान्य-
दात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते ।
किं तर्हि ? आत्मैवैक आसी-
दित्यभिप्रायः ।

स सर्वज्ञस्वाभाव्याद् आत्मा
एक एव सन्नीक्षत । ननु
प्रागुत्पत्तेरकार्यकरणत्वात्कथमीक्षित-
वान् । नायं दोषः, सर्वज्ञ-
स्वाभाव्यात् तथा च मन्त्रवर्णः
—“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता”
(श्वे० उ० ३। १९) इत्यादिः ।

ही विषय था; किन्तु जिस समय
वह जलसे अलग नाम और
रूपके भेदसे व्यक्त हो जाता है
उस समय वह फेन ‘जल’ और
‘फेन’ इस प्रकार अनेक शब्दोंकी
प्रतीतिका विषय तथा केवल ‘जल’
इस एक शब्दकी प्रतीतिका विषय
भी हो जाता है; उसी प्रकार [उपर्युक्त
भेद भी समझना चाहिये] ।

उसके सिवा अन्य कोई
व्यापारयुक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु
नहीं थी । जिस प्रकार सांख्यवादियोंके
मतमें आत्मासे अतिरिक्त स्वतन्त्र
प्रधान था, तथा कणादमतावलम्बियोंके
विचारमें परमाणु थे उस प्रकार इस
(औपनिषद् सिद्धान्त)—में आत्मासे
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी ।
तो फिर क्या था ? एकमात्र आत्मा ही
था—यह इसका अभिप्राय है ।

सर्वज्ञस्वभाव होनेके कारण उस
आत्माने अकेले होते हुए ही ईक्षण
(चिन्तन) किया । यदि कहो कि
जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व कार्य और
करणका अभाव रहते हुए भी उसने
किस प्रकार ईक्षण किया ? तो यह
कोई दोषकी बात नहीं है; क्योंकि
वह आत्मा स्वभावसे ही सर्वज्ञ है ।
इस विषयमें “ हाथ-पाँववाला न होकर
भी वेगवान् और ग्रहण करनेवाला

केनाभिप्रायेणोत्याह — लोकान्
 अम्भःप्रभृतीन् प्राणिकर्म-
 फलोपभोगस्थानभूतान् सृजै
 सृजेऽहमिति ॥ १ ॥

है' इत्यादि मन्त्रवर्ण भी है। उसने किस अभिप्रायसे ईक्षण किया? इसपर श्रुति कहती है—'मैं प्राणियोंके कर्मफलोपभोगके आश्रयभूत अम्भ आदि लोकोंकी रचना करूँ' इस प्रकार ईक्षण किया ॥ १ ॥

सृष्टिक्रम

एवमीक्षित्वा आलोच्य—

इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना करके—

स इमाँल्लोकानसृजत। अम्भो मरीचीर्मरमापोदोऽम्भः
 परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या
 अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥

उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप—इन लोकोंकी रचना की। जो द्युलोकसे परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह 'अम्भ' है, अन्तरिक्ष (भुवर्लोक) 'मरीचि' है, पृथिवी 'मरलोक' है और जो [पृथिवी] नीचे है वह 'आप' है ॥ २ ॥

स आत्मेमाँल्लोकानसृजत
 सृष्टवान्। यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि-
 रेवंप्रकारान्प्रासादादीन्सृज इति
 ईक्षित्वेक्षानन्तरं प्रासादादीन्सृजति
 तद्वत्।

उस आत्माने इन लोकोंकी रचना की। जिस प्रकार इस लोकमें बुद्धिमान् शिल्पकार आदि 'मैं इस प्रकारके महल आदि बनाऊँ' ऐसा विचार करके उस विचारके अनन्तर ही महल आदिकी रचना करते हैं उसी प्रकार [उसने ईक्षण करके इन लोकादिकी रचना की]।

ननु सोपादानस्तक्षादिः
 प्रासादादीन्सृजतीति युक्तं

शंका—शिल्पकारादि तो उन महल आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते

निरुपादानस्त्वात्मा कथं लोकान्
सृजति ?

नैष दोषः; सलिलफेन-
निरुपादानस्य स्थानीये आत्मभूते
आत्मनः सृष्टि- नामरूपे अव्याकृते
कर्तृत्वम् आत्मैकशब्दवाच्ये
व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगत
उपादानभूते सम्भवतः। तस्माद्
आत्मभूतनामरूपोपादानभूतः
सन्सर्वज्ञो जगन्निर्मिमत
इत्यविरुद्धम्।

अथवा, यथा विज्ञानवा-
न्मायावी निरुपादान आत्मानमेव
आत्मान्तरत्वेनाकाशेन गच्छन्त-
मिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञो
देवः सर्वशक्तिर्महामाय आत्मान-
मेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण
निर्मिमीत इति युक्ततरम्। एवं च
सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादि-
पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते
सुनिराकृताश्च भवन्ति।

काँल्लोकानसृजतेत्याह—
आत्मसृष्टि- अम्भो मरीचीर्मरमाप

हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना
करते हैं—ऐसा कहना ठीक ही है;
किन्तु उपादान (सामग्री)—से रहित
आत्मा किस प्रकार लोकोंकी रचना
करता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है; क्योंकि जलमें [व्यक्त न हुए]
फेनस्थानीय अव्याकृत नाम और
रूप, जो आत्मस्वरूप और एकमात्र
'आत्मा' शब्दके ही वाच्य हैं, व्याकृत
फेनस्वरूप जगत्के उपादान हो सकते
हैं। अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने
आत्मभूत नाम और रूपका उपादान-
स्वरूप होकर जगत्की रचना करता
है—इसमें कोई विरोध नहीं है।

अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त
मायावी कोई उपादान न होनेपर भी
स्वयं अपनेहीको अपने अन्यरूपसे
आकाशमें चलता हुआ—सा बना लेता
है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्
महामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेहीको
जगत्—रूप अपने अन्य स्वरूपसे रच
लेता है—यह बहुत युक्तियुक्त ही
है। ऐसा होनेपर कार्य और कारण—
इन दोनोंको असत् बतलानेवालोंके
[असद्वाद आदि] पक्षोंकी प्राप्ति
नहीं होती और उनका पूर्णतया
निराकरण हो जाता है।

उसने किन लोकोंकी रचना की ?
इसपर कहते हैं—अम्भ, मरीचि, मर

लोकाख्यानम् इति। आकाशादि-
क्रमेण अण्डमुत्पाद्याम्भःप्रभृतीन्
लोकानसृजत। तत्राम्भःप्रभृतीन्
स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः।

अदस्तदम्भःशब्दवाच्यो लोकः
परेण दिवं द्युलोकात्परेण पर-
स्तात् ; सोऽम्भःशब्दवाच्यः, अम्भो
भरणात्। द्यौः प्रतिष्ठाश्रय-
स्तस्याम्भसो लोकस्य। द्युलोकादधस्ता-
दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः।
एकोऽप्यनेकस्थानभेदत्वाद्बहुवचन-
भाक्—मरीचय इति; मरीचि-
भिर्वा रश्मिभिः सम्बन्धात्। पृथिवी
मरो म्रियन्तेऽस्मिन् भूतानीति।
या अधस्तात् पृथिव्यास्ता आप
उच्यन्ते; आप्नोतेः, लोकाः। यद्यपि
पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां
तथाप्यबाहुल्यादब्जामभिरेवाम्भो
मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥ २ ॥

और आप आदिकी। उसने
आकाशादि-क्रमसे अण्डको उत्पन्न
कर अम्भ आदि लोकोंकी रचना
की। उन अम्भ आदि लोकोंकी
श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है।

अदः—वह 'अम्भ' शब्दसे कहा
जानेवाला लोक है, जो द्युलोकसे
परे है; वह जल (मेघों)—को धारण
करनेवाला होनेसे 'अम्भ' शब्दसे
कहा जाता है। उस अम्भलोकका
द्युलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है।
द्युलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है
वह मरीचि-लोक है। वह एक
होनेपर भी अनेकों स्थान भेदोंके
कारण 'मरीचयः' इस प्रकार
बहुवचनरूपसे प्रयुक्त हुआ है। अथवा
किरणोंसे सम्बन्धित होनेके कारण
वह 'मरीचि' कहलाता है। पृथ्वी
'मर' है; क्योंकि उसमें प्राणी मरते
हैं। जो लोक पृथ्वीसे नीचेकी
ओर हैं वे 'आप' कहलाते हैं;
क्योंकि 'अप्' शब्द [नीचेके लोकोंमें
रहनेवाले प्राणियोंद्वारा प्राप्य होनेके
कारण प्राप्तिरूप अर्थवाले] 'आप्'
धातुसे बना हुआ है। यद्यपि सभी
लोक पंचभूतमय हैं तथापि अम्भ,
मरीचि, मर और आप—ये लोक
आप (जल)—की अधिकता होनेके
कारण 'आप' ही कहे जाते हैं ॥ २ ॥

पुरुषरूप लोकपालकी रचना

सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधिष्ठान-
भूतांश्चतुरो लोकान् सृष्ट्वा—

सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफलरूप
उपादानके अधिष्ठानभूत चारों
लोकोंकी रचना कर—

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोऽद्भ्य एव
पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छयत् ॥ ३ ॥

उसने ईक्षण (विचार) किया कि—‘ये लोक तो तैयार हो गये,
अब लोकपालोंकी रचना करूँ’—ऐसा सोचकर उसने जलमेंसे ही
एक पुरुष निकालकर अवयवयुक्त किया ॥ ३ ॥

स ईश्वरः पुनरेवेक्षत । इमे नु
अम्भःप्रभृतयो मया सृष्टा लोकाः
परिपालयितृवर्जिता विनश्येयुः,
तस्मादेषां रक्षणार्थं
लोकपालाँल्लोकानां पालयितृन्नु
सृजै सृजेऽहमिति ।

उस ईश्वरने फिर भी ईक्षण
(विचार) किया । मेरे रचे हुए ये अम्भ
आदि लोक बिना किसी रक्षकके
नष्ट हो जायँगे । अतः इनकी रक्षाके
लिये मैं लोकपालोंकी—लोकोंकी
रक्षा करनेवालोंकी रचना करूँ ।

एवमीक्षित्वा सोऽद्भ्य एव
अप्प्रधानेभ्य एव पञ्चभूतेभ्यो
येभ्योऽम्भःप्रभृतीन्सृष्ट्वांस्तेभ्य
एवेत्यर्थः । पुरुषं पुरुषाकारं
शिरःपाण्यादिमन्तं समुद्धृत्य
अद्भ्यः समुपादाय मृत्पिण्डमिव
कुलालः पृथिव्याः, अमूर्छय-
न्मूर्छितवान् संपिण्डितवान्
स्वावयवसंयोजनेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥

ऐसा सोचकर उसने जलसे—
जलप्रधान पंचभूतोंसे अर्थात् जिनसे
उसने अम्भ आदि लोकोंकी रचना
की थी उन्हींसे पुरुष यानी सिर और
हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस
प्रकार कुम्हार पृथिवीसे मिट्टीका पिण्ड
निकालता है, उसी प्रकार निकालकर
मूर्छित किया अर्थात् अवयवोंकी
योजनाकर उसको बढ़ाया ॥ ३ ॥

इन्द्रियगोलक; इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति
तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं

मुखाद्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः
 प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः
 कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशास्त्वङ्निरभिद्यत
 त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत
 हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या
 अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस
 आपः ॥ ४ ॥

उस विराट् पुरुषके उद्देश्यसे ईश्वरने संकल्प किया। उस संकल्प किये पिण्डसे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ। मुखसे वाक् और वागिन्द्रियसे अग्नि उत्पन्न हुआ। [फिर] नासिकारन्ध्र प्रकट हुए, नासिकारन्ध्रोंसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु। [इसी प्रकार] नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रोंसे चक्षु-इन्द्रिय और चक्षुसे आदित्य उत्पन्न हुआ। [फिर] कान उत्पन्न हुए तथा कानोंसे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुईं। [तदनन्तर] त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचासे लोम और लोमोंसे ओषधि एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं। [इसी प्रकार] हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ। [फिर] नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभिसे अपान और अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई। [तदनन्तर] शिश्न प्रकट हुआ तथा शिश्नसे रेतस् और रेतस्से आप उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥

तं पिण्डं पुरुषविधमुद्दिश्याभ्यतपत् ।
 तदभिध्यानं संकल्पं कृतवा-
 नित्यर्थः, “यस्य ज्ञानमयं तपः”
 (मु० उ० १।१।९) इत्यादिश्रुतेः ।
 तस्याभितप्तस्येश्वरसंकल्पेन
 तपसाभितप्तस्य पिण्डस्य मुखं
 निरभिद्यत मुखाकारं सुषिरमजायत

उस पुरुषाकारपिण्डके उद्देश्यसे ईश्वरने तप किया। अर्थात् उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि “जिसका तप ज्ञानमय है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। उस अभितप्त—ईश्वरके संकल्परूप तपसे तपे हुए पिण्डका मुख प्रकट हुआ अर्थात् उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया

यथा पक्षिणोऽण्डं निर्भिद्यत एवम् ।
 तस्मान्निर्भिन्नामुखाद्वाक्करणमिन्द्रियं
 निरवर्तत; तदधिष्ठाताग्निस्ततो
 वाचो लोकपालः । तथा नासिके
 निरभिद्येताम् । नासिकाभ्यां प्राणः,
 प्राणाद्वायुः, इति सर्वत्राधिष्ठानं
 करणं देवता च त्रयं क्रमेण
 निर्भिन्नमिति । अक्षिणी कर्णौ
 त्वग् हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्,
 मनोऽन्तःकरणम् । नाभिः
 सर्वप्राणबन्धनस्थानम् । अपान-
 संयुक्तत्वादपान इति
 पाय्विन्द्रियमुच्यते । तस्मात्
 तस्याधिष्ठात्री देवता मृत्युः । यथान्यत्र,
 तथा शिश्नं निरभिद्यत
 प्रजननेन्द्रियस्थानम् । इन्द्रियं रेतो
 रेतोविसर्गार्थत्वात्सह रेतसोच्यते ।
 रेतस आप इति ॥ ४ ॥

जैसे कि पक्षीका अण्डा फट जाता है । उस छिद्ररूप मुखसे वाक्-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और उस वाक्से वाणीका अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ । इसी प्रकार नासिकारन्ध्र उत्पन्न हुए, उन नासिकारन्ध्रोंसे प्राण और प्राणसे वायु हुआ । इस प्रकार सभी जगह इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता देव—ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए । दो नेत्र, दो कान और त्वचा [—ये इन्द्रियस्थान हैं], हृदय अन्तःकरणका अधिष्ठान है और मन अन्तःकरण है । नाभि सम्पूर्ण प्राणोंके बन्धनका स्थान है । अपान वायुयुक्त होनेके कारण पायु इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुई । जैसे कि अन्यत्र [इन्द्रिय, इन्द्रियस्थान और देवता] बतलाये गये हैं, उसी प्रकार प्रजननेन्द्रियका आश्रयस्थान शिश्न उत्पन्न हुआ । उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसर्ग (वीर्यत्याग)—की हेतुभूत होनेसे रेतः (वीर्य)—के सम्बन्धसे 'रेतस्' कही जाती है और रेतःसे आप (वीर्यके अधिष्ठाता जल)—का प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

देवताओंकी अन्न एवं आयतनयाचना

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्त-
मशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमब्रुवन्नायतनं नः
प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥

वे ये [इस प्रकार] रचे हुए [इन्द्रियाभिमानी] देवगण इस
महासमुद्रमें पतित हो गये। उस (पिण्ड)-को [परमात्माने]
क्षुधा-पिपासासे संयुक्त कर दिया। तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने
उससे कहा—हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतलाइये, जिसमें स्थित
होकर हम अन्न भक्षण कर सकें ॥ १ ॥

ता एता अग्न्यादयो देवता
लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा
ईश्वरेणास्मिन्संसारार्णवे संसार-
समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभव-
दुःखोदके तीव्ररोगजरामृत्यु-
महाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरालम्बे
विषयेन्द्रियजनितसुखलव-
क्षणविश्रामे पञ्चेन्द्रियार्थतृणमारुत-
विक्षोभोत्थितानर्थशतमहोर्मौ महा-
रौरवाद्यनेकनिरयगतहाहेत्यादि-

ईश्वरद्वारा लोकपालरूपसे संकल्प
करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि
देवगण इस अति महान् संसारार्णव—
संसारसमुद्रमें [गिरे], जो
(संसारसमुद्र) अविद्या, कामना और
कर्मसे उत्पन्न हुए दुःखरूप जल
तथा तीव्र रोग, जरा और मृत्युरूप
महाग्राहोंसे पूर्ण है, अनादि, अनन्त,
अपार एवं निरालम्ब है, विषय
और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाला
अणुमात्र सुख ही जिसकी क्षणिक
विश्रान्तिका स्वरूप है, जिसमें पाँचों
इन्द्रियोंकी विषयतृष्णारूप पवनके
विक्षोभसे उठी हुई अनर्थरूप सैकड़ों
उत्ताल तरंगें हैं; जहाँ महारौरव आदि
अनेकों नरकोंके 'हा हा' आदि

कूजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे
 सत्यार्जवदानदयाहिंसाशमदम-
 धृत्याद्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोदुपे
 सत्सङ्गसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे
 एतस्मिन्महत्यर्णवे प्रापत-
 न्यतितवत्यः ।

तस्माद्गन्यादिदेवताप्यय-
 लक्षणापि या गतिर्व्याख्याता
 ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानफलभूता
 सापि नालं संसारदुःखोपशमाय,
 इत्ययं विवक्षितोऽर्थोऽत्र । यत्र
 एवं तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्म
 आत्मात्मनः सर्वभूतानां च यो
 वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जग-
 दुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन स
 सर्वसंसारदुःखोपशमनाय
 वेदितव्यः । तस्मात् “एष पन्था
 एतत्कर्मैतद्ब्रह्मतत् सत्यम्” (ऐ०
 उ० २। १। १) यदेतत्पर-
 ब्रह्मात्मज्ञानम् “नान्यः पन्था
 विद्यतेऽयनाय” (श्वे० उ० ३।
 ८, ६। १५) इति मन्त्रवर्णात् ।

क्रन्दन और चिल्लाहटसे बड़ा
 कोलाहल मचा हुआ है, जिसमें
 सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा,
 शम, दम और धैर्य आदि आत्माके
 गुणरूप पाथेयसे भरी हुई ज्ञानरूप
 नौका है, सत्संग और सर्वत्याग ही
 जिसमें [नौकाओंके आने-जानेका]
 मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर
 है—ऐसे [संसाररूप] महासागरमें
 पतित हुए—गिरे ।

अतः यहाँ यही अर्थ कहना
 इष्ट है कि ज्ञान और कर्मके
 समुच्चयानुष्ठानकी फलस्वरूपा जिस
 अग्नि आदि देवतामें लीन होनारूप
 गतिकी [पूर्व अध्यायोंमें] व्याख्या
 की गयी है वह भी सांसारिक
 दुःखकी शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं
 है । क्योंकि ऐसी बात है इसलिये
 [देवतालयरूप गति संसारदुःखकी
 शान्तिका उपाय नहीं है] ऐसा जानकर
 जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियोंका
 आत्मा है, जिसके विशेषण आगे
 बतलाये जानेवाले हैं और संसारकी
 उत्पत्ति, स्थिति और संसारके कारण-
 रूपसे जिसका यहाँ प्रकरण है
 उसे संसारके सम्पूर्ण दुःखोंकी
 शान्तिके लिये जानना चाहिये । अतः
 “मोक्षप्राप्तिका और कोई मार्ग
 नहीं है” इस श्रुतिके अनुसार यह
 जो परब्रह्मका आत्मस्वरूपसे ज्ञान
 है “यही मार्ग है, यही कर्म है, यही
 ब्रह्म है और यही सत्य है ।”

तं स्थानकरणदेवतोत्पत्ति-
बीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं
पिण्डमात्मानमशनायापिपासाभ्या-
मन्ववार्जदनुगमितवान्संयोजितवा-
नित्यर्थः । तस्य कारण-
भूतस्याशनायादिदोषवत्त्वात्तत्कार्यभूताना-
मपि देवतानामशनायादिमत्त्वम् ।
तास्ततोऽशनायापिपासाभ्यां
पीड्यमाना एनं पितामहं
स्रष्टारमब्रुवन्नुक्तवत्यः—आयतन-
मधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्रजानीहि
विधत्स्व । यस्मिन्नायतने प्रतिष्ठिताः
समर्थाः सत्योऽन्नमदाम भक्षयाम
इति ॥ १ ॥

स्थान (इन्द्रियगोलक), इन्द्रिय
और इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी
उत्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे
प्रथम उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड
अर्थात् आत्माको उसने क्षुधा और
पिपासासे अन्ववार्जित—अनुगमित
अर्थात् संयुक्त किया । उस कारणभूत
पिण्डके क्षुधा आदि दोषोंसे युक्त
होनेके कारण उसके कार्यभूत देवता
आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त
हुए । तब क्षुधा-पिपासासे पीड़ित
होकर उन्होंने उस जगद्रचयिता
पितामहसे कहा—‘हमारे लिये
आयतन—आश्रयस्थानकी व्यवस्था
करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित
होकर हम सामर्थ्यवान् हो अन्न
भक्षण कर सकें’ ॥ १ ॥

गो और अश्वशरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा उनकी अस्वीकृति
एवमुक्त ईश्वरः—
ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ।
ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ २ ॥

उन देवताओंके लिये गौ ले आया । वे बोले—‘यह हमारे लिये पर्याप्त
नहीं है ।’ [फिर वह] उनके लिये घोड़ा ले आया । वे बोले—‘यह भी
हमारे लिये पर्याप्त नहीं है’ ॥ २ ॥

ताभ्यो देवताभ्यो गां
गवाकृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य
एवाद्भ्यः पूर्ववत्पिण्डं समुद्धृत्य

उन देवताओंके लिये गौ—गौके
आकारवाला पिण्ड पूर्ववत् उस जलसे
निकालकर—अवयवोंकी योजनाद्वारा

मूर्च्छयित्वानयद्दर्शितवान्। ताः
 पुनर्गवाकृतिं दृष्ट्वाब्रुवन्—न वै
 नोऽस्मदर्थमधिष्ठानायान्नमत्तुमयं
 पिण्डोऽलं न वै। अलं पर्याप्तः,
 अत्तुं न योग्य इत्यर्थः। गवि
 प्रत्याख्याते ताभ्योऽश्वमानयत्ता
 अब्रुवन् वै नोऽयमलमिति
 पूर्ववत् ॥ २ ॥

रचकर लाया अर्थात् उसे उन
 देवताओंको दिखलाया। उस गौके
 समान आकारवाले प्राणीको देखकर
 वे पुनः बोले—‘यह पिण्ड हमारे लिये
 अन्न भक्षण करनेके निमित्त आश्रय
 बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है। ‘अलम्’
 का अर्थ पर्याप्त है। अर्थात् [यह
 आश्रय] भोजन करनेके योग्य नहीं
 है।’ गौका परित्याग कर देनेपर वह
 उनके लिये घोड़ा लाया। तब वे
 ‘हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है’
 इस प्रकार पूर्ववत् कहने लगे ॥ २ ॥

मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति

सर्वप्रत्याख्याने—

इस प्रकार सबका त्याग कर
 दिया जानेपर—

ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति। पुरुषो
 वाव सुकृतम्। ता अब्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति ॥ ३ ॥

वह उनके लिये पुरुष ले आया। वे बोले—‘यह सुन्दर बना है,
 निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है।’ उन (देवताओंसे) ईश्वरने कहा—
 ‘अपने-अपने आयतन (आश्रयस्थानों)-में प्रवेश कर जाओ’ ॥ ३ ॥

ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनि-
 भूतम्। ताः स्वयोनिं पुरुषं
 दृष्ट्वा अखिन्नाः सत्यः सुकृतं
 शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं
 बतेत्यब्रुवन्। तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष

[वह] उनके लिये उनका
 योनिस्वरूप पुरुष ले आया। अपने
 योनिभूत उस पुरुषको देखकर वे
 खेदरहित हो इस प्रकार बोले—‘यह
 अधिष्ठान सुन्दर बना है। अतः सम्पूर्ण
 पुण्यकर्मोंका कारण होनेसे निश्चय

एव सुकृतं सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात् ।
स्वयं वा स्वेनैवात्मना स्वमायाभिः
कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते ।

ता देवता ईश्वरोऽब्रवीदिष्ट-
मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा,
सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते,
अतो यथायतनं यस्य
यद्वदनादिक्रियायोग्यमायतनं
तत्प्रविशतेति ॥ ३ ॥

पुरुष ही सुकृत है। अथवा स्वयं अपने-
आप अपनी ही मायासे रचा होनेके
कारण 'सुकृत' ऐसा कहा जाता है।

ईश्वरमें यह समझकर कि इन्हें
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योंकि
सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा
करते हैं, उन देवताओंसे कहा—
'जिसका जो आयतन है उस अपनी
सम्भाषणादि क्रियाके योग्य आयतनमें
तुम सब प्रविष्ट हो जाओ' ॥ ३ ॥

देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश

तथास्त्वित्यनुज्ञां प्रति-
लभ्येश्वरस्य नगर्यामिव बलाधि-
कृतादयः—

'ऐसा ही हो' इस प्रकार राजाकी
आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरीमें
सेनाध्यक्षादि [प्रवेश कर जाते हैं
उसी प्रकार]—

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके
प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा
कर्णौ प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं
प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा
नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥ ४ ॥

अग्निने वागिन्द्रिय होकर मुखमें प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर
नासिका-रन्ध्रोंमें प्रवेश किया, सूर्यने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रोंमें प्रवेश
किया, दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि
और वनस्पतियोंने लोम होकर त्वचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन
होकर हृदयमें प्रवेश किया, मृत्युने अपान होकर नाभिमें प्रवेश किया
तथा जलने वीर्य होकर लिंगमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥

अग्निर्वागभिमानी वागेव
 भूत्वा स्वां योनिं मुखं
 प्राविशत्तथोक्तार्थमन्यत् । वायु-
 नासिके आदित्योऽक्षिणी दिशः
 कर्णौ ओषधिवनस्पतयस्त्वचं
 चन्द्रमा हृदयं मृत्युर्नाभिमापः
 शिशुं प्राविशन् ॥ ४ ॥

वागिन्द्रियके अभिमानी अग्निने
 वाक् होकर अपने कारणस्वरूप मुखमें
 प्रवेश किया। इसी प्रकार औरोंका
 भी अर्थ समझना चाहिये। [इस
 प्रकार] वायुने नासिकामें, सूर्यने
 नेत्रोंमें, दिशाओंने कानोंमें, ओषधि
 और वनस्पतियोंने त्वचामें, चन्द्रमाने
 हृदयमें, मृत्युने नाभिमें और जलने
 शिशु (लिंग)-में प्रवेश किया ॥ ४ ॥

क्षुधा और पिपासाका विभाग

एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु—

इस प्रकार देवताओंके आश्रय
 पा लेनेपर—

तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते
 अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ
 करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते
 भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥

उस (ईश्वर)-से क्षुधा-पिपासाने कहा—‘हमारे लिये आश्रयकी
 योजना कीजिये।’ तब [उसने] उनसे कहा—‘तुम दोनोंको मैं इन
 देवताओंमें ही भाग दूँगा अर्थात् मैं तुम्हें इन्हींमें भागीदार करूँगा।’ अतः
 जिस किसी देवताके लिये हवि दी जाती है उस देवताकी हविमें ये
 भूख-प्यास भी भागीदार होती ही हैं ॥ ५ ॥

निरधिष्ठाने सत्यौ अशनायापिपासे
 तमीश्वरमब्रूतामुक्तवत्यौ ।
 आवाभ्यामधिष्ठानमभिप्रजानीहि
 चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थः । स ईश्वर
 एवमुक्तस्ते अशनायापिपासे

क्षुधा और पिपासाने आश्रयहीन
 होनेके कारण उस ईश्वरसे
 कहा—‘हमारे लिये अधिष्ठानका
 अभिप्रज्ञान—चिन्तन अर्थात् विधान
 करो।’ ऐसा कहे जानेपर उस
 ईश्वरने उन क्षुधा-पिपासाओंसे

अब्रवीत् । न हि युवयोर्भावस्वरूपत्वा-
 च्चेतनावद्वस्त्वनाश्रित्यान्नात्तृत्वं
 सम्भवति । तस्मा-
 देतास्वेवाग्न्याद्यासु वां युवां देवता-
 स्वध्यात्माधिदेवतास्वाभजामि वृत्ति-
 सम्बिभागेनानुगृह्णामि । एतासु
 भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो
 हविरादिलक्षणः स्यात्तस्यास्तेनैव
 भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ
 वां करोमीति सृष्ट्यादावीश्वर
 एवं व्यदधाद्यस्मात्तस्मादिदानी-
 मपि यस्यै कस्यै च देवतायै
 अर्थाय हविर्गृह्यते चरुपुरोडाशादि-
 लक्षणं भागिन्यावेव
 भागवत्यावेवास्यां देवताया-
 मशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥

कहा—‘ भावरूप होनेके कारण तुम
 दोनोंका किसी चेतन वस्तुको आश्रय
 किये बिना अन्न भक्षण करना
 सम्भव नहीं है। अतः मैं इन
 अध्यात्म और अधिदैव अग्नि आदि
 देवताओंमें ही तुम दोनोंको आभाजित
 करता हूँ अर्थात् तुम्हारी वृत्तिका
 विभाग करके अनुगृहीत करता हूँ।
 मैं तुम्हें इन देवताओंमें ही भागी
 करता हूँ—अर्थात् जिस देवताका
 जो हवि आदि भाग है उसके उसी
 भागसे मैं तुम्हें उनकी भागिनी—
 भाग ग्रहण करनेवाली बनाता हूँ;
 क्योंकि सृष्टिके आदिमें ईश्वरने
 ऐसी व्यवस्था कर दी थी, इसलिये
 इस समय भी जिस किसी देवताके
 लिये चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण
 की जाती है, ये क्षुधा-पिपासा भी उस
 देवतामें भागिनी होती ही हैं ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये

द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ २ ॥



तृतीय खण्ड

अन्नरचनाका विचार

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥ १ ॥

उस (ईश्वर)-ने विचारा, ये लोक और लोकपाल तो हो गये, अब इनके लिये अन्न रचूँ ॥ १ ॥

स एवमीश्वर ईक्षत, कथम् ?

इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां च संयोजिताः, अतो नैषां स्थितिरन्नमन्तरेण । तस्मादन्नमेभ्यो लोकपालेभ्यः सृजै सृज इति ।

एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे

निग्रहे च स्वातन्त्र्यं दृष्टं

स्वेषु । तद्वन्महेश्वरस्यापि

सर्वेश्वरत्वात्सर्वान्प्रति निग्रहानुग्रहेऽपि

स्वातन्त्र्यमेव ॥ १ ॥

उस ईश्वरने इस प्रकार ईक्षण किया—किस प्रकार? [सो बतलाते हैं—] मैंने इन लोक और लोकपालोंकी रचना तो कर दी और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त भी कर दिया। अतः अन्नके बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती; इसलिये इन लोकपालोंके लिये मैं अन्न रचूँ।

इस प्रकार लोकमें ईश्वरों (समर्थों)-की अपने लोगोंके ऊपर अनुग्रह एवं निग्रह करनेकी स्वतन्त्रता देखी जाती है। इसी प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण महेश्वर (परमेश्वर)-की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रहमें स्वतन्त्रता ही है ॥ १ ॥

अन्नकी रचना

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत । या वै सा मूर्तिरजायतानं वै तत् ॥ २ ॥

उसने आपों (जलों)-को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितप्त आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है ॥ २ ॥

स ईश्वरोऽन्नं सिसृक्षुस्ता एव
पूर्वोक्ता अप उद्दिश्याभ्यतपत् ।
ताभ्योऽभितप्ताभ्य उपादानभूताभ्यो
मूर्तिर्घनरूपं धारणसमर्थं
चराचरलक्षणमजायतोत्पन्नम् ।
अन्नं वै तन्मूर्तिरूपं या वै सा
मूर्तिरजायत ॥ २ ॥

अन्न रचनेकी इच्छावाले उस ईश्वरने उन पूर्वोक्त जलोंको ही उद्देश्य करके तप किया। उन उपादानभूत अभितप्त जलोंसे ही धारण करनेमें समर्थ चराचरभूत घनरूप मूर्ति उत्पन्न हुई। यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह मूर्तिरूप अन्न ही है ॥ २ ॥

अन्नका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग

तदेनत्सृष्टं पराडत्यजिघांसत्तद्वाचाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोद्वाचा
ग्रहीतुम् । यद्धैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ३ ॥

[लोकपालोंके आहारार्थ] रचे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे मुँह फेरकर भागना चाहा। तब उस (आदिपुरुष)-ने उसे वागिन्द्रियद्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [उससे परवर्ती पुरुष भी] अन्नको बोलकर ही तृप्त हो जाया करते ॥ ३ ॥

तदेनदन्नं लोकलोकपालाना-
मर्थेऽभिमुखे सृष्टं तद्यथा
मूषकादिर्माजारादिगोचरे सन्मम
मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागञ्चतीति
पराड् सदत्तृनतीत्याजिघांस-
दतिगन्तुमैच्छत् पलायितुं

लोक और लोकपालोंके निमित्त उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह मानकर कि अन्न भक्षण करनेवाला तो मेरी मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख मोड़कर, जिस प्रकार बिलाव आदिके सामनेसे [उसे अपनी मृत्यु समझकर] चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी प्रकार उन अन्न भक्षण करनेवालोंका अतिक्रमण करके जानेकी इच्छा करने

प्रारभतेत्यर्थः ।

तदन्नाभिप्रायं मत्वा स लोक-
लोकपालसंघातः कार्यकरणलक्षणः
पिण्डः प्रथमजत्वाद्
अन्यांश्चान्नादानपश्यंस्तदन्नं वाचा
वदनव्यापारेणाजिघृक्षद् ग्रहीतु-
मैच्छत् । तदन्नं नाशक्नोन्
समर्थोऽभवद्वाचा वदनक्रियया
ग्रहीतुमुपादातुम् । स प्रथमजः
शरीरी यद्यदि हैनद्वाचाग्रहैष्यद्-
ग्रहीतवान्स्यादन्नं सर्वोऽपि
लोकस्तत्कार्यभूतत्वादभिव्याहृत्य
हैवान्नमत्रप्स्यत्तृप्तोऽभविष्यत्, न
चैतदस्ति, अतो नाशक्नो-
द्वाचा ग्रहीतुमित्यवगच्छामः
पूर्वजोऽपि ॥ ३ ॥

लगा; अर्थात् उसने उनके सामनेसे
दौड़ना आरम्भ कर दिया।

अन्नके उस अभिप्रायको
जानकर लोक और लोकपालोंके
देह-इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने
प्रथमोत्पन्न होनेके कारण अन्य
अन्नभोक्ताओंको न देखकर उस
अन्नको वाणी अर्थात् बोलनेकी
क्रियासे ग्रहण करना चाहा। किन्तु
वह वदनक्रियासे उस अन्नको ग्रहण
करनेमें शक्त—समर्थ न हुआ। वह
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी
यदि इस अन्नको वाणीसे ग्रहण
कर लेता तो उसका कार्यभूत होनेके
कारण सम्पूर्ण लोक अन्नको बोलकर
ही तृप्त हो जाया करता। परन्तु बात
यह है नहीं, अतः हमें जान पड़ता
है कि वह पूर्वोत्पन्न विराट् पुरुष
भी उसे वाणीसे ग्रहण करनेमें
समर्थ नहीं हुआ था ॥ ३ ॥

समानमुत्तरम्—

आगेका प्रसंग भी इसीके
समान है—

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स
यद्धैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राप्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ४ ॥

फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे ग्रहण
करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे प्राणसे ग्रहण कर लेता तो [इस
समय भी पुरुष] अन्नके उद्देश्यसे प्राणक्रिया करके तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥

तच्चक्षुषाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुं स
 यद्धैनच्चक्षुषाग्रहैष्यद् दृष्ट्वा हैवान्मत्रप्स्यत् ॥ ५ ॥

उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [इस समय भी पुरुष] अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५ ॥

तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स
 यद्धैनच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवान्मत्रप्स्यत् ॥ ६ ॥

उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [इस समय भी पुरुष] अन्नको सुनकर ही तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥

तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुं स
 यद्धैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्मत्रप्स्यत् ॥ ७ ॥

उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [इस समय भी पुरुष] अन्नको स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता ॥ ७ ॥

तन्मनसाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स
 यद्धैनन्मनसाग्रहैष्यद्ध्यात्वा हैवान्मत्रप्स्यत् ॥ ८ ॥

उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह मनसे ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो [इस समय भी पुरुष] अन्नका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥

तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स
 यद्धैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हैवान्मत्रप्स्यत् ॥ ९ ॥

उसने इसे शिश्न (लिंग)-से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह शिश्नसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे शिश्नसे ग्रहण कर लेता तो [इस समय भी पुरुष] अन्नका विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता ॥ ९ ॥

अपानद्वारा अन्नग्रहण

तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा
एष यद्वायुः ॥ १० ॥

फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर लिया। वह यह [अपान] ही अन्नका ग्रह (ग्रहण करनेवाला) है। जो वायु अन्नायु (अन्नद्वारा जीवन धारण करनेवाला) प्रसिद्ध है वह यह [अपान] वायु ही है ॥ १० ॥

तत्प्राणेन तच्चक्षुषा तच्छ्रोत्रेण
तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिश्नेन तेन
तेन करणव्यापारेणान्
ग्रहीतुमशक्नुवन्पश्चादपानेन वायुना
मुखच्छिद्रेण तदन्नमजिघृक्षत्।
तदावयत्तदन्नमेवं जग्राह
आशितवान्। तेन स
एषोऽपानवायुरन्नस्य ग्रहोऽन्नग्राहक
इत्येतत्। यद्वायुर्यो वायुरन्नायुः,
अन्नबन्धनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्धः
स एष यो वायुः ॥ ४—१० ॥

[इसी प्रकार उसने] उस अन्नको प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, त्वचासे, मनसे, शिश्नसे एवं भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर अन्तमें उसे मुखके छिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करनेकी इच्छा की। तब उसे ग्रहण कर लिया; अर्थात् इस प्रकार इस अन्नको भक्षण कर लिया। उसी कारणसे वह यह अपानवायु अन्नका ग्रह अर्थात् अन्न ग्रहण करनेवाला है। जो वायु अन्नायु—अन्नरूप बन्धनवाला अर्थात् अन्नरूप जीवनवाला प्रसिद्ध है वह यह [अपान] वायु ही है ॥ ४—१० ॥

परमात्माका शरीरप्रवेशसम्बन्धी विचार

स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या
इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि
चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं
यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥

उस परमेश्वरने विचार किया 'यह (पिण्ड) मेरे बिना कैसे रहेगा?' वह सोचने लगा 'मैं किस मार्गसे [इसमें] प्रवेश करूँ?' उसने विचारा, 'यदि [मेरे बिना] वाणीसे बोल लिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन क्रिया कर ली जाय, यदि नेत्रेन्द्रियसे देख लिया जाय, यदि कानसे सुना जा सके, यदि त्वचासे स्पर्श कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर लिया जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिश्नसे विसर्जन किया जा सके तो मैं कौन रहा? [अर्थात् यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियोंके व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था; तात्पर्य यह कि राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कार्योंके समान मेरी प्रेरणाके बिना इनका होना असम्भव है]' ॥ ११ ॥

स एवं लोकलोकपालसंघात-

स्थितिमन्ननिमित्तां कृत्वा पुर-

पौरतत्पालयितृस्थितिसमां स्वामीव

ईक्षत—कथं नु केन

प्रकारेणेति वितर्कयन्निदं मदृते

मामन्तरेण पुरस्वामिनम्, यदिदं

कार्यकरणसंघातकार्यं वक्ष्यमाणं

कथं नु खलु मामन्तरेण

स्यात्परार्थं सत्। यदि

वाचाभिव्याहृतमित्यादि केवलमेव

वाग्व्यवहरणादि तन्निरर्थकं न

उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी

और उनके रक्षक [राजकर्मचारी आदि]-
की नियुक्तिके समान अन्नरूप

निमित्तवाली लोक और लोकपालोंके
संघातकी स्थिति कर नगरके स्वामीके

समान विचार किया—'कथं नु'
यानी किस प्रकारसे—इस प्रकार

वितर्क करते हुए [उसने सोचा]
यह जो आगे बतलाया जानेवाला कार्य

(भूत) और करणों (इन्द्रियों)-के
संघातका कार्य (व्यापार) है वह परार्थ

(दूसरेके लिये) होनेके कारण मेरे सिवा
अर्थात् पुरके स्वामीरूप मेरे बिना कैसे

होगा? जिस प्रकार अपने स्वामीके
लिये प्रयुक्त पुरवासी और बन्दीजन

आदिकी बलि (कर) एवं स्तुति

कथञ्चन भवेद्वलिस्तुत्यादिवत्;
 पौरवन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं
 सत्तत्स्वामिनमन्तरेणासत्येव स्वामिनि
 तद्वत् ।

तस्मान्मया परेण
 स्वामिनाधिष्ठात्रा कृताकृत-
 फलसाक्षिभूतेन भोक्त्रा भवितव्यं
 पुरस्येव राज्ञा । यदि नामैतत्संहत-
 कार्यस्य परार्थत्वं परार्थिनं मां
 चेतनमन्तरेण भवेत्पुरपौर-
 कार्यमिव तत्स्वामिनम्, अथ
 कोऽहं किं स्वरूपः कस्य वा
 स्वामी ?

यद्यहं कार्यकरणसंघातमनु-
 प्रविश्य वागाद्यभिव्याहृतादिफलं
 नोपलभेय राजेव
 पुरमाविश्याधिकृतपुरुष-
 कृताकृतावेक्षणम्; न
 कश्चिन्मामयं सन्नेवं
 रूपश्चेत्यधिगच्छेद्विचारयेत् ।
 विपर्यये तु योऽयं

आदि स्वामीके बिना अर्थात् स्वामीके
 अभावमें निरर्थक ही है उसी प्रकार
 [मेरे बिना भी] यह जो वाणीसे
 बोलना आदि है अर्थात् केवल
 वाग्व्यापारादि है वह निरर्थक ही होगा
 यानी किसी प्रकार न हो सकेगा ।

अतः नगरके [अधिष्ठाता]
 राजाके समान इस देहरूप संघातके
 परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी
 इसके पाप-पुण्यके फलके साक्षी
 और भोक्तारूपसे स्थित होना चाहिये ।
 यदि इस देहेन्द्रियसंघातका कार्य
 परार्थ (दूसरेके लिये) है और वह
 पुरस्वामीके बिना पुर और पुरवासियोंके
 कार्यके समान मुझ परार्थी अपने चेतन
 रक्षकके बिना हो सकता है तो मैं
 क्या रहा ? अर्थात् किस स्वरूपवाला
 अथवा किसका स्वामी रहा ?

जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेशकर
 वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य-
 अकार्यादिका निरीक्षण करता है
 उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत
 और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश
 करके वाणी आदिके उच्चारणादि
 फलको ग्रहण न करूँगा तो कोई
 भी मुझे 'यह सत् है और ऐसे
 स्वरूपवाला है' ऐसा अधिगम-
 विचार नहीं कर सकेगा । इसके
 विपरीत अवस्थामें ही मैं इस प्रकार

वागाद्यभिव्याहृतादीदमिति वेद,
स सन्वेदनरूपश्चेत्यधिगन्तव्योऽहं
स्याम्; यदर्थमिदं संहतानां
वागादीनामभिव्याहृतादि, यथा
स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादिसंहतानां
स्वावयवैरसंहतपरार्थत्वं तद्वदिति ।

एवमीक्षित्वातः कतरेण
प्रपद्या इति । प्रपदं च मूर्धा
चास्य संघातस्य प्रवेशमार्गौ ।
अनयोः कतरेण मार्गेणेदं
कार्यकरणसंघातलक्षणं पुरं प्रपद्यै
प्रपद्येयेति ॥ ११ ॥

जाना जा सकता हूँ कि जिस प्रकार
स्तम्भ और भित्ति आदिसे मिलकर
बने हुए मन्दिर आदि संघात अपने
अवयवोंके सहित किसी अन्य
असंहत वस्तुके लिये होते हैं उसी
प्रकार जिसके लिये इन संघातरूप
वाणी आदिके उच्चारणादि व्यापार हैं
और जो इन वाणी आदिके उच्चारणादि-
को 'इदम्' इस प्रकार जानता है
वह मैं सत् और चेतनस्वरूप हूँ ।

इस प्रकार विचारकर [उसने
सोचा] अतः मैं किस द्वारसे प्रवेश
करूँ? इस संघातमें प्रवेश करनेके
दो मार्ग हैं—पदाग्र और मूर्धा
इनमेंसे मैं किस मार्गसे इस कार्य-
करणके संघातरूप पुरमें प्रवेश
करूँ? ॥ ११ ॥

परमात्माका मूर्द्धद्वारसे शरीरप्रवेश

एवमीक्षित्वा न
तावन्मद्भृत्यस्य प्राणस्य मम
सर्वार्थाधिकृतस्य प्रवेशमार्गेण
प्रपदाभ्यामधः प्रपद्ये । किं तर्हि
पारिशेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य
प्रपद्येयमिति लोक इवेक्षितकारी—

इस प्रकार विचारकर परमेश्वरने
निश्चय किया—'मैं सम्पूर्ण
कार्योंके अधिकारी अपने सेवक
प्राणके प्रवेशमार्ग निम्नदेशीय
चरणाग्रोंसे तो प्रवेश करूँगा नहीं ।
तो फिर किससे करूँगा? अतः
पदाग्रको त्यागकर बचे हुए मूर्धाको
ही विदीर्ण करके प्रवेश करूँगा ।'
इस प्रकार सोच-समझकर काम
करनेवाले लोगोंके समान—

स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदृतिर्नाम
द्वैस्तदेतन्नानन्दनम् । तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः,
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

वह इस सीमा (मूर्द्धा)-को ही विदीर्णकर इसीके द्वारा प्रवेश कर
गया। वह यह द्वार 'विदृति' नामवाला है; यह नानन्दन (आनन्दप्रद) है।
यह आवसथ [नेत्र], यह आवसथ [कण्ठ], यह आवसथ [हृदय] इस
प्रकार इसके तीन आवसथ (वासस्थान) और तीन स्वप्न हैं ॥ १२ ॥

स स्रष्टेश्वर एतमेव मूर्धसीमानं
केशविभागावसानं विदार्यच्छिद्रं
कृत्वैतया द्वारा मार्गेणमं
लोकं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत
प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा
द्वाः मूर्ध्नि तैलादिधारणकाले
अन्तस्तद्रसादिसंवेदनात् । सैषा
विदृतिर्विदारितत्वाद्विदृतिर्नाम
प्रसिद्धा द्वाः ।

इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि
भृत्यादिस्थानीयसाधारणमार्गत्वान्न
समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । इदं तु द्वारं
परमेश्वरस्यैव केवलस्येति तदेतन्नानन्दनं
नन्दनमेव । नानन्दनमिति दैर्घ्यं

वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध-
सीमाको ही, जिसका केशोंका विभाग
ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात्
उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा—उस
मार्गसे ही इस लोक अर्थात् भूत
और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश कर
गया। वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योंकि
सिरमें तैल आदि धारण करते
समय भीतर उसके रसादिका अनुभव
होता है। विदीर्ण किया जानेके
कारण वह द्वार 'विदृति' अर्थात्
विदृति नामसे प्रसिद्ध है।

इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार
हैं वे भृत्यादिरूप साधारण मार्ग होनेके
कारण समृद्ध अर्थात् आनन्दके
हेतु नहीं हैं। किन्तु यह मार्ग तो
केवल परमेश्वरका ही है। अतः
यह नानन्दन (आनन्दप्रद) है। नन्दनको
ही यहाँ नानन्दन कहा है। 'नानन्दनम्'
इस पद [-के नकार-] में दीर्घ

छान्दसम्। नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा
परस्मिन्ब्रह्मणीति।

तस्यैवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य
जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय
आवसथाः। जागरितकाल
इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः,
स्वप्नकालेऽन्तर्मनः, सुषुप्तिकाले
हृदयाकाश इत्येतत्। वक्ष्यमाणा
वा त्रय आवसथाः; पितृशरीरं
मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति।

त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वप्न-
सुषुप्त्याख्याः। ननु जागरितं
प्रबोधरूपत्वान्न स्वप्नः; नैवम्,
स्वप्न एव। कथम्? परमार्थ-
स्वात्मप्रबोधाभावात्स्वप्नवदसद्वस्तु-
दर्शनाच्च। अयमेवावसथश्चक्षु-
र्दक्षिणं प्रथमः, मनोऽन्तरं
द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः।

अयमावसथ इत्युक्तानुकीर्तन-
मेव। तेषुह्ययमावसथेषु

वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है। तात्पर्य
यह है कि इस मार्गसे जाकर पुरुष
परब्रह्ममें आनन्द प्राप्त करने लगता है।

पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान
इस प्रकार रचना करके उसमें
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस
ईश्वरके तीन आवसथ हैं—
(१) जाग्रत्-कालमें इन्द्रियोंका स्थान
दक्षिण नेत्र; (२) स्वप्नकालमें मनके
भीतर और (३) सुषुप्तिमें हृदयाकाशके
अन्दर अथवा आगे बतलाये जानेवाले
पितृदेह, मातृगर्भाशय और अपना ही
शरीर—ये ही तीन आवसथ हैं।

तथा जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति
नामक तीन स्वप्न हैं। यदि कहो
कि प्रबोधरूप होनेके कारण जाग्रत्
स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है;
वह भी स्वप्न ही है। किस प्रकार?
क्योंकि उस समय परमार्थ आत्म-
स्वरूपके बोधका अभाव होता है
और स्वप्नके समान असत् वस्तुएँ
दिखलायी दिया करती हैं। [उन
आवसथोंमें] यह दक्षिण नेत्र ही
प्रथम है, मनका अन्तर्भाग द्वितीय है
और हृदयाकाश तृतीय है।

अयमावसथः [ऐसा जो तीन
बार कहा गया है] यह पूर्वकथितका
ही अनुकीर्तन है। उन आवसथोंमें

पर्यायेणात्मभावेन वर्तमानोऽविद्यया
दीर्घकालं गाढप्रसुप्तः स्वाभाविक्या
न प्रबुध्यतेऽनेकशत-
सहस्रानर्थसंनिपातजदुःखमुद्ग-
राभिघातानुभवैरपि ॥ १२ ॥

क्रमशः आत्मभावसे रहनेवाला यह
जीव दीर्घकालतक स्वाभाविक अविद्यासे
गाढ निद्रामें सोता रहता है और
अनेकों शतसहस्र अनर्थोंकी प्राप्तिसे
होनेवाले दुःखरूप मुद्गरोंके आघातके
अनुभवसे भी नहीं जगता ॥ १२ ॥

जीवका मोह और उसकी निवृत्ति

स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत् किमिहान्यं वावदिषदिति । स
एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत् । इदमदर्शमिती ३ ॥ १३ ॥

[इस प्रकार शरीरमें प्रवेश करके जीवरूपसे] उत्पन्न हुए उस
परमेश्वरने भूतोंको [तादात्म्यभावसे] ग्रहण किया। और [गुरुकृपासे बोध
होनेपर] 'यहाँ [मेरे सिवा] अन्य कौन है' ऐसा कहा। और मैंने इसे
(अपने आत्मस्वरूपको) देख लिया है इस प्रकार उसने इस पुरुषको ही
पूर्णतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३ ॥

स जातः शरीरे प्रविष्टो
जीवात्मना भूतान्यभिव्यैख्यद्-
व्याकरोत् । स कदाचित्परम
कारुणिकेनाचार्येणात्मज्ञानप्रबोध-
कृच्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्यभेर्या
तत्कर्णमूले ताड्यमानायामेतमेव
सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं पुरि
शयानमात्मानं ब्रह्म बृहत्तमं

उसने उत्पन्न होकर—जीवभावसे
शरीरमें प्रविष्ट होकर भूतोंको व्याकृत
किया [अर्थात् उन्हें तादात्म्यरूपसे
ग्रहण किया]। फिर किसी समय
परम कारुणिक आचार्यके द्वारा
अपने कर्णमूलमें—जिसका शब्द
आत्मज्ञानका दृढ़ बोध करानेवाला
है ऐसी—वेदान्तवाक्यरूप महाभेरीके
बजाये जानेपर उसने, जिसका सृष्टि
आदिके कर्तृत्वरूपसे प्रकरण चला
हुआ है उस पुरुष—[शरीररूप] पुरमें
शयन करनेवाले आत्माको ततम—

तकारेणैकेन लुप्तेन तततमं
 व्याप्ततमं परिपूर्णमाकाशवत्
 प्रत्यबुध्यतापश्यत्। कथम्? इदं ब्रह्म
 ममात्मनः स्वरूपमदर्शं दृष्टवानस्मि,
 अहो इति, विचारणार्था प्लुतिः
 पूर्वम् ॥ १३ ॥

इसमें एक तकारका लोप हुआ है।
 अतः तततम—व्याप्ततम अर्थात्
 आकाशके समान परिपूर्ण महान्
 ब्रह्मरूपसे जाना—साक्षात्कार किया।
 किस प्रकार साक्षात्कार किया [सो
 बतलाते हैं—] ‘अहो! मैंने अपने
 आत्माके स्वरूपको ही इस ब्रह्मरूपसे
 देखा है’ इस प्रकार। यहाँ ‘इती’ पदमें
 जो प्लुत उच्चारण है वह विचार
 प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १३ ॥

‘इन्द्र’ शब्दकी व्युत्पत्ति

यस्मादिदमित्येव यत्साक्षा-
 दपरोक्षाद्ब्रह्म सर्वान्तरमपश्यत्
 परोक्षेण—

क्योंकि जो [जीवरूपसे] सबके
 भीतर रहनेवाला है उस ब्रह्मको ‘इदम्
 (यह)’ इस प्रकार साक्षात् अपरोक्ष-
 रूपसे देखा था परोक्षरूपसे नहीं—

तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम। तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र
 इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया
 इव हि देवाः ॥ १४ ॥

इसलिये उसका नाम ‘इदन्द्र’ हुआ, वह ‘इदन्द्र’ नामसे प्रसिद्ध
 है। ‘इदन्द्र’ होनेपर ही [ब्रह्मवेत्ता लोग] उसे परोक्षरूपसे ‘इन्द्र’
 कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता
 परोक्षप्रिय ही होते हैं ॥ १४ ॥

तस्मादिदं पश्यतीतीदन्द्रो
 नाम परमात्मा। इदन्द्रो ह वै
 नाम प्रसिद्धो लोक ईश्वरः।
 तमेवमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इति

इसलिये जो इसे देखता है वह
 परमात्मा ‘इदन्द्र’ नामवाला है। लोकमें
 ईश्वर ‘इदन्द्र’ नामसे प्रसिद्ध है। इस
 प्रकार ‘इदन्द्र’ होनेपर भी ब्रह्मवेत्ता
 व्यवहारके लिये उसे ‘इन्द्र’ इस

परोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते
 ब्रह्मविदः संव्यवहारार्थम् ;
 पूज्यतमत्वात्प्रत्यक्षनामग्रहणभयात् ।
 तथा हि परोक्षप्रियाः
 परोक्षनामग्रहणप्रिया इव एव हि
 यस्माद्देवाः ; किमुत सर्वदेवानामपि
 देवो महेश्वरः । द्विर्वचनं
 प्रकृताध्यायपरिसमाप्त्यर्थम् ॥ १४ ॥

परोक्ष नामसे पुकारते हैं; क्योंकि
 पूज्यतम होनेके कारण उसका
 प्रत्यक्ष नाम लेनेमें उन्हें भय है ।
 जब कि देवतालोग भी परोक्षप्रिय
 अर्थात् अपना परोक्ष नाम ग्रहण
 किया जाना ही प्रिय माननेवाले
 हैं तब सम्पूर्ण देवताओंके भी
 देव महेश्वरका तो कहना ही
 क्या है ? प्रकृत अध्यायकी समाप्ति
 सूचित करनेके लिये यहाँ दो बार
 कहा गया है ॥ १४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-
 श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये
 तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥

उपनिषत्क्रमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण
 चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।



द्वितीयोऽध्यायः

प्रथम खण्ड

प्रस्तावना

अस्मिंश्चतुर्थेऽध्याय एष

अतीताध्याय- वाक्यार्थः— जग-
विषयावलोकनम् दुत्पत्तिस्थितिप्रलय-
कृदसंसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्व-
वित्सर्वमिदं जगत्स्वतोऽन्य-
द्वस्त्वन्तरमनुपादायैव आकाशादि-
क्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मप्रबोधनार्थं
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि
स्वयं प्रविवेश। प्रविश्य च
स्वमात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति
साक्षात्प्रत्यबुध्यत। तस्मात्स एव
सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य
इति। अन्योऽपि “सम आत्मा
ब्रह्मास्मीत्येवं विद्यात्” इति।
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र
आसीत्” (१। १। १) इति
“ब्रह्म ततमम्” (१। ३। १३)
इति चोक्तम्। अन्यत्र च।

इस (पूर्वोक्त) चौथे^१ अध्यायमें
यह वाक्यार्थ विवक्षित है—^२ जगत्की
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले
असंसारी सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञने अपनेसे
भिन्न किसी अन्य वस्तुको ग्रहण किये
बिना ही इस सम्पूर्ण जगत्की
आकाशादि-क्रमसे रचना कर अपनेको
स्वयं ही जाननेके लिये सम्पूर्ण
प्राणादियुक्त शरीरमें स्वयं ही प्रवेश
किया और प्रवेश करके ‘मैं यह ब्रह्म
हूँ’ इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूपका
साक्षात् बोध प्राप्त किया। अतः समस्त
शरीरमें एकमात्र वही आत्मा है, उससे
भिन्न नहीं। [इसके सिवा] “ [सम्पूर्ण
भूतोंमें] जो सम आत्मा ब्रह्म है वह
मैं हूँ— ऐसा जाने” “निश्चय पहले
एक आत्मा ही था” तथा “ [उसने]
ब्रह्मको [आकाशके समान] अतिशय
व्याप्त [जाना]”। ऐसा भी कहा है
और [ऐसा ही] अन्य उपनिषदोंमें
भी कहा है।

१-आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी है।

२- पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता, लोक तथा लोकपालोंकी सृष्टि और क्षुधा-
पिपासासे संयोग आदि अनेक विषयोंका वर्णन है। उनमें विवक्षित अभिप्रायका
प्रतिपादन किया जाता है।

सर्वगतस्य सर्वात्मनो
 प्रवेशश्रुति- बालाग्रमात्रमप्यप्रविष्टं
 विचारः नास्तीति कथं
 सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिकेव
 सुषिरम्।

नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु
 चात्र चोदयितव्यम्। अकरणः
 सन्नीक्षत। अनुपादाय
 किञ्चिल्लोकानसृजत। अद्भ्यः
 पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छयत्।
 तस्याभिध्यानान्मुखादि निर्भिन्नं
 मुखादिभ्यश्चाग्न्यादयो लोक-
 पालास्तेषां चाशनायापिपासादि-
 संयोजनं तदायतनप्रार्थनं तदर्थं
 गवादिप्रदर्शनं तेषां यथायतन-
 प्रवेशनं सृष्टस्यान्नस्य पलायनं
 वागादिभिस्तज्जिघृक्षा; एतत्सर्वं
 सीमाविदारणप्रवेशसममेव।

अस्तु तर्हि सर्वमेवेद-

मनुपपन्नम्।

पूर्व०—उस सर्वगत सर्वात्माके
 लिये तो बालका अग्रभाग भी अप्रविष्ट
 नहीं है; फिर वह चींटीके बिलप्रवेशके
 समान मूर्धसीमाको विदीर्णकर किस
 प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट हुआ ?

सिद्धान्ती—तुम्हारा यह प्रश्न तो
 अल्प है। अभी तो उपर्युक्त कथनमें
 बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं। उसने
 इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण किया।
 किसी उपादानके बिना ही लोकोंकी
 रचना की। जलमेंसे पुरुष निकालकर
 उसे अवयवयोजनाद्वारा पुष्ट किया।
 अभिध्यानके द्वारा उसका मुख प्रकट
 हुआ तथा मुखादिसे अग्नि आदि
 लोकपाल प्रकट हुए। उनका क्षुधा-
 पिपासादिसे संयोग कराना, उनका
 आयतनके लिये प्रार्थना करना, उसके
 लिये गौ आदि दिखलाना, उन
 देवताओंका अपने-अपने अनुकूल
 आयतनोंमें प्रवेश करना, उत्पन्न हुए
 अन्नका भागना और उसे वाक् आदि
 इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा
 करना—ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण
 करने और शरीरमें प्रवेश करनेके
 समान ही [आश्चर्यजनक] हैं।

पूर्व०—अच्छा तो, इन सभी
 बातोंको अनुपपन्न (असम्भव)
 मान लो।

न; अत्रात्मावबोधमात्रस्य
 विवक्षितत्वात्सर्वोऽयमर्थवाद इत्यदोषः ।
 मायाविवद्वा महामायावी देवः
 सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमेत-
 च्चकार । सुखावबोधनप्रतिपत्त्यर्थं
 लोकवदाख्यायिकादिप्रपञ्च इति
 युक्ततरः पक्षः । न
 हि सृष्ट्याख्यायिकादिपरिज्ञाना-
 त्किञ्चित्फलमिष्यते । एकात्म्य-
 स्वरूपपरिज्ञानात्तु अमृतत्वं फलं
 सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् । स्मृतिषु च
 गीताद्यासु “समं सर्वेषु भूतेषु
 तिष्ठन्तं परमेश्वरम्” (गीता १३ ।
 २७) इत्यादिना ।

ननु त्रय आत्मानः । भोक्ता
 आत्मैकत्वे- कर्ता संसारी जीव
 विचारः एकः सर्वलोक-
 शास्त्रप्रसिद्धः । अनेकप्राणिकर्म-
 फलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठान-
 वल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है;
 क्योंकि श्रुतिको यहाँ केवल
 आत्मावबोधमात्र कहना अभीष्ट
 होनेसे यह सब अर्थवाद है; अतः
 इसमें कोई दोष नहीं है अथवा
 मायावीके समान महामायावी सर्वज्ञ
 सर्वशक्तिमान् प्रभुने इस सम्पूर्ण
 जगत्की रचना की है, और इस
 रहस्यका सरलतासे ज्ञान प्राप्त करनेके
 लिये ही लौकिक रीतिसे यह
 आख्यायिका आदिकी रचना की
 गयी है—इस प्रकार भी यह पक्ष
 युक्तियुक्त जान पड़ता है; क्योंकि
 केवल लोकरचनाकी आख्यायिका
 आदिके परिज्ञानसे कुछ भी फल
 नहीं मिलता । परन्तु आत्माके एकत्व
 और यथार्थ स्वरूपके ज्ञानसे
 अमरत्वरूप फल [प्राप्त होता है—
 यह] सभी उपनिषदोंमें प्रसिद्ध है ।
 तथा “सम्पूर्ण भूतोंमें समान भावसे
 स्थित परमेश्वरको” इत्यादि वाक्योंद्वारा
 गीता आदि स्मृतियोंमें भी [यही
 बात कही गयी है ।] ।

पूर्व०—आत्मा तो तीन हैं; उनमें
 एक तो सम्पूर्ण लोक और शास्त्रमें
 प्रसिद्ध कर्ता-भोक्ता संसारी जीव है ।
 नगर और प्रासादादिके निर्माणके लिंगसे
 जिस प्रकार तत्सम्बन्धी कौशलके
 ज्ञानवाले उनके रचयिता तक्षा (कारीगर)
 आदिका ज्ञान होता है उसी प्रकार

यथाशास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादि-
निर्माणलिङ्गेन तद्विषयकौशलज्ञानवां-
स्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो
जगतः कर्ता द्वितीयश्चेतन आत्मा
अवगम्यते। “यतो वाचो निवर्तन्ते”
(तै० उ० २। ४। १) “नेति
नेति” (बृ० उ० ३। १। २६)
इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध औपनिषदः
पुरुषस्तृतीयः। एवमेते त्रय
आत्मानोऽन्योन्यविलक्षणाः। तत्र
कथमेक एव आत्मा अद्वितीयः
असंसारीति ज्ञातुं शक्यते ?

तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते ?

नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टा

आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता
प्रज्ञातेति।

ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः
श्रवणादिकर्तृत्वे नामतो मन्ताविज्ञातो
विज्ञातेति च। तथा “न मतेर्मन्तारं
मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं
विजानीयाः” (बृ० उ० ३।
४। २) इत्यादि च।

अनेक प्राणियोंके कर्मफलके
उपभोगयोग्य अनेकों अधिष्ठानोंवाले
लोक और देहकी रचनाके शास्त्रप्रदर्शित
लिंगसे दूसरे चेतन आत्मा—जगत्-
कर्ता सर्वज्ञ ईश्वरका ज्ञान होता है।
तथा तीसरा आत्मा “जहाँसे वाणी
लौट आती है” एवं “यह नहीं, यह
नहीं” इत्यादि शास्त्रसे प्रसिद्ध
औपनिषद पुरुष है। इस प्रकार ये
तीनों आत्मा एक-दूसरेसे विलक्षण
हैं, अतः यह कैसे जाना जा सकता
है कि आत्मा एक, अद्वितीय और
असंसारी ही है ?

सिद्धान्ती^१—इन तीनोंमें पहले
जीवका ही ज्ञान कैसे होता है ?

पूर्व०—इस प्रकार ज्ञान होता है
कि ‘वह श्रवण करनेवाला, मनन
करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला,
शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाता^२
और प्रज्ञाता^३ है।’

सिद्धान्ती—परन्तु जिसका
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है
उसे ‘अमत और मनन करनेवाला,
अविज्ञात और विशेषरूपसे जानने-
वाला’ इस प्रकार कहना तथा “मतिके
मनन करनेवालेका मनन न करो,
विज्ञातिके विज्ञाताको न जानो” इत्यादि
श्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा।

१-सिद्धान्तीकी यह उक्ति पहले आत्मामें बतलाये हुए कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि
धर्मोंका प्रतिषेध करनेके लिये है।

२-विशेष जाननेवाला। ३-सबसे अधिक जाननेवाला।

सत्यं विप्रतिषिद्धम्, यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्। प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते “न मतेर्मन्तारं मन्वीथाः” (बृ० उ० ३। ४। २) इत्यादिना। ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन; तत्र कुतो विप्रतिषेधः।

ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं ज्ञायते? यावता यदा शृणोत्यात्मा श्रोतव्यं शब्दम्, तदा तस्य श्रवणक्रिययैव वर्तमानत्वा-
मननविज्ञानक्रिये न सम्भवतः,
आत्मनि परत्र वा। तथान्यत्रापि मननादिक्रियासु। श्रवणादिक्रियाश्च स्वविषयेष्वेव। न हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्मननक्रिया सम्भवति।

ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम्।

सत्यमेवं तथापि सर्वमपि

पूर्व०—यदि उसे सुखादिके समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो अवश्य विरुद्ध होगा। किन्तु “मतिके मनन करनेवालेका मनन न करो” इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका निवारण किया गया है। उसका ज्ञान तो श्रवणादि लिंगसे होता है; फिर इसमें विरोध कहाँ है?

सिद्धान्ती—श्रवणादि लिंगसे भी आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि जब और जिस समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दको सुनता है उस समय श्रवणक्रियाके साथ ही वर्तमान रहनेके कारण उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ सम्भव नहीं हैं। [इस प्रकार विजातीय क्रियाओंकी सम-कालीनताका निषेध करके अब सजातीय क्रियाओंका निषेध करते हैं—] इसी प्रकार अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी समझना चाहिये। श्रवणादि क्रियाएँ भी अपने विषयोंमें ही प्रवृत्त हो सकती हैं [आश्रयमें नहीं]। मनन करनेवालेकी मननक्रिया मन्तव्यसे भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है।

पूर्व०—मनसे तो सभीका मनन किया जाता है।

सिद्धान्ती—यह ठीक है; परन्तु

मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं
शक्यम्।

यद्येवं किं स्यात्?

इदमत्र स्यात्; सर्वस्य योऽयं

मन्ता स मन्तैवेति न स

मन्तव्यः स्यात् । न च द्वितीयो

मन्तुर्मन्तास्ति। यदा स आत्मनैव

मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः,

आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य

आत्मा तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्।

एक एवात्मा द्विधा मन्तृ-

मन्तव्यत्वेन द्विशकलीभवे-

द्वंशादिवत्। उभयथाप्यनुपपत्ति-

रेव। यथा प्रदीपयोः

प्रकाश्यप्रकाशकत्वानुपपत्तिः समत्वा-

त्तद्वत्।

न च मन्तुर्मन्तव्ये मनन-

व्यापारशून्यः कालोऽस्त्यात्म-

मननाय। यदापि लिङ्गेनात्मानं

मनुते मन्ता; तदापि पूर्ववदेव

जो कुछ मनन किया जाता है वह सब मननकर्ताके बिना नहीं किया जा सकता।

पूर्व०—यदि ऐसा हो भी तो इससे क्या होगा?

सिद्धान्ती—इससे यहाँ यह होगा कि जो इस सबका मनन करनेवाला है वह मनन करनेवाला ही रहेगा, मन्तव्य नहीं होगा। तथा उस मनन करनेवालेका कोई दूसरा मननकर्ता भी नहीं है। यदि उसे आत्माद्वारा ही मन्तव्य माना जाय तो जिस आत्मासे आत्मा मनन किया जाता है और जिस आत्माका मनन किया जाता है उनके दो होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा अथवा बाँस आदिके समान एक ही आत्मा मन्ता और मन्तव्यरूपसे दो भागोंमें विभक्त माना जायगा। किन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति ही है। जैसे कि समानरूप होनेके कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकाश्य-प्रकाशकत्व नहीं बन सकता, उसी प्रकार [यहाँ समझना चाहिये]।

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन करनेके लिये मन्तव्य पदार्थोंका मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई काल भी नहीं है। जिस समय भी किसी लिंगके द्वारा मन्ता अपना

लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च
 तस्य मन्ता तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्
 एक एव वा द्विधेति-
 पूर्वोक्तदोषः। न प्रत्यक्षेण
 नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत् कथ-
 मुच्यते “स म आत्मेति विद्यात्”
 (कौषी० ३। ९) इति? कथं
 वा श्रोता मन्तेत्यादि?

ननु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा,
 अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः।
 किमत्र विषमं पश्यसि?

यद्यपि तव न विषमं तथापि
 मम तु विषमं प्रतिभाति। कथम्?
 यदासौ श्रोता तदा न मन्ता यदा
 मन्ता तदा न श्रोता। तत्रैवं सति
 पक्षे श्रोता मन्ता पक्षे न श्रोता
 नापि मन्ता। तथान्यत्रापि च।
 यदैवं तदा श्रोतृत्वादिधर्मवा-
 नात्मा अश्रोतृत्वादिधर्मवान्

मनन करता है उस समय भी पहलेहीके
 समान लिंगसे मन्तव्य आत्मा और
 जो कोई उसका मनन करनेवाला है
 वे दो सिद्ध होते हैं; अथवा एक ही
 दो भागोंमें विभक्त है—इस प्रकार
 पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है।
 और यदि वह न प्रत्यक्षसे जाना जाता
 है और न अनुमानसे तो ऐसा क्यों
 कहते हैं कि “वह मेरा आत्मा है—
 ऐसा जाने” और क्यों उसे श्रोता-
 मन्ता इत्यादि बतलाते हैं?

पूर्व०—आत्मा तो श्रोतृत्वादि
 धर्मवाला है और आत्माके अश्रोतृत्व
 आदि धर्म भी [श्रुतिमें] प्रसिद्ध हैं
 फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या
 दिखलायी देती है?

सिद्धान्ती—यद्यपि तुझे कोई
 विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि
 मुझे तो होती ही है। किस प्रकार
 कि जिस समय यह श्रोता होता है
 उस समय मन्ता नहीं होता और
 जब मन्ता होता है तब श्रोता नहीं
 होता। ऐसा होनेके कारण वह एक
 पक्षमें श्रोता और मन्ता है तो दूसरे
 पक्षमें न श्रोता है और न मन्ता ही
 है। ऐसा ही अन्यत्र (विज्ञाता आदिके
 सम्बन्धमें) भी समझना चाहिये।

जब कि ऐसी बात है तब
 आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवाला है अथवा

वेति संशयस्थाने कथं तव न
 वैषम्यम्। यदा देवदत्तो गच्छति
 तदा न स्थाता गन्तैव। यदा
 तिष्ठति तदा न गन्ता स्थातैव।
 तदा अस्य पक्ष एव गन्तृत्वं
 स्थातृत्वं च। न नित्यं गन्तृत्वं
 स्थातृत्वं वा। तद्वत्।

तथैवात्र काणादादयः
 पश्यन्ति। पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना
 आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि-
 वचनात्। संयोगजत्वमयौगपद्यं
 च ज्ञानस्य ह्याचक्षते। दर्शयन्ति
 चान्यत्रमना अभूवं नादर्श-
 मित्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो
 लिङ्गमिति च न्याय्यम्।

भवत्वेवम्; किं तव
 नष्टं यद्येवं स्यात्?

अश्रोतृत्वादि धर्मवाला? इस प्रकार
 संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे
 विषमता क्यों नहीं दिखायी देती?
 जिस समय देवदत्त चलता है उस
 समय वह चलनेवाला ही होता है
 ठहरनेवाला नहीं होता, तथा जिस
 समय वह ठहरता है उस समय वह
 ठहरनेवाला ही होता है, चलनेवाला
 नहीं होता। ऐसी अवस्थामें इसका
 गन्तृत्व और स्थातृत्व पाक्षिक ही
 होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा
 नित्यस्थातृत्व नहीं होता। इसी प्रकार
 [आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक
 ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं]।

काणाद आदि अन्य मतावलम्बी
 भी इस विषयमें ऐसा ही समझते हैं;
 क्योंकि इस विषयमें उनका कथन है
 कि पक्षमें प्राप्त होनेवाले श्रोतृत्वादिके
 कारण ही आत्मा श्रोता, मन्ता इत्यादि
 कहा जाता है। वे ज्ञानका संयोगजत्व
 (इन्द्रिय और मनके संयोगसे उत्पन्न
 होना) और अयौगपद्य (एक साथ
 न होना) प्रतिपादन करते हैं। और
 मनको एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होनेमें
 वे 'मैं अन्यमनस्क था, इसलिये न
 देख सका' इत्यादि लिंग प्रदर्शित करते
 हैं और यह युक्तिसंगत भी है।

पूर्व०—ऐसा सिद्धान्त भले ही
 रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो
 तुम्हारी क्या हानि है?

अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्। श्रुत्यर्थस्तु

न सम्भवति।

किं न श्रोता मन्तेत्यादि-
श्रुत्यर्थः ?

न; न श्रोता न

मन्तेत्यादिवचनात्।

ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं

त्वया।

न; नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युप-

गमात्। “न हि श्रोतुः

श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते” (बृ०

उ० ४। ३। २७) इत्यादिश्रुतेः।

एवं तर्हि नित्यमेव

श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरुद्धा

युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चात्मनः

कल्पितः स्यात्।

तच्चानिष्टमिति।

नोभयदोषोपपत्तिः। आत्मनः

श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवत्त्वश्रुतेः।

अनित्यानां मूर्तानां च चक्षु-

रादीनां दृष्ट्याद्यनित्यमेव संयोग-

सिद्धान्ती—यदि तुम्हें अभिमत हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य तो हो नहीं सकता।

पूर्व०—क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि श्रुतिका अर्थ नहीं है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि [श्रुतिमें तो] ‘न श्रोता है न मन्ता है’ इत्यादि भी कहा है।

पूर्व०—परन्तु इस विरोधको तो तुमने पाक्षिक बतलाकर खण्डित कर दिया है।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि आत्माका श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना गया है, जैसा कि “श्रोताकी श्रुतिका लोप कभी नहीं होता” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है।

पूर्व०—ऐसी दशामें तो आत्माका नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्षविरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका अभाव ये दो बातें माननी पड़ेंगी। किन्तु यह किसीको अभीष्ट नहीं है।

सिद्धान्ती—इन दोनों दोषोंकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि श्रुतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति आदिके श्रोतृत्वादि धर्मवाला है* जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित होना, तृणादिके

* अर्थात् वह श्रुतिका श्रोता, मन्तिका मन्ता तथा विज्ञाता आदि रूपसे प्रसिद्ध है।

वियोगधर्मिणाम्, यथाग्नेर्ज्वलनं
 तृणादिसंयोगजत्वात्तद्वत्। न तु
 नित्यस्यामूर्तस्यासंयोगवियोगधर्मिणः
 संयोगजदृष्ट्याद्यनित्यधर्मवत्त्वं
 सम्भवति। तथा च श्रुतिः
 “न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो
 विद्यते” (बृ० उ० ४। ३। २३)
 इत्याद्या। एवं तर्हि द्वे दृष्टी चक्षुषो-
 ऽनित्या दृष्टिर्नित्या चात्मनः।
 तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या
 नित्या चात्मस्वरूपस्य। तथा द्वे
 मती विज्ञाती बाह्याबाह्ये एवं
 ह्येव। तथा चेयं श्रुतिरूपपन्ना
 भवति “दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता”
 इत्याद्या।

लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षुष-
 स्तिमिरागमापाययोर्नष्टा दृष्टिर्जाता
 दृष्टिरिति चक्षुर्दृष्टेरनित्यत्वम्;
 तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म-
 दृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध-
 मेव लोके। वदति हि उद्धृतचक्षुः
 स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट इति।
 तथावगतबाधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मन्त्रो-

संयोगसे होनेके कारण, अनित्य है;
 उसी प्रकार संयोग-वियोगधर्मी, मूर्त
 एवं अनित्य चक्षु आदिके धर्म दृष्टि
 आदि अनित्य ही हैं। किन्तु जो नित्य,
 अमूर्त और संयोग-वियोगधर्मसे रहित
 है उस (आत्मा)-का संयोगजनित दृष्टि
 आदि अनित्य धर्मोंसे युक्त होना
 सम्भव नहीं है। ऐसी ही “द्रष्टाकी
 दृष्टिका लोप नहीं होता” इत्यादि श्रुति
 भी है। इस प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती
 हैं—(१) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और
 (२) आत्माकी नित्य दृष्टि। इसी प्रकार
 दो श्रुति हैं—श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और
 आत्माकी नित्य श्रुति। तथा इसी प्रकार
 बाह्य और अबाह्यरूप दो मति और
 दो विज्ञाति हैं। ऐसी अवस्थामें ही
 “दृष्टिका द्रष्टा है, श्रुतिका श्रोता है”
 इत्यादि श्रुति सार्थक हो सकती है।

लोकमें भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति
 और विनाशसे ‘दृष्टि नष्ट हो गयी,
 दृष्टि उत्पन्न हो गयी’ इस प्रकार नेत्रकी
 दृष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध ही है। इसी
 प्रकार श्रुति-मति इत्यादिका [अनित्यत्व
 माना गया है;] और आत्माकी दृष्टि
 आदिका नित्यत्व तो लोकमें प्रसिद्ध
 ही है। जिसके नेत्र निकाल लिये गये
 हैं वह पुरुष भी ऐसा कहता ही है
 कि ‘आज स्वप्नमें मैंने अपने भाईको
 देखा था।’ तथा जिसका बहरापन
 सबको ज्ञात है वह भी ‘मैंने स्वप्नमें
 मन्त्र सुना’ इत्यादि कहता ही है।

ऽद्येत्यादि। यदि चक्षुःसंयोग-
जैवात्मनो नित्या दृष्टिस्तन्नाशे
नश्येत्। तदोद्धृतचक्षुः स्वप्ने
नीलपीतादि न पश्येत्। “न हि
द्रष्टुर्दृष्टेः” (बृ० उ० ४।३।२३)
इत्याद्या च श्रुतिरनुपपन्ना स्यात्।
“तच्चक्षुः पुरुषो येन स्वप्ने
पश्यति” इत्याद्या च श्रुतिः।

नित्या आत्मनो दृष्टि-
र्बाह्यानित्यदृष्टेर्ग्राहिका। बाह्यदृष्टे-
श्चोपजनापायाद्यनित्यधर्मवत्त्वात्तद्-
ग्राहिकाया आत्मदृष्टेस्तद्वदव-
भासत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं
लोकस्येति युक्तम्। यथा भ्रमणादि-
धर्मवदलातादिवस्तुविषयदृष्टिरपि
भ्रमतीव तद्वत्। तथा
च श्रुतिः “ध्यायतीव लेलायतीव”
(बृ० उ० ४।३।७) इति।
तस्मादात्मदृष्टेर्नित्यत्वान्न यौग-

यदि आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके
संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो
तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट
हो जाय। उस अवस्थामें जिसके
नेत्र निकाल लिये गये हैं वह पुरुष
स्वप्नमें नीला-पीला आदि नहीं
देख सकेगा और तब “द्रष्टाकी
दृष्टिका लोप नहीं होता” इत्यादि
श्रुति और “वह नेत्र है, जिसके
द्वारा पुरुष स्वप्नमें देखता है” इत्यादि
श्रुति भी निरर्थक हो जायगी।

आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य
अनित्य दृष्टिको ग्रहण करनेवाली
है। बाह्य दृष्टि उत्पत्ति-विनाशादि
अनित्य धर्मवाली है; अतः लोगोंको
जो उसे ग्रहण करनेवाली आत्मदृष्टिका
उसीके समान भासित होना और
अनित्य होना आदि प्रतीत होता है
वह भ्रान्तिके कारण है—ऐसा मानना
ठीक ही है। जिस प्रकार भ्रमण
आदि धर्मवाली अलातचक्र आदि
वस्तुओंसे सम्बन्धित दृष्टि भी भ्रमती-
सी जान पड़ती है, उसी प्रकार
[इसे समझना चाहिये]। ऐसा ही
“ध्यायतीव लेलायतीव” आदि श्रुति
भी कहती है। अतः नित्य होनेके
कारण आत्मदृष्टिका यौगपद्य (अनेक

पद्यमयौगपद्यं वास्ति ।

बाह्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात्तु
लोकस्य तार्किकाणां
चागमसंप्रदायवर्जितत्वाद् अनित्या
आत्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नैव ।
जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना
चैतन्निमित्तैव । तथा च अस्ति
नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो
वाङ्मनसयोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति,
तद्विषयाया नित्याया
दृष्टेर्निर्विशेषायाः—अस्ति नास्ति,
एकं नाना, गुणवदगुणम्, जानाति
न जानाति, क्रियावदक्रियम्,
फलवदफलम्, सबीजं निर्बीजम्,
सुखं दुःखम्, मध्यममध्यम्,
शून्यमशून्यम्, परोऽहमन्य इति वा
सर्ववाक्प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो
विकल्पयितुमिच्छति; स नूनं खमपि
चर्मवद्वेष्टयितुमिच्छति, सोपानमिव
च पद्भ्यामारोढुम्, जले खे च
मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते ।
“नेति नेति” (बृ० उ० ३।१।
२६) “यतो वाचो निवर्तन्ते”
(तै० उ० २।४।१) इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

दृष्टियोंका एक साथ होना) अथवा
अयौगपद्य नहीं है ।

बाह्य अनित्य दृष्टिरूप उपाधिके
कारण लोकको और तार्किक पुरुषोंको
वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके कारण
ऐसी भ्रान्ति होना उचित ही है कि
आत्माकी दृष्टि अनित्य है । जीव,
ईश्वर और परमात्माके भेदकी कल्पना
भी इसी निमित्तसे है । इसी प्रकार
अस्ति (है) नास्ति (नहीं है) आदि
जितने भी वाणी और मनके भेद हैं
वे सब जहाँ एक हो जाते हैं उसे
विषय करनेवाली नित्य निर्विशेष
दृष्टिके सम्पूर्ण वाक्प्रतीतियोंके अविषय
स्वरूपमें जो है—नहीं है, एक—अनेक,
सगुण—निर्गुण, जानता है, नहीं जानता,
सक्रिय—निष्क्रिय, सफल—निष्फल,
सबीज—निर्बीज, सुख—दुःख, मध्य—
अमध्य, शून्य—अशून्य अथवा पर—
अहं एवं अन्यकी कल्पना करना चाहता
है वह निश्चय ही आकाशको भी
चमड़ेके समान लपेटना चाहता है और
अपने पैरोंसे उसपर सीढ़ियोंके समान
आरूढ़ होनेको उद्यत है । वह मानो
जल और आकाशमें मछली तथा
पक्षियोंके चरणचिह्न देखनेको
उत्सुक है; जैसा कि “नेति नेति”
“यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि श्रुतियों

“को अद्धा वेद” (ऋ० सं० १ ।
३० । ६) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ।

कथं तर्हि तस्य स म
आत्मेति वेदनम् । ब्रूहि केन
प्रकारेण तमहं स म आत्मेति
विद्याम् ।

अत्राख्यायिकामाचक्षते—

कश्चित्किल मनुष्यो मुग्धः
कैश्चिदुक्तः कस्मिंश्चिदपराधे सति
धिक्त्वां नासि मनुष्य इति । स
मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं
प्रत्यायितुं कंचिदुपेत्याह—ब्रवीतु
भवान्कोऽहमस्मीति । स तस्य
मुग्धतां ज्ञात्वाह—क्रमेण
बोधयिष्यामीति । स्थावराद्यात्म-
भावमपोह्य न त्वमनुष्य
इत्युक्त्वोपरराम । स तं मुग्धः
प्रत्याह—भवान्मां बोधयितुं
प्रवृत्तस्तूष्णीं बभूव किं न
बोधयतीति ? तादृगेव तद्भवतो
वचनम् । नास्यमनुष्य इत्युक्तेऽपि
मनुष्यत्वमात्मनो न प्रतिपद्यते यः
स कथं मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि
मनुष्यत्वमात्मनः प्रतिपद्येत ?

और “को अद्धा वेद*” इत्यादि
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है ।

पूर्व०—तो फिर उसे ‘वह मेरा
आत्मा है’ इस प्रकार कैसे जाना
जाता है ? बतलाओ उसे मैं किस
प्रकारसे ‘वह मेरा आत्मा है’ इस
प्रकार जानूँगा ?

सिद्धान्ती—इस विषयमें एक
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढ़
मनुष्यसे किसीने उससे कोई अपराध
बन जानेपर कहा—‘तुझे धिक्कार
है, तू मनुष्य नहीं है।’ उसने
मूढ़तावश अपना मनुष्यत्व निश्चित
करानेके लिये किसीके पास जाकर
कहा—‘आप बतलाइये, मैं कौन
हूँ?’ वह उसकी मूर्खता समझकर
उससे बोला—‘धीरे-धीरे बतलाऊँगा।’
और फिर स्थावरादिमें उसके
आत्मत्वका निषेध बतलाकर ‘तू
अमनुष्य नहीं है,’ ऐसा कहकर
चुप हो गया । तब उस मूर्खने उससे
कहा—‘आप मुझे समझानेके लिये
प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये,
समझाते क्यों नहीं हैं?’ उसीके
समान आपके ये वचन हैं । जो
पुरुष ‘तू अमनुष्य नहीं है’ ऐसा
कहनेपर अपना मनुष्यत्व नहीं समझता
वह ‘तू मनुष्य है’ ऐसा कहनेपर भी
अपना मनुष्यत्व कैसे समझ सकेगा ?

* उसे साक्षात् कौन जानता है ?

तस्माद्यथाशास्त्रोपदेश एवा-
 त्मावबोधविधिर्नान्यः । न ह्यग्ने-
 र्दाह्यं तृणाद्यन्येन केनचिद्गन्धुं
 शक्यम् । अत एव शास्त्रमात्म-
 स्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं
 सदमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव “नेति
 नेति” (बृ० उ० ३। १। २६)
 इत्युक्तवोपरराम । तथा
 “अनन्तरमबाह्यम्” (बृ० उ० २।
 ५। १९, ३। ८। ८) “अयमात्मा
 ब्रह्म सर्वानुभूः” (बृ० उ० २।
 ५। १९) इत्यनुशासनम् ।
 “तत्त्वमसि” (छा० उ० ६।
 ८—१६) “यत्र त्वस्य
 सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं
 पश्येत्” (बृ० उ० २। ४। १४,
 ४। ५। १५) इत्येवमाद्यपि च ।

यावदयमेवं यथोक्तमिम-
 मात्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्यानित्य-
 दृष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वेनोपेत्य
 अविद्या उपाधिधर्मा-
 नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्ब-
 पर्यन्तेषु देवतिर्यङ्नरस्थानेषु पुनः
 पुनरावर्तमानोऽविद्याकामकर्म-
 वशात्संसरति । स एवं संसर-
 न्पुनात्तदेहेन्द्रियसंघातं त्यजति ।

अतः जैसा शास्त्रका उपदेश है
 उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कारकी
 विधि है, उससे भिन्न नहीं । अग्निसे
 दग्ध होनेवाले तृण आदि किसी
 अन्य वस्तुसे नहीं जलाये जा सकते ।
 अतएव शास्त्र आत्मस्वरूपका बोध
 करानेके लिये प्रवृत्त होकर
 अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके समान “नेति
 नेति” ऐसा कहकर चुप हो गया
 है । इसी तरह “अन्तर्बाह्यभावसे
 रहित” “यह आत्मा सबका अनुभव
 करनेवाला ब्रह्म है” इत्यादि भी
 शास्त्रका उपदेश है । तथा “वह तू
 है” “जहाँ इसके लिये सब कुछ
 आत्मा ही हो जाता है वहाँ किससे
 किसे देखे ?” इत्यादि ऐसे ही और
 भी वाक्य यही बतलाते हैं ।

जबतक यह जीव उपर्युक्त
 आत्माको ‘यह ऐसा है’ इस प्रकार नहीं
 जानता तबतक यह बाह्य अनित्य
 दृष्टिरूप उपाधिको आत्मभावसे प्राप्त
 होकर अविद्यावश उपाधिके धर्मोंको
 आत्माके धर्म मानता हुआ ब्रह्मासे
 लेकर स्तम्बपर्यन्त देवता, पशु-पक्षी
 और मनुष्योंकी योनियोंमें पुनः-पुनः
 चक्कर लगाता हुआ अविद्या, कामना
 और कर्मके अधीन हो [जन्म-
 मरणरूप] संसारको प्राप्त होता रहता है ।
 वह इस प्रकार संसारको प्राप्त होता हुआ

त्यक्त्वान्यमुपादत्ते । पुनः पुन-
रेवमेव नदीस्रोतोवज्जन्ममरण-
प्रबन्धाविच्छेदेन वर्तमानः
काभिरवस्थाभिर्वर्तत इत्येतमर्थं
दर्शयन्त्याह श्रुतिर्वैराग्यहेतोः—

प्राप्त हुए देह और इन्द्रियके संघातको त्याग देता है और एकको त्यागकर दूसरेको ग्रहण कर लेता है। वह इसी प्रकार नदीके स्रोतके समान जन्म-मरणकी परम्पराका विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओंमें रहता है, इसी बातको [मनुष्योंके मनमें] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये दिखलाती हुई श्रुति कहती है—

पुरुषका पहला जन्म

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः
तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति । तद्यदा
स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥

सबसे पहले यह पुरुषशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता है। यह जो प्रसिद्ध रेतस् (वीर्य) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अंगोंसे उत्पन्न हुआ तेज (सार) है। पुरुष इस आत्मभूत तेजको अपने [शरीर]-में ही पोषण करता है। फिर जिस समय वह इसे स्त्रीमें सींचता है तब इसे [गर्भरूपसे] उत्पन्न करता है। यह इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥

अयमेवाविद्याकामकर्माभि-
मानवान् यज्ञादिकर्मकृत्वास्मा-
ल्लोकाद् धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं
प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादि-
क्रमेणोमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः
पुरुषाग्नौ हुतः । तस्मिन्पुरुषे ह
वा अयं संसारी रसादिक्रमेण
आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण

अविद्या, काम और कर्मजनित अभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि कर्म करके इस लोकसे धूमादि क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कर्मोंके क्षीण होनेपर वृष्टि आदि-क्रमसे इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूपसे पुरुषरूप अग्निमें हवन किया जाता है। उस पुरुषमें यह संसारी जीव रसादिक्रमसे सबसे पहले शुक्ररूपसे

गर्भो भवतीत्येतदाह यदेत-
त्पुरुषे रेतस्तेन रूपेणेति ।

तच्चैतद्रेतोऽन्नमयस्य पिण्डस्य
सर्वेभ्योऽङ्गोभ्योऽवयवोभ्यो
रसादिलक्षणेभ्यस्तेजः साररूपं
शरीरस्य संभूतं परिनिष्पन्नं
तत्पुरुषस्यात्मभूतत्वादात्मा ।
तमात्मानं रेतोरूपेण गर्भीभूत-
मात्मन्येव स्वशरीर एवात्मानं
बिभर्ति धारयति ।

तद्रेतो यदा यस्मिन्काले
भार्यर्तुमती तस्यां योषाग्नौ
स्त्रियां सिञ्चत्युपगच्छन्, अथ
तदैन्देतद्रेत आत्मनो गर्भभूतं
जनयति पिता । तदस्य पुरुषस्य
स्थानान्निर्गमनं रेतःसेककाले
रेतोरूपेणास्य संसारिणः प्रथमं
जन्म प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः ।
तदेतदुक्तं पुरस्तात् “असावात्मानु-
मात्मानम्” इत्यादिना ॥ १ ॥

गर्भ होता है । इसी बातको ‘यह जो
पुरुषमें रेतस् है तद्रूपसे [गर्भ होता
है]’ इस वाक्यसे कहा है ।

वह यह रेतस् (शुक्र) अन्नमय
पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अंग
यानी अवयवोंसे तेज—शरीरका
सारभूत निष्पन्न हुआ है । वह पुरुषका
आत्मभूत होनेके कारण ‘आत्मा’
है । शुक्ररूपसे गर्भीभूत हुए उस
आत्माको पुरुष अपने शरीरमें ही
धारण (पोषण) करता है ।

जिस समय भार्या ऋतुमती होती है
उस समय पिता उस शुक्रको स्त्रीरूप
अग्नि—अर्थात् स्त्री [-की योनि]-
में उससे संयोग करके सींचता है
उस समय वह इस शुक्रको अपने
गर्भरूपसे उत्पन्न करता है । इस प्रकार
रेतःसिंचनकालमें रेतोरूपसे अपने
स्थानसे निकलना ही इस संसारी पुरुषका
प्रथम जन्म अर्थात् प्रथमावस्थाकी
अभिव्यक्ति है । यही बात “असावात्मा
अमुमात्मानम्” इत्यादि वाक्यसे पहले
कही गयी है ॥ १ ॥

तत्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति । यथा स्वमङ्गं तथा । तस्मादेनां
न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्रगतं भावयति ॥ २ ॥

जिस प्रकार [स्तनादि] अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य
स्त्रीके आत्मभाव (तादात्म्य)-को प्राप्त हो जाता है । अतः वह उसे
पीड़ा नहीं पहुँचाता । अपने उदरमें गये हुए उस (पति)-के इस
आत्माका वह पोषण करती है ॥ २ ॥

तद्रेतो यस्यां स्त्रियां सिक्तं
 सत्तस्या आत्मभूयमात्माव्यतिरेकतां
 यथा पितुरेवं गच्छति प्राप्नोति
 यथा स्वमङ्गं स्तनादि तथा
 तद्वदेव । तस्माद्धेतोरेनां मातरं
 स गर्भो न हिनस्ति पिटकादिवत् ।
 यस्मात्स्तनादिस्वाङ्गवदात्मभूतं
 गतं तस्मान्न हिनस्ति न बाधत
 इत्यर्थः ।

सा अन्तर्वत्येतमस्य भर्तु-
 रात्मानमत्रात्मन उदरे गतं प्रविष्टं
 बुद्ध्वा भावयति वर्धयति परि-
 पालयति गर्भविरुद्धाशनादि-
 परिहारमनुकूलाशनाद्युपयोगं च
 कुर्वती ॥ २ ॥

वह वीर्य जिस स्त्रीमें सींचा जाता है उस स्त्रीके आत्मभाव अर्थात् पिताके शरीरके समान उसके शरीरसे अभिन्नताको प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार अपने अंग स्तनादि (देहसे पृथक् नहीं) होते हैं उसी प्रकार यह भी हो जाता है । इसीलिये यह गर्भ पिटक (आन्तरिक व्रणरूप ग्रन्थि) आदिके समान उस माताको कष्ट नहीं देता । क्योंकि वह स्तनादि अपने अंगके समान शरीरसे अभेदको प्राप्त हो जाता है इसलिये वह [किसी प्रकारका] कष्ट यानी बाधा नहीं पहुँचाता—यह इसका तात्पर्य है ।

वह गर्भिणी इस अपने पतिके आत्माको यहाँ—अपने उदरमें प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भके विरोधी भोजनादिको त्यागकर अनुकूल भोजनादिका उपयोग करती हुई उसका पालन करती है ॥ २ ॥

पुरुषका दूसरा जन्म

सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भं बिभर्ति ।
 सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स यत्कुमारं
 जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या ।
 एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥

वह [गर्भभूत पतिके आत्माका] पालन करनेवाली [गर्भिणी स्त्री अपने पतिद्वारा] पालनीया होती है । गर्भिणी स्त्री उस गर्भका पोषण करती है तथा वह (पिता) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको

प्रसवके अनन्तर पहले [जातकर्मादि संस्कारोंसे] ही संस्कृत करता है। वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस प्रकार इन लोकों (पुत्र-पौत्रादि)-की वृद्धिसे वह अपना ही संस्कार करता है; क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी वृद्धि होती है—यही इसका दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥

सा भावयित्री वर्धयित्री
भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या
वर्धयितव्या रक्षयितव्या च भर्त्रा
भवति। न ह्युपकारप्रत्युपकार-
मन्तरेण लोके कस्यचित्केनचि-
त्सम्बन्ध उपपद्यते। तं गर्भं
स्त्री यथोक्तेन गर्भधारणविधानेन
बिभर्ति धारयत्यग्रे प्राग्जन्मनः।
स पिता अग्र एव पूर्वमेव
जातमात्रं जन्मनोऽध्यूर्ध्वं जन्मनो
जातं कुमारं जातकर्मादिना
पिता भावयति। स पिता
यद्यस्मात्कुमारं जन्मनोऽध्यूर्ध्वमग्रे
जातमात्रमेव जातकर्मादिना
यद्भावयति। तदात्मानमेव
भावयति। पितुरात्मैव हि पुत्ररूपेण
जायते। तथा ह्युक्तम् “पतिर्जायां
प्रविशति” (हरि० ३।७३।३१)
इत्यादि।

तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण
जनयित्वा भावयतीत्युच्यते—एषां
लोकानां सन्तत्या अविच्छेदा-
येत्यर्थः। विच्छिद्येरन्हीमे लोकाः

गर्भभूत पतिके आत्माकी वृद्धि करनेवाली वह स्त्री अपने स्वामीद्वारा वर्धयितव्या—पालनीया होती है; क्योंकि लोकमें उपकार-प्रत्युपकारके बिना किसीके साथ किसीका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है। जन्म होनेसे पूर्व उस गर्भको वह स्त्री गर्भधारणकी यथोक्त विधिसे धारण-पोषण करती है। तथा वह पिता [जन्म होनेके बाद] पहले ही जन्म लेते ही उस कुमारका जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्मके अनन्तर उस सद्योजात कुमारका जातकर्म आदिसे संस्कार करता है सो मानो अपना ही संस्कार करता है; क्योंकि पिताका आत्मा ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है। यही बात “पतिर्जायां प्रविशति” इत्यादि वाक्योंमें कही है।

पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है? इसपर कहते हैं—इन लोकोंके विस्तार अर्थात् अविच्छेदके लिये। यदि कोई पुत्रोत्पादनादि न करें तो ये लोक

पुत्रोत्पादनादि यदि न
 कुर्युः केचन। एवं
 पुत्रोत्पादनादिकर्माविच्छेदेनैव
 सन्तताः प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि
 यस्मादिमे लोकास्तस्मा-
 त्तदविच्छेदाय तत्कर्तव्यं न मोक्षा-
 येत्यर्थः। तदस्य संसारिणः
 कुमाररूपेण मातुरुदराद्यन्निर्गमनं
 तद्रेतोरूपापेक्षया द्वितीयं जन्म
 द्वितीयावस्थाभिव्यक्तिः ॥ ३ ॥

विच्छिन्न हो जायँ। इस प्रकार, क्योंकि
 पुत्रोत्पादनादि कर्मोंका विच्छेद न होनेके
 कारण ही ये लोक वृद्धिको प्राप्त
 होकर प्रवाहरूपसे वर्तमान रहते हैं,
 इसलिये उनके अविच्छेदके लिये उस
 [पुत्रोत्पादनादि]-को करना चाहिये;
 मोक्षके लिये नहीं—यह इसका
 अभिप्राय है। इस प्रकार कुमाररूपसे जो
 माताके उदरसे बाहर निकलना है वही
 इस संसारी जीवका रेतोरूप जन्मकी
 अपेक्षा दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय
 अवस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३ ॥

पुरुषका तीसरा जन्म

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते। अथास्यायमितर
 आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति। स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते
 तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥

इस (पिता)-का यह [पुत्ररूप] आत्मा पुण्यकर्मोंके अनुष्ठानके
 लिये [घरमें पिताके स्थानपर] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता है।
 तदनन्तर इसका यह अन्य (पितृरूप) आत्मा वृद्धावस्थामें पहुँचकर
 कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है। यहाँसे कूच करनेके
 अनन्तर ही वह [कर्मफलभोगके लिये] पुनः जन्म लेता है। यही
 इसका तीसरा जन्म है ॥ ४ ॥

अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा
 पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः
 कर्मनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते पितुः
 स्थाने पित्रा यत्कर्तव्यं तत्करणाय

इस पिताका वह यह पुत्ररूप
 आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कर्मोंके
 निमित्त अर्थात् कार्यसम्पादनके लिये
 पिताके स्थानपर प्रतिनिधि स्थापित

प्रतिनिधीयत इत्यर्थः। तथा च
संप्रतिविद्यायां वाजसनेयके
पित्रानुशिष्टः—“अहं ब्रह्माहं यज्ञः”
(बृ० उ० १। ५। १७) इत्यादि
प्रतिपद्यत इति।

अथानन्तरं पुत्रे निवेश्यात्मनो
भारमस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः
पित्रात्मा कृतकृत्यः कर्तव्या-
दृणत्रयाद्विमुक्तः कृतकर्तव्य
इत्यर्थः, वयोगतो गतवया
जीर्णः सन्नैति म्रियते। स
इतोऽस्मात्प्रयन्नेव शरीरं
परित्यजन्नेव तृणजलूकावद्
देहान्तरमुपाददानः कर्मचितं
पुनर्जायते। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं
यत्तत्तृतीयं जन्म।

ननु संसरतः पितुः
सकाशाद्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म।
तस्यैव कुमाररूपेण मातुर्द्वितीयं
जन्मोक्तम्। तस्यैव तृतीये
जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर्यज्जन्म
तत्तृतीयमिति कथमुच्यते ?

किया जाता है। अर्थात् पिताको जो
कुछ करना चाहिये उसे करनेके
लिये यह प्रतिनिधि होता है। यही
बात बृहदारण्यकोपनिषद्में
संप्रतिविद्याके* प्रकरणमें पितासे
शिक्षा पाकर पुत्र कहता है—“मैं
ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ” इत्यादि।

तदनन्तर पुत्रपर अपना भार
छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप दूसरा
आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्यरूप
ऋणत्रयसे मुक्त होकर अर्थात् अपना
कर्तव्य सम्पादन करके वयोगत
होकर—अवस्था समाप्त हो जानेपर
अर्थात् वृद्ध होनेपर प्रेत—मृत्युको
प्राप्त हो जाता है। वह यहाँसे जाते
समय अर्थात् शरीरको त्यागता हुआ
ही तिनकेकी जोंक आदिके समान
कर्मोपलब्ध अन्य देहको प्राप्त करके
पुनः उत्पन्न होता है। वह जो इसे
मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका
तीसरा जन्म है।

शंका—संसारी जीवका पितासे
वीर्यरूपसे पहला जन्म बतलाया;
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा जन्म
कहा। अब उसीका तीसरा जन्म
बतलाते समय उसके मृत पिताका
जो जन्म होता है वही इसका तीसरा
जन्म है—ऐसा क्यों कहा गया ?

* जिसमें पुत्रको अपने कर्तव्य सौंपनेकी बात कही गयी है।

नैष दोषः; पितापुत्रयो-
 रैकात्म्यस्य विवक्षितत्वात्।
 सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भारं
 निधायेतः प्रयत्नेव पुनर्जायते
 यथा पिता। तदन्यत्रोक्त-
 मितरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते
 श्रुतिः; पितापुत्रयोरेकात्मत्वात् ॥ ४ ॥

समाधान—पिता और पुत्रकी
 एकात्मता बतलानी इष्ट होनेके
 कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं
 है। वह पुत्र भी अपने पिताके
 समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर
 यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन्न
 होता ही है। यह बात एकके प्रति
 कही जानेपर दूसरेके लिये भी कह
 ही दी गयी है—ऐसा श्रुति मानती
 है; क्योंकि पिता और पुत्र एकरूप
 ही हैं ॥ ४ ॥

वामदेवकी उक्ति

एवं संसरन्नवस्थाभिव्यक्ति-
 त्रयेण जन्ममरणप्रबन्धारूढः सर्वो
 लोकः संसारसमुद्रे निपतितः
 कथंचिद्यदा श्रुत्युक्तमात्मानं
 विजानाति यस्यां कस्यांचि-
 दवस्थायां तदैव मुक्तसर्वसंसार-
 बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति—

इस प्रकार संसरण करता [अर्थात्
 संसारमें उत्पन्न होता] हुआ और
 अवस्थाकी तीन अभिव्यक्तियोंके
 क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर
 आरूढ़ हुआ सम्पूर्ण लोक संसारसमुद्रमें
 पड़ा-पड़ा जिस समय किसी प्रकार
 जिस-किसी अवस्थामें भी अपने
 श्रुतिप्रतिपादित आत्माको जान लेता
 है उसी समय वह सम्पूर्ण
 संसारबन्धनोंसे मुक्त होकर कृतकृत्य
 हो जाता है—

तदुक्तमृषिणा—गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि
 विश्वा । शतं मा पुर आयसीरपक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति ।
 गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥

यही बात ऋषि (मन्त्र)-ने भी कही है—‘मैंने गर्भमें रहते हुए ही इन देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान लिया है। [तत्त्वज्ञान होनेसे पूर्व] मुझे सैकड़ों लोहमय (लोहेके समान सुदृढ़) शरीरोंने अवरुद्ध किया हुआ था। अब [तत्त्वज्ञानके प्रभावसे] मैं श्येन पक्षीके समान [उनका छेदन करके] बाहर निकल आया हूँ—वामदेवने गर्भमें शयन करते समय ही ऐसा कहा था ॥ ५ ॥

एतद्वस्तु तदृषिणा
मन्त्रेणाप्युक्तमित्याह—

गर्भे नु मातुर्गर्भाशय एव
सन्। न्विति वितर्के। अनेक-
जन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेषां
देवानां वागग्न्यादीनां जनिमानि
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वाण्यन्व-
वेदमहमहो अनुबुद्धवानस्मीत्यर्थः
शतमनेका बह्व्यो मा मां पुर
आयसीः, आयस्यो लोहमय्य
इवाभेद्यानि शरीराणीत्यभिप्रायः,
अरक्षन्क्षितवत्यः संसार-
पाशनिर्गमनादधः। अथ श्येन इव
जालं भित्त्वा जवसा
आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं
निर्गतोऽस्मि। अहो गर्भ एव
शयानो वामदेव ऋषि-
रेवमुवाचैतत् ॥ ५ ॥

यही बात ऋषि यानी मन्त्रने भी
कही है, सो बतलाते हैं—

‘गर्भे नु’—माताके गर्भमें रहते
हुए ही—यहाँ ‘नु’ शब्द वितर्कका
बोध कराता है—अनेक जन्मान्तरोंकी
भावनाके परिपाकवश मैंने इन वाक्
एवं अग्नि आदि देवताओंके सम्पूर्ण
जन्मोंका अनुभव—बोध प्राप्त किया
है। मुझे संसारबन्धनसे मुक्त होनेसे
पूर्व आयसी अर्थात् लोहमयीके समान
सैकड़ों—अनेकों अभेद्य पुरियों—
शरीरोंने सुरक्षित (अवरुद्ध) किया
हुआ था। अब जालको काटकर वेगसे
उड़ जानेवाले श्येन (बाज पक्षी)-
के समान मैं आत्मज्ञानजनित सामर्थ्यके
द्वारा उससे बाहर निकल आया हूँ—
अहो! वामदेव ऋषिने गर्भमें शयन
करते हुए ही ऐसा कहा था ॥ ५ ॥

वामदेवकी गति

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके
सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ६ ॥

वह [वामदेव ऋषि] ऐसा ज्ञान प्राप्तकर इस शरीरका नाश होनेके अनन्तर उत्क्रमणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत स्वर्ग (स्वप्रकाश) लोकमें सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्तकर अमर हो गया, [अमर] हो गया ॥ ६ ॥

स वामदेव ऋषिर्यथोक्त-
मात्मानमेव विद्वानस्माच्छरीरभेदा-
च्छरीरस्याविद्यापरिकल्पितस्य
आयसवदनिर्वेद्यस्य जनन-
मरणाद्यनेकानर्थशताविष्टशरीर-
प्रबन्धनस्य परमात्मज्ञानामृतोपयोग-
जनितवीर्यकृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति-
बीजाविद्यादिनिमित्तोपमर्दहेतोः
शरीरविनाशादित्यर्थः । ऊर्ध्वः
परमात्मभूतः सन्नधोभावा-
त्संसारादुत्क्रम्य ज्ञानावद्योतितामल-
सर्वात्मभावमापन्नः सन्न-
मुष्मिन्यथोक्तेऽजरेऽमरेऽमृतेऽ-
भये सर्वज्ञेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबाह्ये
प्रज्ञानामृतैकरसे प्रदीपवन्निर्वाण-
मत्यगमत्स्वर्गे लोके स्वस्मि-
न्नात्मनि स्वे स्वरूपेऽमृतः समभवत् ।
आत्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया

वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्माको इस प्रकार जानकर इस शरीरका नाश होनेके अनन्तर अर्थात् लोहमयके समान दुर्भेद्य और जन्म-मरणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों अनर्थोंसे समन्वित इस अविद्यापरिकल्पित शरीरपरम्पराका परमात्मज्ञानरूप अमृतके उपयोग (आस्वाद)-से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर यानी शरीरोत्पत्तिके बीजभूत अविद्या आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेवाले देहपातके अनन्तर ऊर्ध्व अर्थात् परमात्मभावको प्राप्त हो अधोभाव यानी संसारसे ऊपर उठ तत्त्वज्ञानसे उद्भासित निर्मल सर्वात्मभावको प्राप्त हो उस (इन्द्रियोंसे अगोचर) पूर्वोक्त अजर, अमर, अमृत, अभय, सर्वज्ञ, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य और एकमात्र प्रज्ञानामृतस्वरूप स्वर्गलोकमें दीपककी भाँति शान्त हो गया; अर्थात् अपने आत्मा—स्व-स्वरूपमें स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह है कि आत्मज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्णकाम होनेके कारण अर्थात्

जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वेत्यर्थः ।
 द्विर्वचनं सफलस्य सोदाहरण-
 स्यात्मज्ञानस्य परिसमाप्ति-
 प्रदर्शनार्थम् ॥ ६ ॥

जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण कामनाएँ
 प्राप्तकर [वह अमरत्वको प्राप्त
 हो गया] । फल और उदाहरणके
 सहित आत्मज्ञानकी सम्यक्
 समाप्ति सूचित करनेके लिये यहाँ
 [समभवत्-समभवत्—ऐसी] द्विरुक्ति
 की गयी है ॥ ६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-
 श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्ब्राह्म्ये द्वितीयेऽध्याये
 प्रथमः खण्डः समाप्तः ।

उपनिषत्क्रमेण द्वितीयः, आरण्यकक्रमेण
 पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।



तृतीयोऽध्यायः

प्रथम खण्ड

आत्मसम्बन्धी प्रश्न

ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्म-
भावफलावाप्तिं वामदेवाद्याचार्य-
परम्परया श्रुत्यावद्योत्यमानां
ब्रह्मवित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धामुपलभमाना
मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना
ब्रह्मजिज्ञासवोऽनित्यात्साध्य-
साधनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्
व्याविवृत्सवो विचारयन्तो-
ऽन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेति ?
कथम्—

श्रुतिद्वारा वामदेव आदि
आचार्योंकी परम्परासे प्रकाशित
तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सभामें
अत्यन्त प्रसिद्ध, ब्रह्मविद्यारूप
साधनके किये हुए सर्वात्मभावरूप
फलकी प्राप्तिको उपलब्ध
करनेवाले आधुनिक मुमुक्षु
और ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मणलोग
जीवभावपर्यन्त साध्य-साधनरूप
अनित्य संसारसे निवृत्त
होनेकी इच्छासे परस्पर विचार
करते हुए पूछते हैं—यह आत्मा
कौन है? किस प्रकार
[पूछते हैं? सो बतलाया
जाता है]—

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा, येन वा
पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं
व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १ ॥

हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है? जिससे
[प्राणी] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्धोंको सूँघता है,

जिससे वाणीका विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु-अस्वादुका ज्ञान प्राप्त करता है वह [श्रुतिकथित दो आत्माओंमेंसे] कौन-सा आत्मा है? ॥ १ ॥

यमात्मानमयमात्मेति साक्षा-
द्वयमुपास्महे कः स आत्मेति यं
चात्मानमयमात्मेति साक्षा-
दुपासीनो वामदेवोऽमृतः समभव-
त्तमेव वयमप्युपास्महे को नु खलु
स आत्मेति ।

एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं
पृच्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्रुति-
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत ।
'तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मं
पुरुषम्' 'स एतमेव सीमानं
विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत'
एतमेव पुरुषम् । अत्र द्वे ब्रह्मणी
इतरेतरप्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने
इति । ते चास्य पिण्डस्यात्मभूते ।
तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भवितु-
मर्हति । योऽत्रोपास्यः कः स
आत्मेति विशेषनिर्धारणार्थं पुन-
रन्योन्यं पप्रच्छुर्विचारयन्तः ।

हम जिस आत्माकी 'यह आत्मा
है' इस प्रकार साक्षात् उपासना करते
हैं वह आत्मा कौन है? तथा जिस
आत्माकी 'यह आत्मा है' इस प्रकार
साक्षात् उपासना करनेवाला वामदेव
अमर हो गया था उसी आत्माकी
हम उपासना करते हैं । किन्तु वस्तुतः
वह आत्मा है कौन-सा ?

इस प्रकार जिज्ञासापूर्वक एक-
दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म-
सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति
पैदा हुई—'इस पुरुषमें ब्रह्म
पादाग्रभागद्वारा प्रविष्ट हुआ' तथा
इसी पुरुषमें 'वह इस सीमाको ही
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ ।
इस प्रकार यहाँ एक-दूसरेसे प्रतिकूल
दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे इस
पिण्डके आत्मस्वरूप हैं । इनमेंसे
कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो
सकता है । इनमें जो उपासनीय है
वह आत्मा कौन-सा है? इस
विशेष बातको निश्चय करनेके
लिये उन्होंने आपसमें विचार करते
हुए एक-दूसरेसे फिर पूछा ।

पुनस्तेषां विचारयतां
 विशेषविचारणास्पदविषया
 मतिरभूत्। कथम्? द्वे वस्तुनी
 अस्मिन् पिण्ड उपलभ्येते।
 अनेकभेदभिन्नेन करणेन
 येनोपलभते। यश्चैक उपलभते।
 करणान्तरोपलब्धविषयस्मृतिप्रति-
 सन्धानात्। तत्र न तावद्येनोपलभते
 स आत्मा भवितुमर्हति।
 केन पुनरुपलभत इत्युच्यते
 येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं
 पश्यति। येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन
 शब्दम्, येन वा घ्राणभूतेन
 गन्धानाजिघ्रति, येन वा
 वाक्करणभूतेन वाचं नामात्मिकां
 व्याकरोति गौरश्व इत्येवमाद्यां
 साध्वसाध्विति च, येन वा
 जिह्वाभूतेन स्वादु चास्वादु च
 विजानातीति ॥ १ ॥

फिर आपसमें विचार करनेवाले
 उन मुमुक्षुओंको अपने विचारणीय
 विशेष विषयके सम्बन्धमें यह बुद्धि
 पैदा हुई। किस प्रकार पैदा हुई? [सो
 बतलाते हैं—] इस पिण्डमें दो वस्तुएँ
 उपलब्ध होती हैं—एक तो जिस चक्षु
 आदि अनेक प्रकारके भेदोंसे विभिन्न
 साधन (इन्द्रियग्राम)—द्वारा [पुरुष
 विषयोंको] उपलब्ध करता है और
 दूसरा जो उपलब्ध किया करता है;
 क्योंकि वह भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंद्वारा
 उपलब्ध हुए विषयोंकी स्मृतिका
 अनुसन्धान करता है। उनमेंसे जिसके
 द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो
 आत्मा हो नहीं सकता।

तो फिर वह किसके द्वारा
 उपलब्ध करता है, सो बतलाया
 जाता है—नेत्रके साथ एकीभूत हुए
 जिस श्रोत्रभावापन्नके द्वारा वह शब्द
 श्रवण करता है, जिस घ्राणेन्द्रियभूतसे
 वह गन्धोंको सूँघता है, जिस
 वागिन्द्रियभूतसे वह गौ-अश्व इत्यादि
 नामात्मिका तथा साधु-असाधु
 वाणीका विश्लेषण करता है और
 जिस रसनेन्द्रियभूतसे वह स्वादु-
 अस्वादु पदार्थोंको जानता है ॥ १ ॥

प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम

किं पुनस्तदेवैकमनेकधा | पहले जो एक ही अनेक प्रकारसे
भिन्नं करणम्? इत्युच्यते— विभिन्न करण बतलाया है वह
कौन है? इसपर कहते हैं—

यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा
दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो
वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

यह जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान (चेतनता), आज्ञान (प्रभुता), विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति (रोगादिजनित दुःख), स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु (प्राण), काम और वश (मनोज्ञ वस्तुओंके स्पर्शादिकी कामना)—ये सभी प्रज्ञानके नाम हैं ॥ २ ॥

यदुक्तं पुरस्तात्प्रजानां रेतो
हृदयं हृदयस्य रेतो मनो
मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च
हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः ।
तदेवैतद्धृदयं मनश्च, एकमेव
तदनेकधा । एतेनान्तःकरणैकेन
चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति श्रोत्रभूतेन
शृणोति घ्राणभूतेन जिघ्रति
वाग्भूतेन वदति जिह्वाभूतेन रसयति
स्वेनैव विकल्पनारूपेण मनसा
विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यवस्यति ।

पहले जो कहा है कि प्रजाओंका
रेतस् (सारभूत) हृदय है, हृदयका
सारभूत मन है, मनसे जल और
वरुणकी सृष्टि हुई; हृदयसे मन
हुआ और मनसे चन्द्रमा। वह यह
हृदय ही मन भी है। वह एक ही
अनेक रूप हो रहा है। इस एक
अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपको
देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता
है, घ्राणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रियरूपसे
बोलता है, जिह्वारूपसे चखता है, स्वयं
संकल्प-विकल्परूप मनसे संकल्प
करता है और हृदयरूपसे निश्चय
करता है। अतः उपलब्धाकी समस्त

तस्मात्सर्वकरणविषय-
व्यापारकमेकमिदं करणं
सर्वोपलब्ध्यर्थमुपलब्धुः ।

तथा च कौषीतकीनां
“प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा
सर्वाणि नामान्याप्नोति । प्रज्ञया
चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि
रूपाण्याप्नोति” (३।६) इत्यादि ।
वाजसनेयके च—“मनसा ह्येव
पश्यति मनसा शृणोति हृदयेन
हि रूपाणि जानाति” (बृ०
उ० १। ५। ३) इत्यादि ।
तस्माद्हृदयमनोवाच्यस्य सर्वोपलब्धि-
करत्वं प्रसिद्धम् । तदात्मकश्च
प्राणो “यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या
वै प्रज्ञा स प्राणः” (कौषी० ३।
३) इति हि ब्राह्मणम् ।

करणसंहतिरूपश्च प्राण
इत्यवोचाम प्राणसंवादादौ ।
तस्माद्यत्पद्भ्यां प्रापद्यत तद्ब्रह्म
तदुपलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण-
भूतत्वान्नैव तद्वस्तु
ब्रह्मोपास्यात्मा भवितुमर्हति । पारि-

उपलब्धियोंके लिये इन्द्रियसम्बन्धी
सारे व्यापारोंको करनेवाला यही
एक साधन है ।

इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषद्में
भी कहा है—“प्रज्ञाद्वारा वाणीपर आरूढ
होकर वाणीसे सम्पूर्ण नामोंको प्राप्त
(ग्रहण) करता है, प्रज्ञाद्वारा चक्षु
इन्द्रियपर आरूढ होकर चक्षुसे सारे
रूपोंको प्राप्त करता है” इत्यादि ।
तथा बृहदारण्यकमें कहा है—“मनसे
ही देखता है, मनसे ही सुनता है,
हृदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता
है” इत्यादि । अतः हृदय और
मनःशब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब
प्रकारकी उपलब्धिमें साधनत्व प्रसिद्ध
है । प्राण भी तद्रूप ही है । “जो प्राण
है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही
प्राण है” ऐसा ब्राह्मणवाक्य है ।

‘प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप है’
यह बात हम प्राणसंवाद आदि प्रकरणोंमें
कह चुके हैं । अतः जिसने चरणोंकी
ओरसे प्रवेश किया था वह ब्रह्म
उपलब्धाकी उपलब्धिका साधन
होनेके कारण गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म
अर्थात् उपास्य आत्मा नहीं हो सकता ।
अतः पारिशेष्यनियमानुसार* जिस

* जहाँ आपाततः अनेकोंमेंसे किसी एक धर्म या गुणकी सम्भावना प्रतीत होनेपर
भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसी एक ही पदार्थमें उसका निर्णय किया
जाता है वहाँ ‘पारिशेष्यनियम’ माना जाता है ।

शेष्याद्यस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्था
एतस्य हृदयस्य मनोरूपस्य
करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणाः ।
स उपलब्धोपास्य आत्मानो-
ऽस्माकं भवितुमर्हतीति निश्चयं
कृतवन्तः ।

तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धुः
प्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण
उपलब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो
बाह्यान्तर्वर्तिविषयविषयास्ता इमा
उच्यन्ते । संज्ञानं संज्ञप्तिश्चेतन-
भावः, आज्ञानमाज्ञप्तिरीश्वरभावः,
विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम्, प्रज्ञानं
प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थधारण-
सामर्थ्यम्, दृष्टिरिन्द्रियद्वारा
सर्वविषयोपलब्धिः, धृतिर्धारण-
मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां
ययोत्तम्भनं भवति—धृत्या शरीर-
मुद्वहन्तीति हि वदन्ति, मति-
र्मननम्, मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यम्,
जूतिश्चेतसो रुजादिदुःखित्व-
भावः, स्मृतिः स्मरणम्, संकल्पः
शुक्लकृष्णादिभावेन संकल्पनं
रूपादीनाम्, क्रतुरध्यवसायः,
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया-

उपलब्धाकी उपलब्धिके लिये इस
हृदय एवं मनोरूप अन्तःकरणकी
आगे बतलायी जानेवाली वृत्तियाँ
होती हैं वह उपलब्धा ही हमारा
उपासनीय आत्मा है—ऐसा उन्होंने
निश्चय किया ।

उस अन्तःकरणरूप उपाधिमें
स्थित प्रज्ञानरूप उपलब्धा ब्रह्मकी
उपलब्धिके लिये जो बाह्य और
आन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाली
अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं वे ये बतलायी
जाती हैं—‘संज्ञान-संज्ञप्ति अर्थात्
चेतनभाव, आज्ञान—आज्ञा करना
अर्थात् ईश्वरभाव (प्रभुता), विज्ञान—
कलादिका ज्ञान, प्रज्ञान—प्रज्ञप्ति यानी
प्रज्ञता (समयोचित बुद्धि स्फुरित हो
जाना—प्रतिभा), मेधा—ग्रन्थधारणकी
शक्ति, दृष्टि—इन्द्रियोंद्वारा सब
विषयोंको उपलब्ध करना, धृति—
धारण करना, जिससे शिथिल हुए
शरीर और इन्द्रियोंमें जागृति होती है,
‘धृतिसे ही शरीरको उठाकर वहन
करते हैं’ ऐसा [पण्डितजन] कहते
भी हैं, मति—मनन करना, मनीषा—
मनन करनेकी स्वतन्त्रता, जूति—
चित्तका रोगादिसे दुःखी होना, स्मृति—
स्मरण, संकल्प—शुक्ल-कृष्णादि-
भावसे रूपादिका संकल्प करना,

निमित्ता-वृत्तिः, कामोऽसंनिहित-
 विषयाकाङ्क्षा तृष्णा,
 वशः स्त्रीव्यतिकराद्यभिलाषः,
 इत्येवमाद्या अन्तःकरणवृत्तयः
 प्रज्ञप्तिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थ-
 त्वाच्छुद्धप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण
 उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण-
 नामधेयानि भवन्ति संज्ञानादीनि ।
 सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य
 नामधेयानि भवन्ति न स्वतः
 साक्षात् । तथा चोक्तं “प्राणनेव
 प्राणो नाम भवति” (बृ० उ०
 १ । ४ । ७) इत्यादि ॥ २ ॥

क्रतु—अध्यवसाय, असु—जीवनकी
 निमित्तभूत श्वासोच्छ्वासादि क्रिया,
 काम—अप्राप्त विषयकी आकांक्षा यानी
 तृष्णा और वश—स्त्रीसंसर्गादिकी
 अभिलाषा—इत्यादि प्रकारकी अन्तः-
 करणकी वृत्तियाँ प्रज्ञप्तिरूप
 उपलब्धाकी उपलब्धिके लिये होनेके
 कारण विशुद्धबोधस्वरूप ब्रह्मकी
 उपाधिभूत हैं । अतः उसकी
 उपाधिजनित गुणवृत्तिसे ये संज्ञान आदि
 उस ब्रह्मके ही नाम हैं । ये सभी
 प्रज्ञप्तिमात्र प्रधानके नाम ही हैं; स्वतः
 साक्षात् कुछ नहीं हैं ऐसा ही कहा भी
 है—“प्राणन करनेके कारण ही [ब्रह्म]
 प्राण नामवाला है” इत्यादि ॥ २ ॥

प्रज्ञानकी सर्वरूपता

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च
 पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो
 ज्योतीषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेताराणि
 चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा
 गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च
 यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो
 लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥

यह (प्रज्ञानरूप आत्मा) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति
 है, यही ये [अग्नि आदि] सारे देव तथा पृथिवी, वायु, आकाश, जल

और तेज—ये पाँच भूत हैं, यही क्षुद्र जीवोंके सहित उनके बीज (कारण) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज्ज, अश्व, गौ, मनुष्य एवं हाथी हैं तथा [इनके अतिरिक्त] जो कुछ भी यह जंगम (पैरसे चलनेवाले), पतत्रि (आकाशमें उड़नेवाले) और स्थावर (वृक्ष-पर्वत आदि) रूप प्राणिवर्ग है वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान (निरुपाधिक चैतन्य)—में ही स्थित है। लोक प्रज्ञानेत्र (प्रज्ञा—चैतन्य ही जिसका नेत्र—व्यवहारका कारण है ऐसा) है, प्रज्ञा ही उसका लयस्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है ॥ ३ ॥

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा
ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्थः प्राणः
प्रज्ञात्मा । अन्तःकरणोपाधिष्वनु-
प्रविष्टो जलभेदगतसूर्यप्रतिविम्ब-
वद्धिरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा ।
एष एव इन्द्रो गुणादेवराजो वा ।
एष प्रजापतिर्यः प्रथमजः शरीरी ।
यतो मुखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्यादयो
लोकपाला जाताः स प्रजापतिरेष
एव । येऽप्येतेऽग्न्यादयः सर्वे देवा
एष एव ।

इमानि च सर्वशरीरोपादान-
भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि
महाभूतान्यन्नान्नादत्वलक्षणान्येतानि
किंचेमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रै-

वह यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही अपरब्रह्म है, अर्थात् सम्पूर्ण शरीरोंमें स्थित प्राण—प्रज्ञात्मा है। विभिन्न जलपात्रोंमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके समान यही अन्तःकरणरूप उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ—प्राण यानी प्रज्ञात्मा है। यही [‘इदमदर्शम्’ इस श्रुतिमें बतलाये हुए] गुणके कारण इन्द्र अथवा देवराज है। यही प्रजापति है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी है। जिससे मुखादिनिर्भेदके द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं वह प्रजापति भी यही है। और भी ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं वे भी यही हैं।

ये जो समस्त शरीरोंके उपादानभूत एवं अन्न और अन्नादत्वभावको प्राप्त हुए पृथिवी आदि पंचभूत हैं, क्षुद्र यानी अल्प जीवोंके सहित जो सर्पादि हैं तथा बीज—कारण और इतर—कार्यवर्ग

रल्पकैर्मिश्राणि, इवशब्दोऽनर्थकः,
सर्पादीनि बीजानि कारणानीतराणि
चेतराणि च द्वैराशयेन
निर्दिश्यमानानि ।

कानि तानि? उच्यन्ते—
अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारुजानि
जरायुजानि मनुष्यादीनि,
स्वेदजादीनि यूकादीनि, उद्भिज्जानि
च वृक्षादीनि, अश्वा गावः पुरुषा
हस्तिनोऽन्यच्च यत्किंचेदं
प्राणिजातम्; किं तत्? जङ्गमं
यच्चलति पद्भ्यां गच्छति । यच्च
पतत्रि आकाशेन पतनशीलम् ।
यच्च स्थावरमचलम् । सर्वं
तदेष एव । सर्वं तदशेषतः
प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तच्च
ब्रह्मैव । नीयतेऽनेनेति नेत्रम्
प्रज्ञा नेत्रं यस्य तदिदं
प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने ब्रह्मण्युत्पत्ति-
स्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठितं
प्रज्ञाश्रयमित्यर्थः । प्रज्ञानेत्रो लोकः
पूर्ववत् । प्रज्ञाचक्षुर्वा सर्व एव
लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य
जगतः । तस्मात्प्रज्ञानं ब्रह्म ।

तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधि-
विशेषं सन्निरञ्जनं निर्मलं निष्क्रियं

इस प्रकार अलग-अलग दो विभागोंसे
निर्दिष्ट [समस्त प्राणी हैं वे भी यही
हैं] । ['क्षुद्रमिश्राणीव' इस पदसमूहमें]
'इव' शब्दका प्रयोग अनर्थक है ।

वे कौन-कौन हैं, सो बतलाते
हैं । अण्डज—पक्षी आदि, जारुज—
जरायुज—मनुष्यादि, स्वेदज—जूँ आदि,
उद्भिज्ज—वृक्षादि तथा अश्व, गौ,
पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये जो कुछ
प्राणी हैं—वे कौन-कौन-से? जंगम—
जो पैरोंसे चलते हैं, पक्षी—जो आकाशमें
उड़नेवाले हैं और स्थावर—जो अचल
हैं, वे सब यही हैं अर्थात् वे सब-
के-सब प्रज्ञानेत्र हैं । प्रज्ञा प्रज्ञप्तिको
कहते हैं और वह ब्रह्म ही है तथा
जिससे नयन किया जाय [अर्थात् ले
जाया जाय] उसे 'नेत्र' कहते हैं ।
इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है
वह प्रज्ञानेत्र कहलाता है । तथा उत्पत्ति,
स्थिति और प्रलयके समय प्रज्ञान यानी
ब्रह्ममें स्थित रहनेवाले अर्थात् प्रज्ञाके
आश्रित हैं । इस प्रकार पूर्ववत् यह
लोक प्रज्ञानेत्र है अर्थात् सभी लोक
प्रज्ञारूप नेत्रवाला है, सम्पूर्ण जगत्का
आश्रय प्रज्ञा ही है; अतः प्रज्ञान ही
ब्रह्म है ।

जो सम्पूर्ण औपाधिक विशेषतासे
रहित, नित्य, निरंजन, निर्मल, निष्क्रिय,

शान्तमेकमद्वयं “नेति नेति”
 इति (बृ० उ० ३।१।२६)
 सर्वविशेषापोहसंवेद्यं सर्वशब्द-
 प्रत्ययागोचरम्। तदत्यन्त-
 विशुद्धप्रज्ञोपाधिसम्बन्धेन सर्वज्ञ-
 मीश्वरं सर्वसाधारणाव्याकृत-
 जगद्बीजप्रवर्तकं नियन्तृत्वा-
 दन्तर्यामिसंज्ञं भवति। तदेव
 व्याकृतजगद्बीजभूतबुद्ध्यात्माभिमान-
 लक्षणाहिरण्यगर्भसंज्ञं भवति।
 तदेवान्तरण्डोद्भूतप्रथमशरीरोपाधि-
 मद्विराट्प्रजापतिसंज्ञं भवति।
 तदुद्भूताग्न्याद्युपाधिमद्देवतासंज्ञं
 भवति। तथा विशेषशरीरोपाधि-
 ष्वपि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु
 तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः। तदेवैकं
 सर्वोपाधिभेदभिन्नं सर्वैः
 प्राणिभिस्तार्किकैश्च सर्वप्रकारेण
 ज्ञायते विकल्प्यते चानेकधा।
 “एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये
 प्रजापतिम्। इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे
 ब्रह्म शाश्वतम्” (मनु० १२।
 १२३) इत्याद्या स्मृतिः ॥ ३ ॥

शान्त, एक और अद्वितीय है जो “नेति
 नेति” इत्यादि [श्रुतियोंद्वारा] क्रमसे
 समस्त विषयोंका बाध करके जानने-
 योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक
 ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त विशुद्ध
 प्रज्ञारूप उपाधिके सम्बन्धसे सर्वज्ञ
 तथा जगत्के सर्वसाधारण और अव्यक्त
 बीजका प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका
 नियन्ता होनेके कारण ‘अन्तर्यामी’
 नामवाला है; वही व्याकृत जगत्का
 बीजभूत विज्ञानात्माका अभिमानी
 ‘हिरण्यगर्भ’ नामवाला है तथा वही
 ब्रह्माण्डके भीतर सबसे पहले उत्पन्न
 हुए शरीररूप उपाधिवाला ‘विराट्
 प्रजापति’ संज्ञावाला है। वही उससे
 उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी उपाधिसे
 ‘देवता’ संज्ञावाला है तथा उस ब्रह्मको
 ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त विशेष-
 विशेष शरीरोंकी उपाधियोंमें भी उन-
 उनके नाम और रूप प्राप्त हुए हैं।
 सम्पूर्ण उपाधिभेदसे विभिन्न वही एक
 समस्त प्राणियों और तार्किकोंद्वारा सब
 प्रकारसे जाना जाता और अनेक प्रकारसे
 कल्पना किया जाता है। [इस विषयमें]
 “इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा
 कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र,
 कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म
 कहते हैं” इत्यादि स्मृति भी है ॥ ३ ॥

आत्मैक्यवेत्ताकी अमृतत्व-प्राप्ति

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके
सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ४ ॥

वह (वामदेव) इस चैतन्यस्वरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्गलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो गया, [अमर] हो गया ॥ ४ ॥

स वामदेवोऽन्यो वैवं यथोक्तं
ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्मना; येनैव
प्रज्ञेनात्मना पूर्वं विद्वांसोऽमृता
अभूवंस्तथायमपि विद्वानेतेनैव
प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्य
इत्यादि व्याख्यातम् ।
अस्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे
लोके सर्वान्कामानाप्त्वा अमृतः
समभवत्समभवदित्योमिति ॥ ४ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको जाननेवाला वह वामदेव अथवा कोई अन्य पुरुष चेतनात्मस्वरूपसे, जिस चेतनात्मस्वरूपसे पूर्ववर्ती विद्वान् अमरभावको प्राप्त हुए थे उसी प्रकार यह विद्वान् भी इस चेतनात्मस्वरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर—इत्यादि वाक्यकी पहले (१।२।६में) ही व्याख्या की जा चुकी है। अर्थात् इस लोकसे उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्गलोकमें सम्पूर्ण कामनाएँ पाकर अमर हो गया, [अमर] हो गया— इत्यलम् ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये तृतीयेऽध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः ।

उपनिषत्क्रमेण तृतीयः, आरण्यकक्रमेण

षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

॥ ॐ तत्सत् ॥

ॐ

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः
श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं
ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म
निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि
सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

॥ हरिः ॐ तत्सत् ।

॥ श्रीहरिः ॥

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	खं०	मं०	पृ०
ॐ आत्मा वा इदम्	१	१	१	३०
अग्निर्वाग्भूत्वा मुखम्	१	२	४	४३
एष ब्रह्मैष इन्द्रः	३	१	३	८९
कोऽयमात्मेति वयम्	३	१	१	८३
तच्चक्षुषाजिघृक्षत्	१	३	५	४९
तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्	१	३	९	४९
तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्	१	३	६	४९
तत्त्वचाजिघृक्षत्	१	३	७	४९
तत्प्राणेनाजिघृक्षत्	१	३	४	४८
तत्स्त्रिया आत्मभूतम्	२	१	२	७४
तदपानेनाजिघृक्षत्	१	३	१०	५०
तदुक्तमृषिणा	२	१	५	७९
तदेनत्सृष्टम्	१	३	३	४७
तन्मनसाजिघृक्षत्	१	३	८	४९
तमभ्यतपत्	१	१	४	३६
तमशनायापिपासे	१	२	५	४४
तस्मादिन्द्रो नाम	१	३	१४	५७
ता एता देवताः सृष्टाः	१	२	१	३९
ताभ्यः पुरुषमानयत्ताः	१	२	३	४२
ताभ्यो गामानयत्ताः	१	२	२	४१
पुरुषे ह वा अयम्	२	१	१	७३
यदेतद्धृदयं मनश्चैतत्	३	१	२	८६
स इमाँल्लोकानसृजत	१	१	२	३३
स ईक्षत कथं न्विदम्	१	३	११	५०
स ईक्षतेमे नु लोकाः	१	१	३	३६

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	खं०	मं०	पृ०
स ईक्षतेमे नु लोकाश्च	१	३	१	४६
स एतमेव सीमानम्	१	३	१२	५४
स एतेन प्रज्ञेनात्मना	३	१	४	९३
स एवं विद्वानस्मात्	२	१	६	८०
स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्	१	३	१३	५६
सा भावयित्री	२	१	३	७५
सोऽपोऽभ्यतपत्	१	३	२	४६
सोऽस्यायमात्मा	२	१	४	७७

